

26  
mc

# हारमोनिप्पम मारटर

(तबला-स्त्रिया-वेंजो)

अनेक फिल्मी गानों की स्वर लिपियाँ, बैंजो, बांसुरी आदि बजाने की रीति, हारमोनियम के स्वर भेद और बजाने का ढंग, स्वरों के भेद, वादन चिह्न और व्याख्या, गायक, संगीत निर्देशक और फिल्म के नाम और नाना प्रकार के गायनों से परिपूर्ण ।

रचयिता—

प्रह्लाददत्त शर्मा गौड़

प्रकाशक—

अग्रवाल बुक डिपो,

खारी वावली देहली ।

प्रथम बार

मूल्य ५

प्रकाशक—  
अग्रवाल बुकडिपो  
खारी बावली देहली।

SRI RAMAKRISHNA PASHANA  
SIVALAYA  
KARAN NAGAR,  
SRINAGAR, KASHMIR.

सर्वाधिकार प्रकाशक के आधीन है

SRI RAMAKRISHNA PASHANA  
LIBRARY, SRINAGAR.  
Accession No. 2077...  
Date 8-11-81

मुद्रक—  
पुल मिठाई देहली।  
राजेन्द्र प्रिंटिंग प्रैस

## विष्णु-सूचा

	पृष्ठ
हास्यौन्नियम की वर्णन	१
हारमौनियम की विस्तृति	१
हास्यौनियम का मुख्य २ बातों का वर्णन	२
हारमौनिय को खाले कर बजाना	४
हारमौनियम का बन्द करना	५
बाजे पर उंगलियां चलाना	७
कुछ आवश्यक बातें	८
स्वरचित्र हारमौनियम का	११
बाजे पर सरगम बजाना	१३
मन तड़पत हरि दर्शन को आज	१५
ओदुनियां के रखवाले	१८
बचपन की मुहब्बत को दिल से न छुदा करना	२२
मोह भूल गये सांवरिया	२५
दूर कोई गाये	२७
तू गंगा की मौज में	२८
धोरे से आजारी	३२
उल्फत का साज छेड़ो समां सुहाना है	३४
दरदे उल्फत	३६
ये दुनियां बनाई हैं किस वे रहमने	४१
यह जिन्दगी उसी की है	४१
आजाने वफा	४३
आजा अब तो आजा	४७
मुझ से मत पूछ	५०
दुआ कर गये दिल	५२
जाग दर्दे इश्क जाग	५५

मेरी तकदीर मुझे आज कहां लाई है	५८
✓ इस दिल की हालत क्या कहिये	६१
✓ तस्वीर बनादा हूँ तेरी खूने जिगर से	६४
✓ दुनियां बदल रही है आंसू बहाने वाले	६६
मैं राही भटकने वाला हूँ	६६
उनसे प्यार हो गया	७१
दो दिन के लिये मेहमान यहां	७३
अनमोल प्यार बिनमोल बिके	७५
आज मेरे मन में सखी	७८
आग लगी तन मन भ	८२
✓ दिल में छुपा के प्यार का	८४
✓ मान में अहसान	८६
✓ तुम्हे खो दिया हमने	८६
बड़े अरमान से रखा है	९१
ये मेरे मजबूर दिल से न मौहब्बत	९४
✓ जालमा बड़ा नादानरे	९५
✓ तेरी दुनियां में दिल लगता	९८
तूने हाय मेरे जख्मे जिगर	१००
चमन में रह के	१०२
लेजा मेरी दुआयें	१०४
देख लिया मैंने किस्मत का	१०७
हो बज्रपन के दिन भुला न देना	११०
✓ मेरी कहानी भूलने वाले	११३
जब से बलम घर आये	११५
दद भर जो इधर मुँह फेरे अ चन्दा	११७
आजाओ तड़फते हैं अरम	१२०

✓ हम तुम से मुहब्बत	१२३
हार आया मेरा परदेशी	१२६
गम का फसाना किस को	१२८
परदेश वल्म तुम जाओगे	१३०
गये जा गीत मिलन के	१३२
मेरा दिल तोड़ने वाले	१३५
✓ हो मुझे किसी से प्यार हो गया	१३८
बरसात में हम तुम से मिले	१४१
छोड़ गये बालम	१४३
✓ तू मेरा चांद मैं	१४६
इस दुनियां में अय दिल वालों	१४८
तेरे कुचे में अरमानों की	१५२
जिया वे करार हैं	१५३
अफसाना लिख रही हूँ	१५५
जबां हैं मुहब्बत	१५८
कथा मिल गया भगवान	१६०
जब दिल को सताये गम	१६३
मुहब्बत में ऐसे जमाने भी आये	१६६
चली जा चली जा	१६८
बतन की राह में	१७१
कुप २ कर मत देख	१७३
जब तुमहीं चले परदेश	१७६
रुम झुम बरसे बादरवा	१७८
भारत की एक सन्नारी की	१८१
शिव शंकर भोले भाले	१८५
देखा करो भगवान	१८८
उम्मीद उन्से क्या थी	१९१

इस दिल के दुकड़े हजार हुए  
 चुप चुप स्खड़े हो जरूर कोई बात है  
 रोऊं में सागर के किनारे  
 मैं तो गिरधर के घर जाऊं  
 घूंघट के पट खोलरे  
 ऐ सब्मां तू बता तेरा परवाना  
 मोरी अटरिया कागा धोतौ  
 ओ अपनो याद दिलाने को  
 आइं न भरी शिकवे न किये  
 ओ दूर जाने वाले

मिल के बिछुड़ गई अखियां  
 परदेशी हो जाते २ जिया  
 माही ओ दुपट्टा मेरा देवे  
 घिर के आई बदरिया साजनवा  
 जादू कर गये किसी के नयना  
 जिगर की आग से इस दिल  
 दिल की परेशानियां

हम हैं तेरे दिवाने  
 किसमत बिगड़ी दुनियां बदली  
 दिल पर तीर चलाये  
 कंकर २ से मैं पूँछू  
 जब तुम्ही चले परदेश  
 बहे अंखियों से धार  
 तेरा काम है जलाना  
 कौन कहे उनसे जाके हुजूर  
 दुनियां का मजा लेले

१६३
१६४
२००
२०२
२०५
२०७
२०८
२१३
२१५
२२४
२२६
२२८
२३१
२३३
२३६
२३८
२४२
२४५
२४८
२५१
२५३
२५६
२५८
२६२
२६५

छोड़ो जी २ कन्हैया कलश्या	२६७
भगवान् दो घड़ी इन्सान बन के देख	२६८
सैयां दिल में आना रे	२७२
प्यार की वहार लेके	२७५
अय दिल तुम्हे कसम है	२७८
प्रभु जी कहां लगाई देर	२८०
अखियां हरि दर्शन	२८२
मैं उनके दरश की प्यासी	२८३
अजब हैरान हूँ भगवन	२८५
लाज को लाज लगे प्रभु जी	२८७
मैं न जानूँ मेरी नाव लगे	२८८
ईश्वर प्रेम का भर कर प्याजा	२९०
सुर की गति मैं क्या जानूँ	२९३
दरश बिन तरसत नयन	२९५
तेरे पूजन को भगवान्	२९७
आनन्द रूप भगवन	३००
भगवान् मेरी नया	३०२
दो घड़ी भगवान् का ले नाम तू	३०४
वायलन वादन	३०६
सरगम वायल	३०७
दुआ कर गमे दिल	३१०
जाग दर्दे इश्क जाग	३१३
दूर कोई गाये	३१५
बचपन की मुहब्बत को	३१६
घर आया मेरा परदेशी	३१८
जिया बेकरार है	३१९

सितार वादन	३२१
सरगम	३२५
रागन कल्याण	३२६
गत घायानट	३२७
पीलू	३२८
मैरवी	३३०
कल्याण	३३१
भीम पलासी ठाठ दरबारी	३३२
ठाठ यमन—गत हमीर	३३३
तवला	३३५
वांसरी	३४४
सरगम	३४६
यह जिन्दगी उसी	३४८
आजा अब तो आजा	

श्री गणपतयनमः

फिल्मी

## हारमोनियम गाईड

( १ ) हारमोनियम का वर्णन--

हारमोनियः—यह एक लकड़ी का सन्दूकचा सा होता है, इसकी भी कई किस्में होती हैं परन्तु उनके बजाने का ढंग सभी का एक साही होता है !

( २ ) हारमोनियम की किस्में--

हारमोनियम करीब चार तरह के होते हैं (१) सिंगल रीड (२) डब्बल रीड (३) साफरी हारमोनियम (४) फोल्डिंग हारमोनियम ।

नं० १ सिंगल हारमोनियम—यह सिंगल रीड का होता है और साइज में थोड़ा छोटा होता है बाकी बजाने का ढंग एक ही है ।

नं० २ डब्ल हारमोनियम—यह डब्ल रीड होता है और सिंगल रीड से करीब दूना होता है ।

नं० ३ सफरी हारमोनियम—यह बाजा सब से हल्का और

इसकी तय हो सकती है यह शक्ति सूख में भी सुन्दर होता है खास कर सफर में लोग इसे ही पसंद करते हैं।

नं० ४ फोलिंडग हारमोनियम—यह बाजा बड़ा होता है और थियटर इत्यादि में ज्यादा काम आता है इसकी पैरों से धौंकनी चलाई जाती है इसकी आवाज डब्बल रीड के बाजे से भी दूनी होती है और यह वैसे भी दोनों हाथों से बजाया जाता है।

### ( ३ ) हारमोनियम की मुख्य २ बातों का वर्णन—

नं० १ रीड बोर्ड—यह एक लकड़ी का तख्ते नुमा होता है इसमें छोटे २ छिद्र होते हैं जिनमें स्वर लगे हुए होते हैं और धौंकनी से हवा इन छिद्रों में ही आता है जो पर्दा दबाने पर आवाज करती है।

नं० २ रीडस—यह पीतल के बने होते हैं और लकड़ी का तख्ता जिसे रीबोर्ड कहते हैं लगे हुए होते हैं यह ही हारमोनियम की जान है इन्हीं से आवाज होती है इसमें भी कई किस्में होती हैं (१) जर्मनी रीड (२) अमरीकन रीड (३) देसी रीड इत्यादि।

नं० ३ बाहर की धौंकनी—यह धौंकनी बाजे की बाहर की तरफ होती है और बजाते समय बांए हाथ से चलाई जाती है। इसी धौंकनी से हवा किस्ती में जाती है और किर रीड बोर्ड में जाकर स्वरों से आवाज होती है।

नं० ४ किस्ती—यह भी बाजे का एक मुख्य अंग है इसमें हवा धौंकनी से आती है और यह किस्ती रीड बोर्ड को आवाज पैदा होने के लिए हवा देती है।

नं० ५ कमानियां—यह लोहे या पीतल की मुड़ी हुई होती है और स्वरों के पर्दों को दबाए रखती है जब पर्दों को स्वर से

हटाया जाता है तो यह कमानियां ऊंची उठ जाती हैं और स्वर में से हवा निकल कर आवाज पैदा होती है ।

नं० ५ स्प्रिंगदार तार—यह तार लोहे के मुड़े हुए होते हैं और किस्ती के नीचे लगे हुए होते हैं जब धौंकनी चलती है तो यह तार ऊपर नीचे होते हैं इसी से धौंकनी की हवा किस्ती में और किस्ती की हवा रीड बोर्ड तक जाकर आवाज पैदा करती है ।

नं० ६ अन्दर की धौंकनी—यह धौंकनी किस्ती और बाहर की धौंकनी के दरमियान में होता है इसी में होकर हवा किस्ती में प्रवेश करती है और फिर स्प्रिंग हलाने से रोड बोर्ड में आती है ।

नं० ७ स्टोपस—यह लट्ठू की शक्ल के होते हैं यह किसी बाजे में ५ या कम ज्यादा भी होते हैं बाजा बजाते समय यह स्टोपस बाहर खींच लिए जाते हैं इनके बाहर खींचने से ही हवा रीड बोर्ड में आती है, स्टोपस के बन्द करने से कोई हवा किस्ती से बाहर नहीं जायेगी और कोई आवज पैदा नहीं होगी इसी लिए ये पहले बजाने से बाहर खींच कर बाजा बजाया जाता है । इस बात का ध्यान रहे स्टोपस अगर बाहर न खींचे जायें तो धौंकनी जो बाहर की है और बाएं हाथ से चलाते हैं नहीं चलाई जाये । अगर बिना स्टोपस बाहर खींचे धौंकनी चलाई जायेगी तो पंखा फट जाने का डर है इस लिए स्टोपस बाहर खींच कर ही बाजा बजाना चाहिए ।

नं० ८ बाजे की ऊपर की पटड़ी—यह पटड़ी बाजे की हिफाजत के लिए होती है जिससे रीडों में पर्दों से होकर कोई गर्दा मिट्टी अन्दर ना जा सके बाजा बजाते समय इस पटड़ी को

अलग उठा कर रख देनी चाहिए जिससे आवाज साफ और मधुर सुनाई दे पटड़ी न उठाने से अलबता बाजा आप बजा ही नहीं सकते, मगर कई पटड़ियां आधी होती हैं अगर उन्हें आप बजा भी लेंगे तो आवाज साफ नहीं आयेगी आवाज धूंधी धूंधी होगी। इस कारण सब बाजा बजाने वालों को चाहिए कि पटड़ी उतार कर ही बाजा बजायें।

नं० ६ पर्दे—पर्दे यह लकड़ी के बने होते हैं इनमें दो किस्में होती हैं सफेद और काला अक्सर काला पर्दा तीव्र य सफेद पर्दा कोमल होता है लेकिन सरगम का स्थान बदलने पर यह जरूरी नहीं है, ये बही पर्दे हैं जिन पर अंगुलियां चलाई जाती हैं और अंगुलियां पढ़ने से स्प्रिंग ऊपर उठ जाता है और इसी में से आवाज होती है।

#### ( ४ ) हारमोनियम का खोल कर बजाना—

अक्सर हारमोनियम काठ की पेटी में बन्द होते हैं पुराने हारमोनियम जिसकी पेटी दूट जाती है उसे कपड़े में भी बांध कर रखते हैं। पहले बाजे को पेटी में से बाहर निकालो, कपड़े में बन्धा हो तो कपड़ा खोल लो और इक्सार जमीन पर रख लो, फिर बाजे की ऊपर की पटड़ी उतार कर एक तरफ रख दो और स्टोप्स जो बाजे के सामने लगे रहते हैं उनमें से तीन या चार बाहर की तरफ खींच लो। इसके बाद पीछे की तरफ जो खा है उसे खोल लो और बांया हाथ पंखे पर रखो और दाँये हाथ की अंगुलियां पर्दा पर चलाओ, ध्यान रहे पंखा ज्यादा जोर से नहीं चले और पर्दे पर भी अंगुलियां चलती रहें वरना पंखा कट जाने का भय है और पंखा कटने पर बाजा खराब ही नहीं बेकाम हो जाता है इस लिए सावधानी से काम लेना चाहिए।

( ५ ) हारमोनियम को बन्द करना ।

बाजा बजाने के बाद जब कभी भी बाजा बन्द करना पड़े तो पहले अपना हाथ, सारी उंगलियाँ फैलाकर पद्धि पर रख दो जिससे जो हवा धौंकनी या किस्ती से रुको हुई है बाहर आ जाये तब धीरे से पंखा जो बांये हाथ से चलाया जाता है बन्द करो । इसके बाद स्टोप्स जो बजाते समय सामने बाहर की ओर खींचे थे अन्दर की तरफ दबादो और फिर पटड़ी बाजे के ऊपर रख दो इसके बाद जिस बाजे का सन्दूक हो सन्दूक में बन्द कर दो और जिसका सन्दूक न हो उसे कपड़े या और किसी चीज

हिफजत के साथ बन्द कर रखदो जिससे किसारी या अन्य दीमक आदि जानवरों के खराब करने का खतरा न हो ।

अब हम कुछ मुख्य २ बातें जो रोजाना काम में आती हैं, और बाजा खराब होने से अपने आप ठीक की जा सकती हैं लिखते हैं जिससे पाठक गण मामूली खराबी खुद भी सुधार सकें और दुष्प्रियों में न पड़े ।

न० ( १ ) अगर कहीं हवा लीक करती हो तो पहले देखना चाहिये कि हवा कहां से लीक करती है हवा या तो पंखे के फट जाने से या किस्ती में सुराख हो जाने से या स्टोप्स के पास से हवा लीक करने लगती है । इसके लिए सावर का एक छोटा टुकड़ा लेकर सरेस में भिगोकर उस जगह चिपका देना चाहिये जहां हवा लीक करती है और स्टोप्स पर लीक करता है तो वहां भी एक सावर का टुकड़ा सरेस से चिपका दो । स्टोप्स की कील सावर के टुकड़े के बीच से आनी चाहिये वरना हवा बन्द नहीं होगी ।

( २ ) अगर बाजे का स्वर भर भर बोलता है तो शमझो कि

स्प्रिंग ढीला हो गया है अगर पर्दा उठाने के समय जो स्वर भन्न भन्न करता है तो समझो कोई कंकर या कोई और चीज उसमें पड़ गई है, इसके लिए बाजे को झटका कर स्वर में ऊपर को बाजा करके फूक मार देनी चाहिए जिससे जो चीज उसमें गिरी है निकल जावे और स्प्रिंग को सख्त करदो फिर बोलना बन्द हो जायगा ।

( ३ ) यदि आपके बाजे में दीमक लग गई है या और किसी कीड़े आदि ने काट कर सुराख कर दिए में तो उन सुराखों में आप मोम डाल कर लकड़ी का बारीक बुरादा भर दो वे सुराख बिलकुल ठीक हो जायेंगे और बाजा बिलकुल नये के बराबर बन जायेगा ।

( ४ ) अगर आपके बाजे में हवा की कमी हो गई है तो आप जो स्प्रिंग दार तार किस्ती के नीचे लगे रहते हैं बाजा खोल कर और चौड़े कर देने चाहिये और इससे भी हवा ठीक नहीं होती तो जो किस्ती है उसके ऊपर की सावर जो किनारे पर चिपका रहता है अगर खराब या उखड़ गया है तो उसे नया तथा गरम सरेस में लगा कर सावर के साथ चिपका दो ।

( ५ ) अगर रीड बोर्ड या और कहीं दरार पड़ गई है तो उसमें सरेस गरम करके डाल दो दरार ठीक हो जायेगी ।

( ६ ) अगर कोई स्वर अन मिल होकर कन स्वरा यानि अनमिल आवाज करता है तो उसे खोल कर उसका ऊपर का हिस्सा थोड़ा चाकू या रेती से धिस कर ठीक कर लेना चाहिये और दूसरे ऊपर नीचे की सप्तकों के १३ वें स्वर से मिलान कर लेना चाहिए ।

( ७ ) हवा अक्सर बाजे के ढीले हो जाने से भी लीक

करने लग जाती है। तो ऐसा होने से पेचकस से कीलें क्स कर सख्त कर देनी चाहिये अधिकतर जो बाजे में भुक्स आता है वो खास कर हवा का ही होता है।

( ५ ) अक्सर देखा जाता है कि पाठक गण और सभी जगह की हवा को देखकर ठीक कर देते हैं इस पर भी बाजा ठीक हवा नहीं देता क्योंकि उसमें हवा लीक होती रहती है। और यह लीक करने की जगह है पर्दे जो रीडस के ऊपर होते हैं इस लिए इनको भी उठा कर जो इनमें सावर लगा रहता है देख लेना चाहिए। सावर कमज़ोर या उखड़ जाने पर यहां से भी हवा लीक करने लग जाती है और इसका पता भो नहीं चलता है।

( ६ ) अगर पीछे की धौंकनी या पंखा ढीला पड़ गया हो तो उसमें भी एक तार होता है उसको भी सख्त कर देना चाहिये।

( १० ) अगर आपका बाजा खराब हो गया है या रंग उत्तर कर शक्ल बिगड़ गई है और आप उस पर पालिस करना चाहते हैं तो जैसा बाजे का रंग हो वैसा रंग स्प्रिट में मिला लो और कपड़े की पोटली से कई कर्तवा करने से रंग ठीक आ जायेगा और बाजा बिलकुल नया जचने लगेगा जैसे अभी नया खरीदा गया हो।

### [ ७ ] बाजे पर उंगलियां चलाना।

पहले बाजे को अपने सामने रख लो स्टौप्स खोल लो पटड़ी हटा दो बांए हाथ से हलकी हलकी धौंकनी चलाओ और दांए हाथ की चारों अंगुलियां पद्दों पर रखो। वैसे तो मुख्य तीन अंगुलियां ही काम में आती हैं बाकी छोटी चिटली अंगुली

का अभ्यास भी अगले पर्दे को दबाने में बहुत मदद करती है। इसलिए इसका भी अभ्यास रखना आवश्यक है। ध्यान रहे कि अंगूठा सिर्फ नीचे के परदों पर ही आए। इसी तरह बार बार सरगम वाले परदों पर अंगुलियां चला कर अभ्यास करना चाहिये।

### ( ८ ) हारमोनियम बजाने और गाने के लिए कुछ आवश्यक बातें

( १ ) हारमोनियम को सामने रख कर खोल लो और बांये हाथ से पंखा चलाओ और दोया हाथ परदों पर रखो।

( २ ) अंगुलियां ऊपर के परदों पर और अंगूठा नीचे के परदों पर चलना चाहिये।

अंगुलियां परदों पर सीधी नहीं रखनी चाहिए बल्कि अंगुलियों में थोड़ा खम होना चाहिये जिस से वे सुन्दर प्रतीत हों और स्वर भी एक अंगुली से एक दफा में एक ही दबे।

( ४ ) जब दूसरा स्वर या पर्दा आप दबाएं उस बक्त पहले पर्दे पर जो अंगुली है उसे हटा लें मतलब यह है कि एक समय में एक ही स्वर पर अंगुली पडे।

( ५ ) अंगुलियां परदों पर आहिस्ता २ रखनी चाहिए जिससे खट खट की आवाज न हो। बहुधा कई मनुष्य इसी से अपनी तान लगाते रहते हैं परन्तु यह बुरी आदत है और इसके अलावा बाजा भी खराब होने का अन्देशा रहता है और जब कभी कहीं भी महफिल हो रही हो तो आप इस आदत के होते हुए बाजा दुगुण या चौगुण पर नहीं बजा सकेंगे क्योंकि आपको तो तान से खट २ शब्द निकाल कर बाजा बजाने की आदत है। इस लिए भी खट २ शब्द करना बुरी आदत है ?

६—गाना गा कर कभी ठण्डा पानी नहीं पीना चाहिए इस से आवाज खराब होने का भय रहता है ।

७—गाना हर समय खुली हवा में गाना चाहिए और ध्यान रहे गाना गाते समय सीधा बैठा जाय और मुँह ऊपर की तरफ पूरा खुला हुआ हो जिससे आवाज साफ आये और गाने वाले पर भी कम जोर पड़े ।

८—गाना गाने वाले मनुष्य को मिर्च तेल और खटाई इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिये ।

९—जिस समय गाना गाना हो गायक को भर पेट भोजन नहीं खाना चाहिये । इससे गाना गाने वाला ठीक तरह नहीं गा सकता, इसका प्रभाव करठ पर भी बहुत पड़ता है जिससे आवाज साफ नहीं आती कंठ बैठा बैठा हो जाता है ।

१०—अगर किसी गायक का कंठ बैठ गया हो और गायक के गाने की इच्छा हो और कंठ काम नहीं करता हो तो गायक को काली मिर्च और मिश्री का सेवन करना चाहिये इससे कंठ खुल जाता है । बहुत से गायक गुड़ का भी सेवन करते हैं इस से भी आवाज खुल जाती है ।

#### (६) बाजे में सरगम निकालने का कायदा—

बाजे में सरगम निकालने का स्थान कोई नियत नहीं होता जहां से बजाना शुरू करें वहीं से सरगम बन जातो है । जिस स्वर को ( स ) माना जाय उससे तीसरे को ( रे ) पांचवें को ( ग ) छठवें को ( म ) आठवें को ( प ) दसवें को ( ध ) बारहवें को ( नी ) तेरहवां फिर अगली सप्तक का सा है । स्वर दो तरह के होते हैं तीव्र और कोमल ।

कोमल स्वर—स और रे के बीच वाला काला स्वर रे कोमल,

रे और ग के बीच वाला काला स्वर ग कोमल, प और ध के बीच वाला काला स्वर ध कोमल, ध और नी के बीच वाला काला स्वर नी कोमल होता है।

तीव्र स्वर—म और प के बीच वाला काला स्वर म तीव्र होता है।

### (१०) सप्तक—

सात स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। बाजे में संगीत के तीन सप्तक होते हैं। (१) मध्य सप्तक (२) मन्द्र सप्तक (३) तार सप्तक। हारमोनियम में तीन सप्तक होते हैं जिनका स्थान इस प्रकार है—

**मध्य सप्तक**—यह सप्तक स्वर नं० आठ सफेद पर्दे से लेकर स्वर नं० चौदह सफेद पर्दे तक होती है।

**मन्द्र सप्तक**—यह सप्तक स्वर नं० १ से सात पर्दे सफेद तक होती है।

**तार सप्तक**—यह सप्तक स्वर नम्बर पन्द्रह सफेद पर्दे से लेकर अन्त तक होती है।

वैसे तो सप्तक में कोमल और तीव्र स्वर सारे मिला कर बारह होती हैं। जो इस प्रकार हैं।

१	स	अचल
२	रे	कोमल
३	रे	शुद्ध
४	ग	कोमल
५	ग	शुद्ध
६	म	शुद्ध या कोमल
७	म	तीव्र

८	प	अचल
९	ध	कोमल
१०	ध	शुद्ध
११	नी	कोमल
१२	नी	शुद्ध

स्वर चित्र हारमोनियम का

### (११) स्वर—

बाजे में सात स्वर होते हैं। (१) षड्ज (२) ऋषभ (३) गन्धार (४) मध्यम (५) पंचम (६) धैयत (७) निषाद। इन स्वरों को बोलने की कठिनाई की बजह से आम तौर पर एकक्षर लेकर वर्णमाला बनाई गई है जैसे—स, रे, ग, म, प, ध, नी इन स्वरों के भी दो भेद होते हैं। विकारी और अविकारी।

अविकारी—जिन स्वरों में शुद्ध स्वरों में कोई विकार नहीं आ सकता या जिनके पहले या पीछे कोमल या कोई तीव्र स्वर नहीं बन सकता उन स्वरों को विकारी या अचल स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर सप्तक में केवल दो होते हैं। स और प।

विकारी—जिन शुद्ध स्वरों के पहले या पीछे कोमल तीव्र आदि स्वर होते हैं उनको विकारी स्वर कहते हैं। ऐसी स्वर सप्तक में पांच हैं। जैसे—रे ग म ध नी, इनमें से रे ग ध और नी यह चार कोमल स्वर हैं, और म तीव्र स्वर बनता है। स्वरों में भी आरोही और अवरोही होती हैं यह उतार चढ़ाव को कहते हैं।

आरोही—स, रे, ग, म, प, ध, नी, सं।

अवरोही—सं, नी, ध, प, म, ग, रे, स।

## (१२) स्थाई व अन्तरा

स्थाई—किसी भी गीत या भजन के प्रथम चरण को स्थाई कहते हैं।

अन्तरा—गाने के द्वितीय चरण को अन्तरा कहते हैं। फिल्मी गानों में अक्सर दो या तीन अन्तरे भी होते हैं जो बहुधा अलग अलग ही बजाये जाते हैं।

## (१३) ताल और लय

किसी समय के बन्धन को ताल कहते हैं। ताल के बिना बाजा या साज ही अधूरा रहता है। ताल आप तबले के अध्याय में देखें। लय एक बन्धी लय को और एकसार चाल को लय कहते हैं। लय तीन प्रकार की होती हैं। (१) मध्य लय (२) विलंबित लय (३) द्रुत लय।

१—मध्य लय—जो रफतार एक सार हो न ज्यादा तेज और न ज्यादा मन्दी हो उसे मध्यलय कहते हैं।

२—विलंबित लय—जो रफतार बहुत धीमी हो और मध्य लय से उसकी रफतार आधी हो उसे विलंबित लय कहते हैं।

द्रुत लय—जो लध्यम लय से दूनी हो उसे द्रुत लय कहते हैं। यानी विलंबित लय से इसकी रफतार चौगुनी होती है।

## (१४) पलटा

जो सरगम गाने व बजाने में बन्धी हुई ताल में आये उसे पलटा कहते हैं।

## (१५) मात्रा

मात्रा—गिनती को कहते हैं जैसे १, २, ३ ४ ये सब मात्रायें हैं ताल अथवा मात्रा के आधार पर ही तबला या ढोलक बजता है।

(१६) बाजे पर बजाने के कुछ सरगम

(१) आरोही—स रे ग म प ध नी सं

अवरोही—सं नी ध प म ग रे स

(२) आरोही—सरेग, रेगम, गमप, मपव, पवनी, धनीसं।

अवरोही—संनीध, नीधप, धपम, पमग, मगरे गरेस।

(३) आरोही—सारेगम, रेगामप, गमपध, मपधान, पधनीसं,

अवरोही—सनीधप, नीधपम, धपमग, पमगरे, मगरेस,

(४) आरोही—सरेसरेग, रेगरेगम, गमगमप, मपमपध, पधप  
धनी, नीधनीधसं

अवरोही—संनीसंनीध, नीधनीधप,

(५) आरोही—स ग रे म ग प म ध प नी सं सं

अवरोही—सं ध नी प ध म प ग म रे ग स

(६) आरोही—सगर, रमग, गपम, मधप, पनीध, धसंनी

अवरोही—नीसध, धनीप, पधम, मपग, गमर, रगस

(७) आरोही—पधनीधप, सरेगरेस, रेगमगरे, गमपमग,  
मरधपम, धनीसंनीधसं

अवरोही—संनीधनीसं, नीधपधनी, धपमपध,

पमगमप, मगरेगम, गरेसरेगस

(८) सा रे ग म प ध नी सं

सां नी ध प म ग रे स

नी ध प म ग रे स

ध प म ग रे स

प म ग रे स

म ग रे स

ग रे स

रे स  
स

- (६) सा रे ग म प ध नी सं  
           सा रे ग म प ध नी  
           सा रे ग म प ध  
           सा रे ग म प  
           सा रे ग म  
           सा रे  
           सा
- (१०) सो रे ग म प ध नी स नी ध प म ग रे स  
           रे ग म प ध नी स नी ध प म ग रे  
           ग म प ध नी स नी ध प म ग  
           म प ध नी स नी ध प म  
           प ध नी स नी ध प  
           ध नी स नी ध  
           नी स नी  
           स
- ( १७ ) कुछ बाजे में इस्तेमाल किए गए चिह्न  
 ( १ ) शुद्ध स्वरों पर कोई निशानी नहीं होगी जैसे—  
           सा रे ग म प ध नी सं  
 ( २ ) कोमल स्वरों के नीचे लकीर जैसे  
           र ग ध नी
- — — —
- ( ३ ) मध्यम सप्तक में स्वरों पर कोई निशानी नहीं होगी

( ४ ) मन्द सप्तक के स्वरों के नीचे विन्दू होगा जैसे—

नी ध प म

○ ○ ○ ○

( ५ ) तार स्वरों के ऊपर विन्दू होगा जैसे

सं रें ग मं पं धं नीं सं

गाना नं० १ स्थाई ध्रुव पद

मन तड़पत हरि दर्शन को आज

मोरे तुम बिन बिगरे सगरे काज.....

विनती करत हूँ रखियो लाज.....मन तड़पन

अन्तरा

तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी हमरी ओर नजर कब होगी

सुनो मेरे ब्याकुल मन की बात.....मन तड़पत

बिन गुरु ज्ञान कहां से पाऊं, दीजो दान हरी गुन गाऊं

सब गुनी जन पै तुम्हारो राज.....मन तड़पत

मुरली मनोहर आस न तोड़ो

मुरली मनोहर मोहन गिरधन हरि ओशम्

ओ दुख भंजन मेरा साथ न छोड़ो

मोहे दर्शन भिक्षा दे दे आज.....मन तड़पत

( फिल्मी बैजू बाबरा से )

ताल चौताला स्थार्ड

मन्द सप्तक के स्वर—नी ध म प ध नी नी नी नी

स्वर नं०	१२ १३	१५ १८ १७	१५ १३ १२ १०	७ ८ १०
सरगम	नी स	रे म ग	रे स नी ध	म प ध
बोल	म न	त ड़ प	त ह रि	द र स
स्वर नं०	१२ १२	१३ १३	१२ १३ १५	१३ १८ १८
सरगम	नी नी	स स	नी स रे	स म म
बोल	न को	आ ज	मो रे तु	म बि न
स्वर नं०	२० २२ २२	१७ १७ १७	१५	१६ १२ १३
सरगम	प ध ध	ग ग ग	रे	ग नी स
बोल	बि ग डे	स ग रे	का	ज म न

अन्तरा मन्द सप्तक के स्वर—नी धा नी  
तार सप्तक के स्वर—नी धा नी । कोमल०-म

स्वर नं०	१७ १७ १७	२० २०	२४ २५	२५ २६ २४ २५
सरगम	ग ग ग	प प	नी स	स रे नी स
बोल	तु म रे	द्वा र	का मैं	हूँ जो गी
स्वर नं०	२४ २४ २४	२४ २२	२४ २५ २६	२५ २४ २२ २०
सरगम	नी नी नी	नी ध	नी स रे	स नी ध प
बोल	ह म री	ओर र	न ज र	क ब हो गी
स्वर नं०	१८ १८ १७	१७ १५	१३—	१२ १२
सरगम	म म ग	ग रे	स	नी नी
बोल	सुनो मे	रे व्या	कु ल	म न
स्वर नं०	१२ १० १८	१२	१३	—
सरगम	नी ध नी	नी	स	—
बोल	की बा	— —	त	—

गाना नं० २ स्थाई

ओ दुनियां के रखवाले सुन दरद भरे मेरे नाले  
सुन दरद भरे मेरे नाले

अन्तरा नं० १

आश निराश के दो रगों से दुनियां तूने सजाई  
नैया संग तूफान बनाया मिलन के साथ जुदाई  
जा देख लिया हरजाई

ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी  
अब तो नीर बहाले... ओ दुनिया के

अन्तरा नं० २

आग बनी सावन की बरखा फूल बने अंगारे  
नागन बन गई रात सुहानी पत्थर बन गए तारे

सब दूट चुके हैं सहारे  
ओ जीवन अपना वापिस लेले जीवन देने वाले ओ दुनिया—  
चांद को हूँदें पागल सूरज शाम को हूँदें सबेरा  
मैं भी हूँहूँ उस प्रीतम को हो न सका जो मेरा  
भगवान भला हो तेरा

ओ किस्मत फूटी आशा टूटी पांव में पड़ गये छाले... ओ—  
महल उदास अरुगलियां सूनी चुप चुप हैं दीवारें  
दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ा खठ गई हैं बहारें

—हम जीवन कैसे गुजारें  
ओ गिरता मन्दिर फिर बन जाता...

दिल का कौन सभाले... ओ दुनिया के रखवाले  
सुन दरद भरे मेरे नाले

( फिल्म बैजू बावरा से )

ताल कहरवा स्थाई

कोमल स्वर—ग ध नी

मन्द सप्तक के स्वर—नी ध प

स्वर नं०	— —	१३ ११ १३	१३ १३ १३	१३ —
सरगम	— —	स नी स	स स स	स — —
बोल	— —	ओ ... ...	दुनि—यां—	के — —
स्वर नं०	११ ११	१३ १५ १६ १६	१५ १६ १६	१८ १६ १५
सरगम	नी नी	स रे ग ग	रे ग म	म ग रे
बोल	र ख	वा ले सु	न द र	द भ रे
स्वर नं०	१३ ११ १३	१५ १३ ११	६ ६ ११	६ ७ —
सरगम	स नी स	रे स नी	ध ध नी	ध प —
बोल	मे रे ना	ले सु न	द र द	भ रे —
स्वर नं०	६ ११	१५ — —	३ — —	— —

अन्तरा नं० १

कोमल स्वर गरे

## मन्द सप्तक के स्वर— नो ध

स्वर नं	१२ १३ १२	१३ १२ —	१२ १३ ६	११ ६ ८
सरगम	नी स स	स स —	स स ध	नी ध प
बोल	आ श —	नि रा —	श के दो	रं गा —
स्वर नं	७ ८ ११	११ १३ १५	१६ १५ १३	१५ १६
सरगम	प प नी	नी स रे	ग रे स	रे ग
बोल	से दु नि	या तू ने	स जा ई	नै या
स्वर नं	१८ १८ १८	२० २१ २०	१६ — —	— —
सरगम	म म म	प ध प	म — —	— —
बोल	सग तू फा	न ब ना	या — —	— —
स्वर नं	१६ १६ १६	१८ १६ १८	२० १६	१६ १४ १३
सरगम	ग ग ग	म म म	प म	ग रे स
बोल	मि ल न	के सा —	थ जु	दा ई
स्वर नं	— २० २०	२० २० १८ १६	१६ २० २०	२० —
सरगम	— प प	प प म ग	म प प	प —

बोल	जा दे	ख लि या	ह र जा	ई — —
स्वर नं०	२० १८ २२ २८	२२ २० २२	२३ २५	२३ २२
सरगम	प म ध ध	ध प ध	नी सं	नी ध
बोल	ओ लुट गई	मे रे प्या	रे की	न ज
स्वर नं०	२० १६ १६ २०	२२ २० २० १८	१६ १५ १३	— —
सरगम	प म म प	ध प प म	ग रे स	— —
बोल	री अ ब तो	नी र ब हा	ले — —	— —

अन्तरा नं० २

कोमल स्वरों के—रे ग ध नी मन्द सप्तक स्वर—नी

स्वर नं०		१६ १ १८	१८ १८ १६	१८ १८
सरगम		ग मं म	म म ग	म म
बोल	— —	आ ग ब	नी सा व	न की
स्वर नं०	१८ १४ १३	१११३१६१६	१६ १६ १८	२० २१ २० १८
सरगम	म रे स	नी स ग म	ग म भ	प ध प म
बोल	ब र खा	फू ल ब	ने अं गा	रे — —
स्वर नं०	१८ २० २०	२० २० २०	२० २० २१ १३	२१ २० १८
सरगम	म प प	प प प	प प ध नी	ध प म
बोल	ना गिन	ब न ग	ई रा त	सु हा नी
स्वर नं०	१६ १८ १८	२० १८ २० १८	१६ १२ १६	१४ १३

सरगम	ग म म	प म प म	ग रे ग	रे स
बोल	प त्थ र	ब न ग	ए ता —	रे —
स्वर नं०	२० २० २०	२० २० १६	१८ २०	२० २०
सरगम	प प प	प प ग	म प	प प
बोल	स ब द्व	ट चु के	हैं स	हा रे
स्वर नं०	२० १८	२२ २२ २२	२२ २२	२० २२ २३
सरगम	प म —	ध ध ध ध	ध ध	प ध नी
बोल	ओ —	जी व न	अ प	ना वा प
स्वर ०	२५२३२२२०	१८ १८ १८	२० २२ २०	१८ १८ १५
सरगम	सं नी ध प	म म म	प ध प	म ग रे
बोल	स ले ले	जी व न	दे ने वा	ले —

फिर स्थाई बजाये

गाना नं० ३ स्थाई

बचपन की मोहब्बत को दिलसे न जुदा करना

जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना

अन्तरा

घर मेरी उम्मीदों का सूना किए जाते हो

दुनिया की मोहब्बत को लूटे लिए जाते हो

जो गम दिए जाते हो उस गम की दुआ देना— बचपन

सावन के परीहे का संगीत चुराऊंगी

फरियाद तुम्हें अपनी गागा के सुनाऊंगी

आवाज मेरी मुनके दिल थाम लिया करना—वचपन...

वचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना

जब याद मेरी आये मिलने की दुआ करना

( फिल्म बैजू बावरा से )

ताल कहरवा स्थाई

मन्द सप्तक स्वर—ध नी

स्वर नं०	— —	१३ १३ १०	१३ १३	१३ १५ १३
सरगम	— —	स स ध	स स	स रे स
बोल	— —	ब च प	न की	मोह ब्ब
स्वर नं०	१५ १७ १८ १८	१७ १८ २० १८	१७ १५ १३	१५ १७ १७
सरगम	रे ग म म	ग म प म	ग रे स	रे ग ग
बोल	त को दि	ल से न	जु दा	क र ना
स्वर नं०	१३ १३ १५	— १३ —	१३ १५	१३ १२ १०
सरगम	स स रे	— स —	स रे	स नी ध
ब	ज ब या	— द —	मे री	आ ए
स्वर नं०	१२ १३ १५	१० १३ १५	४३ १३	१३ —
सरगम	नी स रे	ध स रे	स स	स —
बोल	मि ज ने	की दु आ	क र	ना —

अन्तरा

तार स्वर के— रे सा

स्वर नं०	२० २०	१७ २०	२० २०	२२ २७
सरगम	प प	ग प	प प	ध रे
बोल	घ र	मे री	उ म्मी	दों
स्वर नं०	२५ २४ २२	२० १८ २०	२४ २४	२२ २०
सरगम	सं नी ध	प म प	ध नी	ध प
बोल	का —	सू ना कि	ए जा	ते हो
स्वर नं०	२० २०	१७ २० २०	२० २२	२७ २५ २४ २२
सरगम	प प	ग प प	प ध	रे स नी ध
बोल	दु नि	यां की मो	ह ब्ब	त को
स्वर नं०	२० १७	२० २२	२४ २२	२०
सरगम	प ग	प ध	नी ध	प
बोल	लू टे	ल ए	जा ते	हो
स्वर नं०	२० २२	२५		
सरगम	प ध	सं नी		
बोल	ओ जी	ओ ओ		

गाना नं० ४ स्थाई

मोहे भूल गये सांवरिया

आवन कह गये अजहुं न आये तीन्हों न मोरी खवरिया  
मोहे भूल गये सांवरिया

अन्तरा

दिल को दिए क्यों दुःख विरहा के

तोड़ दिया क्यों महल बनाके

आस दिला के ओ वेदीं फेरदी काहे नजरिया—मोहे  
नयन कहें रो रो के सजनां

देख चुके हम प्यार का सपना

प्रीत है भूठी प्रीतम भूठा भूठी है सारी नगरिया

मोहे भूल गये सांवरिया  
(फिल्म बैजू बाबरा से )

ताल स्थाई

कोमल स्वर—रे

स्वर नं०		१३	१४	१८	१८	१८ १८ १७
सरगम		स	रे	म	म	म म ग
बोल	— —	मो	हे	भू	ल	ग ये
स्वर नं०	१४ १३ १४	१३ १३	१४	१८	१८	१८ १८ १७
सरगम	रे स स	स स	रे	म	म	म म ग
बोल	सां व रि	या मो	हे	भू	ल	ग ये
स्वरनं८	१४ १३ १३	१३ १८	१८	१८ १८	१८	१८ १७ १८

सरगम	रे स स	स म	म म म	म ग म
बोल	सा व रि	या आ	व न क	ह ग ये
स्वर नं०	२० २० २०	२० २० २१	२० १८ १८	२० १८ १८
सरगम	प प प	प प ध	प म म	प म म
बोल	अ ज हुँ	न आ ए	ली	नहीं न मो
स्वर नं०	२० १७	१४ १७ १७	१३ १४	१८ १८ १७
सरगम	प ग	रे ग ग	स रे	म म ग
बोल	री ख	व रि या	मो हे	भूल ग ये

## अन्तरा

कोमल स्वर—रे ध

तार स्वर—स

स्वर नं०	— —	१७ १८	१८ १७ २०	२० २० २१
सरगम	— —	ग म	म ग प	प प ध
बोल	— —	दि ल	को दि ए	क्यों दु ख
स्वर नं०	२५ २५ २१	२० २० २१	२० २० १७	१७ १८ १७
सरगम	नी स ध	प प ध	प म ग	ग म ग
बोल	वि र हा	के तो ड	दि ए क्यों	म ह ल
स्वर नं०	१४ १४ १३	१८ २०	२१ २४ २५ २५	२४ २५ २४
सरगम	रे रे झ	म प	ध नी म स	नी स नी

बोल	व ना के	आ स	दि ला के	ओ वे
स्वर नं०	२१ २२	२० २० २१	१८ २० १८	१७ १५ १३
सरगम	ध प	प प ध	म प म	ग रे स
बोल	द र टी	फे र ली	का वे न	ज रि या

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० ५ स्थाई

दूर कोई गाये धुन ये सुनाए

तेरे बिन छलिया रे बाजे न मुरलिया रे

अन्तरा

मन के अन्दर प्यार की अग्नि नैना खाये खोये

अभी से है ये हाल तो आगे ना जाने क्या होये

नींद नहीं आये बिरहा सताये तेरे बिन छलिया रे

बाजे न मुरलियारे……

मोरे अंगना लाज का पहरा पांव पड़ी जजीर

याद किसी की जब जब आये लागे दिल पे तीर

आंख भर आये जल बरसाये तेरे बिन छलिया रे

बाजे न मुरलिया रे

फिल्म बैजू वावरा से

मन्दसप्तक स्वर—प ध

स्वर नं०	१५ १३	१५ १३ १२	१३ १५ १३	१५ १३ १५
सरगम	रे स	रे स नी	स रे स	रे स्थ रे
बोल	दू र	को ई गा	ए धु न	ये सु ना

स्वर नं०	१३ ८ १०	१३ १३	१३ १७	१८ १७
सरगम	स प ध	स स	रे ग	म ध
बोल	रा ते रे	चि न	छ लि	या रे
स्वर नं०	१७ १७ १५	१३ १५ १७	१५ १३	— —
सरगम	ग ग रे	स रे ग	रे स	— —
बोल	वा जे न	मु र लि	या ने	— —

## अन्तरा

कोमल स्वर—रे ग नी

मध्यम सप्तक स्वर—नी ध

स्वर नं०	१७ १८ १८	२० २० २०	२२ २३ २३	२० २०
सरगत	ग म म	प ध प प	रे स	ध प
बोल	म न के	अ न्द र	प्या र की	अ ग नी
स्वर नं०	१७ १८ १८	१६ १५ १३	१७ १८	१८ २० २०
सरगम	ग म म	ग रे स	ग म	म प प
बोल	न य ना	खो ये खो	ये अभी	से है ये
स्वर नं०	२० २२ २३	२३ २२ २०	१७ १८ १८ १७	१५ १३
सरगम	प ध नी	नी ध प	ग म म ग	रे स
बोल	हा ल तो	आ गे न	जा ने क्या	हो ये
स्वर नं०	१५ १३	१५ १३ १२	१३ १५ १३	१५ १३ १५
सरगम	रे स	रे स नी	स रे स	रे स रे

बोल	नी न्द	न हीं आ	ये बि र	हा स ता
स्वर नं०	१३ १८ १०	१३ १३	१५ १७	१८ १७
सरगम	स प ध	स स	रे ग	म ग
बोल	ये ते रे	ब्रि न	छ लि	या रे
स्वर नं०	१७ १७	१५ १३ १५	१७ १५	१३
सरगम	ग ग	रे स रे	ग रे	स
बोल	बा जे	न मु रं	लि या	रे

फिर स्थाई बजाये

गाना नं० ६ स्थाई

तू गंगा की मौज में जमुना का धारा  
हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा-रहेगा-मिलन...  
अन्तरा

अगर तू है सागर तो मजधार मैं हूँ  
तेरे दिल की किस्ती का पतवार मैं हूँ  
चलेगी अकेले न तुम से ये नैया  
मिलेगी न मंजिल तुम्हें बिन खिवैया

चले आओ जी चले आओ मौजों का लेकर सहारा-  
भला कैसे दूटेगे बन्धन ये दिज के  
छिछड़ती नहाँ मौज से मौज मिलके  
छुपोगे भंवर में तो छिपने न देंगे  
छुपो देंगे नैया तुम्हें ढूँड लेंगे  
बनायेंगे तूफान को एक दिन किनारा हो रहेगा मिलन  
ये हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन

फिल्म बैजू बावरा से                    ताल कहरवा

स्थाई

कोमल स्वर—रे ग ध।

स्वर नं०	२०	१८ १६	१८ २०	२० २०
सरगम	प	म ग	म प	प प
बोल	तू	गं गा	की मौ	ज में
स्वर नं०	२० २० २१	२० १८	१६ २० १८	१३ १८ १६
सरगम	प प ध	प म	ग प म	ग म ग
बोल	ज मु ना	की धा	रा हो र	हे गा
स्वर नं०	१४ १३	१३ १४ १६	१८ १८ १८	१६२०१८१६१८
सरगम	रे स	स रे ग	म म म	ग प म ग म
बोल	मि ल न	ये ह मा	रा तु म्हा	रा र हे
स्वर नं०	१६ १४	१३ १३	१४ १६ १८	१८ १८ १६ २०
सरगम	ग रे	स स	रे ग म	म म ग प
बोल	गा मि	ल न ये	ह मा रा	तु म्हा रा

अन्तरा

कोमल स्वर—ग ध नी

तार स्वर—स

स्वर नं०	२० २० २० २०	२० २१ २३	२५ २५ २५ २५	२३ २३ २३
सरगम	प प प	प ध नी	स स स स	नी नी नी
बोल	अ ग र	तू है सा	ग र तो	म झ धा

स्वरनं०	२३ २३ २२ २४	२१ २१ २३	२१ २१ २०	२० २० २०
सरगम	नी नी ध स	ध ध नी	ध ध प	प प प
बोल	र हूँ मैं	म भ धा	र हूँ नैं	ते रे दि ल
स्वरनं०	२१ २३	२५ २५	२२ २५ २३	२३ २३ २३ २२ २५
सरगम	ध नी	स स	स म नी	नी नी नी ध स
बोल	की कि	शती का	प त वा	र हूँ मैं
स्वरनं०	२१ २१ २३	२१ २१ २०	— —	— —
सरगम	ध ध नी	ध ध प	— —	— —
बोल	प त वा	र हूँ मैं	— —	— —
स्वरनं०	२० २० २०	२१ २३ २५	२५ २३	२३ २१ २०
सरगम	प प प	ध नी स	स नी	नी ध प
बोल	च ले गी	अ के ले	मैं तु म	स न नै
स्वरनं०	२० १८ २०	२० २१ २०	२० २० २०	२१ २० १८
सरगम	प म प	प ध प	प प प	ध प म
बाल	या तु म	से ये नै	या मि ले	गी न मं
स्वरनं०	१६ १४ १३	१३ १८	१८ १६ १४	१३
सरगम	ग रे स	स म	म ग रे	से
बोल	जि ल तु	महें ा ब	न खि वै	या

स्वर नं०	२० २० २०	२१ २५	— २५	२३ २१ २१
सरगम	प प प	ध सं	— सं	नी ध ध
बोल	च ले जा	ओ जी	— च	ले जा ओ
स्वर नं०	२० २० १८	२० २१	२० १८ १६	२० —
सरगम	प प म	प ध	प स ग	प —
बोल	मौ जों का	ले कर	सहा रा	— हो —

फर स्थाई बजाये

गाना न० ७ स्थाई

धीरे से आजा री अखियन में निंदिया

आजा री आजा धीरे से आजा

चुपके से अखियन को बगियन में निंदिया आजारी आजा

धीरे से आजा

अन्तरा

लेकर सुहाने पलकों की गलियाँ

आ आ के दो पलकों की गलियाँ  
पलकों की छोटी सी गलियन में निंदिया आजारी आजा  
तारों से छुपकर तारों से चोरी

देती है रजनी चन्दा को लोरी

इसता है चन्दा भी निंदियन में निंदिया आजारी आजा  
धीरे से आजा

फिल्म अलवेला से

कोमल स्वर—ग		ताल दादरा मन्त्र स्वर—पा नी		
स्वर नं०	द १२ १२	१७ १८	१३ १६ १५	१३ १३—
सरगम	प नी नी	स ग रे	स—स—	रे नीं स
बोल	धी रे से	आ जा री	अं खि —	य न में
स्वर नं०	१५ १६ १६	१५ १६ १५	१३ १२ १० द	द १२ १२—
सरगम	रे ग ग	रे ग रे	सा नी ध प	प नी नी
बोल	निं दि या	आ जा री	आ जा —	धीरे से —
स्वर नं०	१३ १३ —			
सरगम	सा सा			
बोल	आ जा			

अगली लाइन इसी तरह बजाओ

अन्तरा...कोमल स्वर...ग

मन्द्र स्वर...पा नी

स्वर न०		२० १८ २०	१८ १६ १५ १३ १८ १६
सरगम बोल		प म प ले क र	म ग रे स सु हा ने
स्वर नं०	१८ १६ १५	१३ १३	१८ १६ १८
सरगम बोल	म म रे कों की क	स स लि यां	म ग म आ आ के
स्वर नं०	१८ १६	१५ १३ १३	८ ८ १२
सरगम बोल	म ग कों की...	रे स स ग लि यां	प प नी प ल कों
			नी नी स ग की छोटी

स्वर न०	१५ १३ १३	१५ १२ १३	१५ १६ १६	१५ १६ १५
सरगम	रे सा सा	रे नी सा	रे ग ग	रे ग रे
बोल	सों ग लि	य ग में	नि दि या	आ जा री

फिर स्थाई बजाओ

गाना न० ८ स्थाई

उल्फत का साज छेड़ो समां सुहाना है ।

जलवे भी नांच उठे दिल का तराना है ॥

उल्फत का साज छेड़ो

अन्तरा

दर पर हजूर आये लेके मुराद हम भी

इतनी सी आरजू है रह जांय याद हम भी

उल्फत का

दोनों जहान हम भी तुम पर निसार करें

कदमों में चांद तारे सिजदे हजार करें

उल्फत का साज छेड़ो

महफिल में आज शमां कर देगी नाम रोशन

थामेगा आज कोई दिल का हसीन दामन

उल्फत का साज

( १५० औरत से )

ताल कहरवा

मन्द सप्तक के स्वर—ध नी                   स्थाई

स्वर नं०	१० १० १२	१२ १५ १७	१७ १७	१७
सरगम	ध ध नी	नी रे गा	ग ग	ग
बोल	उ ल फ	त का सा	ज छे	ड़ो
स्वर नं०	१७ १८ २०	१८ १७ १९	१७	२४ २४ २४
सरगम	ग ग प	म ग ग	ग	नी नी नी
बोल	स मां	सु हा ना	है	ज ल वे
स्वर नं०	२४ २२ २०	१८ १७ १५	१३ १२	१३ १५ १३
सरगम	नी ध प	म ग रे	सा नी	स रे स
बोल	भो नां च	उ ठा	दि ल	का त रा
स्वर नं०	१२ १०			
सरगम	नी ध			

अन्तरा	तार...स	मध्य स्वर...ध नी	
स्वर नं०	१७ १७ १७	१८ २० १८	२२ २२
सरगम	ग ग ग	म प ध	ध ध
बोल	द र पै	ह जू र	आ ये
स्वर नं०	२० २० २०	१८ २० १८	२४ २४ २४
सरगम	प प प	म प म	नी नी नी
बोल	ले कर	मु रा द	ब स य

स्वर नं०	२४ २४ २५	२४ २२ २०	१६ २० २२	२० १८
सरगम	नी नी सा	नी ध प	म ध प	प म
बोल	हो आ र	जू हे र	ह जा यें	या द
स्वर नं०	१७ १७ १७	१३ १२ १३	१५ १३	१२ १०
सरगम	ग ग ग	सा नी सा	रे सा	नी ध
बोल	ह म भी	र ह ज	ये या	द ह म भी

फिर स्थाई बजाये

### गाना न० ६ स्थाई

दरदे उल्फत हाये दरदे उल्फत लुपाऊँ कहाँ  
 दिल की दुनियाँ बसाऊँ कहाँ हाये दरदे उल्फत  
 अन्तरा

चुपके से बो मेरे दिल में समाये  
 उन्हें लेके जाऊँ कहाँ, हाये दरदे उल्फत  
 चाहत है नाजुक जालिम है जमाना  
 मैं बच के भी जाऊँ कहाँ हाये दरदे उल्फत  
 उन्हें देख शरमा के पूछा नजर ने  
 बो आये बिठाऊँ कहा हाय दरदे उल्फत

फिलम औरत से

ताल कहरवा स्थाई

मन्द सप्तक के स्वर—प ध नी

स्वर नं	१०	१३ १५ १७	१५ १०	१० १३ १५
सरगम	ध	स रे ग	रे ध	ध स रे
बोल	द	दे उ ल्फ	त हा	य दर्दे
स्वर नं	१७ १५ ११	१३ १५ १३	११ १० ८	१० १०
सरगम	ग रे रे	स रे स	नी ध प	ध ध
बोल	उ ल्फ त	छु पा ऊ	क हां	दि ल
स्वर नं	१३ १५ १७	१५ १३ १५	१३ ११ —	१० ८ १०
सरगम	स रे ग	रे सा रे	स — नी	ध प ध
बोल	की दु नि	यां ब सा	ऊ — क	हां ह य
स्वर नं	१३ १५	१७ १५ १५		
सरगम	स रे	ग रे रे		
बोल	द दे	उल्फ त		

अन्तरा नं० १

स्वर नं			१७ १७	१७ १७ २०
सरगम			ग ग प	ग ग प
बोल			चु प	के से बो

स्वर नं०	२२ २२ २०	२० २० १८	१७ १७	१० १३
सरगम	ध ध प	प प म	ग ग	ध स
बोल	मे रे दि	ल में स	मा ये	उ म्हें
स्वर नं०	१७ १५ १३	१५ १३ ११	१०	
सरगम	ग रे स	रे स नी	ध	
बोल	ले के जा	ऊं क हां		

फिर स्थाई बजाये

गाना नं० १० स्थाई

ये दुनियां बनाई है किस वेरहम ने ।  
बड़ा जुल्म देखा जमाने में हमने ॥

### अन्तरा

ओ रंगीन बचपन जो जाके न आया  
जवानी ने आते ही दिलको जलाया  
उलझती गई मेरी मंजिल की राहें  
दिया मुझको धोखा मेरे हर कदम ने

बड़ा जुल्म देखा—

अमीरों ने दौलत से चाहत खरीदी  
गरीबों की मासूम किस्मत खरीदी  
ओ इनसान सब जान कर भी तू चुप है  
तुम्हें बांध रखा है किसके भरम ने

बड़ा जुल्म देखा जमाने में हमने ।

अरे आसमां क्यों चुप है क्यों बोल कुछ तो  
रहम के समन्दर अरे डोल कुछ तो  
है किस हाल में देखले तेरी दुनियां  
ये क्या कर दिया तेरे रहमों करम ने । बड़ा जुल्म देखा—  
बदलते हैं मौसम तो बदलेगी दुनियां  
जहां को बदल कर ही दम लेगी दुनियां  
सितारों से ऊँची है हस्ती हमारी  
नई जान डाली उम्मीदों के गम ने । बड़ा जुल्म देखा  
फिं औरत

स्थाई ताल कहरवा  
कोमल स्वरों के—रे ग ध नी

स्वर नं०	२०	१८ २० १६	१८ २० २०	२० ८० २१
सरगम	प	प प ध	म प प	प प ध
बोल	— ये	दु नि यां	ब ना ई	है कि स
स्वर नं०	२३ २१ २०	२० २०	२० २० २१	२० १८ १६
सरगम	नी ध प	प प	प प ध	प म ग
बोल	वे र म	म ने	ब ड़ा दु	ख दे खा
स्वर नं०	१३ १३ १६	१४ १३ १३	१३	
सरगम	स रे ग	रे स स	स	
बोल	ज मा ने	ह म ने		
		स्थाई		

अन्तरा में

कोमल स्वर—रे ग ध नी

तार—स

स्वर नं०		२०	२० २० २१	२३ २५
सरगम		प	प प ध	नी सा
बोल		वो	र गी न	ब च प
स्वर नं०	२५ २५ २३	२१ २० २०	२० — २०	२० २१ २०
सरगम	सा सा नी	ध प प	प — प	प ध प
बोल	न जो जा	के न आ	या — ज	वा नी ने
स्वर नं०	१८ १८ १६	१३ १३ १६	१४ १३	१३ —
सरगम	क म ग	स स ग	रे सा	स —
बोल	जा ते ही	दि ल को	ज ला	या —
स्वर नं०	२० २० २०	२१ २३ २५	२५ २५	२३ २१ २०
सरगम	प प प	ध नी स	स स	नी ध प
बोल	उ ल झ	ती हु ई	मे री	म जि ल
स्वर नं०	२० २० २१	२० २० २१	२० १८ १८	१६ १३ १६
सरगम	प प	प प ध	प म म	ग स स
बोल	की रा हें	दि या मु	झ को धो	खा मे रे
स्वर नं०	१६ १४	१३ १३	२० २०	२१ २० १८
सरगम	ग रे	स स	प प	ध प म
बोल	ह र क	द म ने	ब डा	दे खा

गाना नं० ११ स्थाई

यह ज़िन्दगी उसी की है जो किसी का हो गया  
प्यार ही में खो गया— यह ज़िन्दगी…

अन्तरा

यह बहार ये समाँ कह रहा है प्यार कर  
किसी की आरजू में अपने दिलको बेकरार कर  
ये ज़िन्दगी है बेबका लूट प्यार का मजा ॥ यह ज़िन्दगी०  
धड़क रहा है दिल तो क्या दिल की धड़कने न गिन  
फिर कहाँ ये फुरसतें फिर कहाँ ये रात दिन  
आ रही है ये सदा मस्तियों में छूब जा

यह ज़िन्दगी उसी की है ।

जो दिल यहाँ न मिल सके मिलेंगे उस जहान में  
खिलेंगे हसरतों के फूल जाके आसमान में  
ये ज़िन्दगी चली गई जो प्यार में तो क्या हुआ  
यह ज़िन्दगी उसी की है ।

सुनाएगी ये दास्तान शमा मेरे मजार की  
किजा में भी खिली रही ये कली अनार की  
इसे मजार मत कहो ये महल है प्यार का

यह ज़िन्दगी उसी की है ।

ऐ ज़िन्दगी की समाँ आ तुझे गले लगाऊँ मैं  
तुझी में छूब जाऊँ मैं जहाँ को भूल जाऊँ मैं

बस एक नजर मेरे सनम अल्विदा अल्विदा  
फिल्म अनारकली से ताल कहरवा

स्थाई

कोमल स्वर—रे ग ध।

मध्य स्वर—प नी ध

स्वर नं०	५	११	१३	६ १३
सरगम	प	नी	स	ध स
बोल	आ	आ	आ	य ह जि
स्वर नं०	१४ १३ ११	६ ११ १३	१६ १५ १३	१५ ११ १३
सरगम	रे स नी	ध नी स	ग रे स	रे नी स
बोल	न्द गी उ	सी की है	जो कि	सी का हो
स्वर नं०	११ १३ १५	१६ १८ १६	११ ६	११ १३
सरगम	नी स रे	ग म ग	नी ध	नी स
बोल	ग या	प्या र ही	में खो	ग या

को०—रे गा धानी

अन्तरा

मन्द—ध नी

स्वर नं०		१३ १६ २०	२१ २३ २१ २३	२० १८ २०
सरगम		स ग म	ध नी ध नी	प म प
बोल	— —	ये बहा	र ये स	मा क ह
स्वर नं०	१८ १६ १३	६ ११ १३	१३ १३ १५ १६	१५ १६ १८
सरगम	म म स	ध नी स	स स रे ग	रे ग म
बोज	र हा है	प्या र क	र कि सी	की आ र

स्वर नं०	१६ १५ १३	१३ १६ २०	२०—१	१४—
सरगम	ग रे स	स ज प	प म	ग रे
बोल	जू में अ	प ने दि	ल—को	वे—क
स्वर नं०	१३ ११ ६	११ १३	१३ १६ १८ २०	२१ २१ - १
सरगम	स नी ध	नी स	स ग म प	ध ऊ ध
बोल	रा र क	र	ये जिं	न्द गी है
स्वर नं०	२३ २१ १८	१६		२० २१ २०
सरगम	नी ध प म	ग		प ध प म
बोल	वे ब फा			लू प्या
स्वर ०	१६ १३ ६	१३ १३		६
सरगम	ग स ध	स स		ध
बोल	रे का म	जा		य ह—

फिर स्थाई बजायें

आ जाने वफा, आ जाने वफा  
 कहते हैं जिसे प्यार जमाने को दिखादे  
 दुनियां की नजर इश्क के कदमों पै झुकादे  
 कदमों पै झुकादे—आ जाने वफा...

आ जा ये मेरा नाज उठाना ही पड़ेगा  
 जब प्यार किया है तो निभाना ही पड़ेगा  
 आ जिनके लिये जान की बाजी भी लगादे

दुनियां की नजर इश्क के कदमों पे झुकादे  
 कदमों पे झुकादे आ जाने वफा.....  
 आ प्यार के तूफान में लहरा के चला आ  
 हर कैद को हर रस्म को ठुकरा के चला आ  
 आशिक है तो हर चीज मौहब्बत पै लुटादे  
 दुनियां की नजर इश्क के कदमों पे झुकादे  
 कदमों पे झुकादे...आ जाने वफा ।  
 दीवाना मुहब्बत का कहीं डर से रुका है  
 दरवार में शाहों के कहीं इश्क झुका है  
 खुद इश्क के दरवार में शाहों को झुकादे  
 आ जाने वफा शाहों को झुकादे  
 शाहों को झुकादे आजाने वफा

( फ़िल्म अनार कली से )

ताल कहरवा स्थाई

कोमल स्वर...रे ग ध नी मन्द्र स्वर ध नी

स्वर नं०		६ १३	१६ १८	२० १८
सरगम		ध स	ग म	प म
बोल		आ जा	ने	व
स्वर नं०	१६ १८ २१	२३ २५ २३		२० २१ २३
सरगम	ग म ध	नी स नी		प ध नी
बोल	आ जा ने	व फा —		क ह ते

स्वर नं०	२१ २० १८	२१ २० १८	१८ २० २१	१८ १६
सरगम	ध प म	ध प म	म प ध	म ग
बोल	है ज से	प्या र ज	मा ने —	को दि
स्वर नं०	१६ १८ १६	१७ १८ २० १८	१७ १५ १३	१५ १७ १७
सरगम	ग म ज	स रे ग	रे स नी	स रे स
बोल	खा दे	दु नियां	की न ज	र इ श क
स्वर नं०	११ ६ ११	१३ ११ —	६ ११ ६	६ १२ १६
सरगम	नी ध नी	स नी —	ध ना ध	ध स ग
बोल	के क द	मो पै	भु का दे	आ जा ने
स्वर नं०	१८ २०	१८		
सरगम	म प	म		
बोल	व फा	आ		

अन्तरा

कोमल स्वर—रे ग म ध

मन्द—ध नी

स्वर नं०		६	११ १३	१३ १३ १४
सरगम		ध	नी स	स स रे
बाल		आ	जा ये	मे रा ना

स्वर नं०	१४ १३ १४	१३ ११ ६	११ १३	१४ १६ १८
सरगम	रे स स	म नी ध	नी स	स ग म
बोल	ज उ ठा	ना ही प	डे गा	ज ब प्या
स्वर नं०	१८ १८ १८	१८ १६ १८	१६ १४	१४ १६ १८
सरगम	म म म	म म म	ग रे	ग रे रे स
बोल	र कि या	है तो नि	भा ना	ही प डे गा
स्वर नं०	१३ १६	१८ २० २१	२१ २१	२३ २१ १८
सरगम	स ग	म प ध	ध ध	नी ध म
बोल	आ जि	न के लि	ए जा	न की बा
स्वर नं०	२० १८ १६	१६ १८ १६	१४ १६ १५	१३ १२ १६
सरगम	प म ग	ग म ग स	रे ग रे	स स स ग
बोल	जी भी ल	गा दे ढु	नि यां की	न ज र इ
स्वर नं०	१४ १३ १३	१४ १६ १४	१३ ११ ६	१३ १४ १६
सरगम	रे स स	रे ग रे	स नी ध	स रे ग रे
बोल	श्क के क	द मों पै	झु का दे	क द मों पै
स्वर नं०	१३ ११ ६	६ १३	१६ १८	२० १८
सरगम	स नी ध	ध स	ग म	प म
बोल	झु का दे	आ जा	ने व	फा —

फिर स्थाई बजावें ।

गाना न० १२ स्थाई

आजा अब तो आजा, आजा अब तो आजा  
 मेरी किस्मत के खरीदार अब तो आजा  
 नीलाम हो रही है मेरी चाहत भरे बजार  
 अब तो आजा...

अन्तरा

सबने लगाई बोली ललचाई हर नजर  
 मैं तेरी हो चुकी हूँ दुनियां हैं वे खबर  
 जालिम बड़े भोले हैं मेरे ये तलबगार  
 अब तो आजा...

हसरत भरी जवानी ये हुशन ये शबाब  
 रंगीन दिलकी महफिज मेरे इसीन ख्वाब  
 गोया कि मेरी दुनियां लुटने को हैं तैयार  
 अब तो आजा...

मेरी किस्मत के खरीदार अब तो आजा...

( फिल्म अनारकली से )

ताल कहरवा दादरा

ताल दादरा स्थाई

## कोमल स्वर—ग रे ध. नी

## मन्त्र सप्तक के स्वर—नी ध

स्वर नं०	१३ १६	२० १८ —	१६ १८ १६	१४ १३
सरगम	स—ग	प म	ग म ग	रे स —
बोल	— आ	जा ... ...	अ ब तो	आ जा
स्वर नं०	— २०	२०—२०	२१ २० १८	१६ १४ १३
सरगम	प	प—प	ध प म	ग रे स
बोल	मे	री — कि	स्म त	के ख री
स्वर नं०	१८ १८ १६	१८ — १६	१४ —	१३ —
सरगम	म म ग	म ग	रे	स —
बोल	दा र अ	ब तो	आ	जा —
स्वर नं०	२० २० १८	१६ १८ —	२२ — २०	१८ १६ १८

सरगम	प प म	ग म	प प	ग ग म
बोल	नी ला म	हो र	ही है	मे री चा
स्वर नं०	१८ १८ १६	१३ १३	१६ १८	१६ १८ १६ १४ १३
सरगम	म म ग	स स	ग म	ग म ग रे स
बोल	ह त भ	रे व	जा र	अब तो आजा

अन्तरा

मध्य स्वर— नी ध प

कोमल स्वर—रे ग ।

स्वर नं०	२० २० २०	१८ १८	१६ २० २०	१५ १५
सरगम	प प प	म म	ग प प	रे रे
बोल	स ब ने	ल गा	ई बो ली	ल ल
स्वर नं०	१५ १६ १८	१८ १६ १५	१५ १५ १८	१८ १८
सरगम	रे ग म	म ग रे	रे रे म	म म
बोल	चा ई ह	र न ज	र में ते	री हो
स्वर नं०	१५ १८ १८	१३ १५ १६	१८ १८ १८	१५
सरगम	रे म म	स रे ग	ग म ग	रे
बोल	चु की हूँ	दु नि यां	है बे ख	व र

स्वर न०	१३ १५ १६	१३ ११ ६	८ ८	११ १३ १३
सरगम	स रे ग	स नी ध	प प	नी सा सा
बोल	दु नि यां	है वे ख	व र जा	लि भ व
स्वर नं०	११ ६ १३	१३ ११ १३	१३ ११ ६	८ १३ १३
सरगम	नी ध स	स नी स	स नी ध	प स स
बोल	डे भो ले	हैं ये मे	रे त ल	व गा र
स्वर न०	१६ १८ १६	१६ १३		
सरगम	ग म ग	रे स		
बोल	अ व तो	आ जा		

फिर स्थाई बजायें।

### गाना नं० १४ स्थाई

मुझ से मत पूछ मेरे इश्क में क्या रक्खा है,  
एक शोला है जो सीने में छुपा रक्खा है । मुझसे ...

#### अन्तरा

दागे दिल दागे जिगर दागे तमन्ना लेकर  
मैंने बीरान बहारों को सजा रक्खा है । मुझ से  
है जमाना जिसे वेताब मिटाने के लिए  
मैंने उस याद को सीने से लगा रक्खा है । मुझ से  
देखने वाले तुम्हें दर्द मुहब्बत की कसम  
मैंने इस दर्द में दुनिया को भुला रक्खा है । मुझ से  
( फ़िल्म अनार कली से )

कोमल स्वर—ग ध

स्थाई

स्वर नं०	१३	१३	१६	१८	२०	२०	२०	२१	२१
सरगम	स	स	ग	म	प	प	प	ध	ध
बोल	मु	झ	से	म	त	पू	छ	मे	रे
स्वर नं०	२०	१८	१६	१८	१८	१३	१३	१६	१८
सरगम	प	म	ग	म	म	स	स	ग	म
बोल	में	क्या	र	खा	है	ए	क	शोला	है
स्वर नं०	२०	२१	२०	२०	१८	१६	१८	१८	१८
सरगम	प	ध	ध	प	म	म	ग	म	म
बोल	जो	सी	ने	में	छु	पा	र	खा	है

अन्तरा

तार स्वर—स रे ग

कोमल स्वर—ग ध

स्वर नं०	१८	२१	२३	२५	२७	२८	२८	२८	२८
सरगम	म	ध	नी	स	रे	ग	ग	ग	ग
बोल	दा	गे	दि	ल	दा	गे	जि	ग	ग
स्वर नं०	२८	२७	२७	२५	२३	२३	२५	२३	१८
सरगम	ग	रे	रे	स	स	नी	ध	नी	म
बोल	र	दा	ग	त	म	न्ना	ले	क	र
स्वर नं०	१६	२०	२०	२०	२०	२१	२०	१८	१८
सरगम	ग	प	प	प	प	ध	प	म	म
बोल	बी	रा	न	को	व	हा	रों	में	स

स्वर नं०	१३ २० १८	१३ १३ १६	१८ २० २०	२० —
सरगम	ग प म	स स ग	म प प	प —
बोल	र खा है	सु भ से	म त पू	छ —

गाना नं० १५ स्थाइ

दुआ कर गमे दिल खुदा से दुआ कर ।

बफाओं का मजबूर दामन बचा कर ॥ दुआ कर ... ...

### अन्तरा

जो विजली चमकती हैं उनके महल पर ।

वो करले तसल्ली मेरा घर जला कर ॥

सलामत रहे तू मेरी जान जाये, मुझे इस बहाने से ही मौत आये  
करूँगी मैं क्या चन्द सांसे बचा कर ॥ दुआ कर ... ...

मैं क्या दूँ तुझे मेरा सब लुट चुका है ।

दुआ के सिवा मेरे पास और क्या है ।

गरीबों का एक आसरा ही खुदा है ।

मगर तुझ से यदी इल्तजा है ।

ना दिल तोइना दिल की दुनियां बसा कर ॥ दुआ कर ...

बफाओं का मजबूर दामन बचा कर ।

दुआ कर गमे दिल खुदा से दुआ कर ।

( फिल्म अनारकली से )

ताल कहरवा दादरा

स्थाईं कोमल स्वरों के—म ग ध नी

स्वर नं०	१३ १५	१५ १३	१५ २२ २० २०	१८ १८
सरगम	स रे	रे स	रे ध प प	म म
बोल	— दु आ	क र ग	में दि ल	खु दा
स्वर नं०	१६ १५	१५ —	१५ २०	२२ २३
सरगम	ग रे	रे —	रे — प	ध नी
बोल	से दु	आ —	कर ब	फा ओं
स्वर नं०	२३ २३ २३	२३ २० १६	२० १८	१६ १५
सरगम	नी नी नी	ध प म	प म	ग रे
बोल	का म ज	बू रदा	म न ब	चा क र

अन्तरा में	कोमल स्वर—रे ग ध नी	तार—रेस
स्वर नं०	२२ २३ २३ २३	२३ २३ २३ २३
सरगम	ध नी नी नी	नी नी नी नी
बोल	जो वि ज ली	च म क ती है
स्वर नं०	२३ २३ २३ २२ २० —	१६ १५ २२ २२ २२
सरगम	ध ध नी ध प —	ग रे ध ध नी ध
बोल	उ न के म ह ल	प र वो क र ले
स्वर नं०	२० २० १६ १६ १६	१५ १५ १५ १५ १५
सरगम	प प म ग ग	रे रे रे रे रे
बोल	त स ल्ली मे रा	ध र ज ला क
स्वर नं०	१५ २२ २२ २३ २३ २७ २७	२७ २५ २५ २३ २३ २३
सरगम	रे ध ध नी नी रे रे	रे स स नी नी नी
बोल	र स ला म त र हे	तू मे री जा न जा
स्वर नं०	२२ २२ २१ २३ २३ २२	२० १६ १५ १६ १५ १५
सरगम	ध ध ध नी नी ध	प भ ग ग रे रे
बोल	ये मु म्मे इ स ब	हा ने से सी मौ त
स्वर नं०	१५ १५ १५ १५ १६ १३	१५ २२ २० १६ २०
सरगम	रे रे रे रे ग स	रे ध प म प
बोल	आ ये क रु गी मैं	क्या च न्द सां से

स्वर नं०	१६ १६ १५	१५ १३ १५	१५	—
संरगम	म ग रे	रे स रे	रे	
बोल	ब चा क	— दु आ	क र	

फिर स्थाई बजायें

### गाना न० १६ स्थाई

जाग दर्दे इश्क जाग दिल को बेकरार कर  
छेड़ के आंसुओं का राग जाग दर्दे इश्क जाग

अन्तरा

आंख जरा लगी तेरी, मारा जहान सो गया ।  
ये जमीन सो गई आसमान सो गया ॥  
सो गया प्यार का सुहाग । जाग दर्दे इश्क जाग  
आ      आ      आ      आ  
किसको सुनाऊं दास्तान किसको दिखाऊं दिल का दाग  
जाऊं कहां कितनी दूर तक जलता नहीं कोई चिराग  
राख बन चुकी है आग दिल को बेकरार कर  
छेड़ के आंसुओं का राग—जाग दर्दे इश्क जाग  
ऐसी चली हवाए गम ऐसा बदल गया आसमान  
रुठ के मुझ से चल दिए मेरी खुशी के कारवां  
डस रहे हैं गम नाग, जाग दर्दे इश्क जाग  
दिल को बेकरार कर छेड़ के आंसुओं का राग जाग—

( फिल्म अनारकली से )

कोगल—म ग

स्थाई ताल दादरा

मन्द—प ध नी

स्वर न०		१७	१५ १७ १८ २०	१८ १७ १५
सरगम		ग	रे ग म प	म ग रे
बोल		जा	द दै	इश्क जा
स्वर नं०	१३	१७	१५ १७ १८ २०	१८ १७ १५
सरगम	स	ग	रे ग म प	म ग रे
बोल	ग	जा	ग द दै	ई श्क
स्वर नं०	१३ १३	१० ११	८ १० १३	१५ १७
सरगम	स स	ध नी	प ध स	रे ग
बोल	जा ग	दिल को	वे क रा	र कर
स्वर ०	१७ १८ २०	२२ २२ २०	१८ १७ १५	१३ १७ १५
सरगम	ग म प	ध ध प	म ग रे	स ग रे
बोल	छे ड के	आं सु ओं	का रा ग	जा ग

कोमल—म	अन्तरा	तार—नी सा
स्वर नं० १८ २०	२२	२४ २५
सरगम म प	ध	नी स
बोल आ	आ	आ कि स
स्वर नं० २५ २५ २५	२४ २५ २३	२० २४ २४ २५
सरगम स स स	नी स ध	प नी न नी स
बोल को सु ना ऊं	दा स्ना	न कि स को दि
स्वर नं० २२ २० १७	१७ १३	१७ १७ १७ १८
सरगम ध प ग	ग स	ग ग ग ग म
बोल खा ऊं दि	ल का	दा ग जा ऊं क
स्वर नं० १७ १५ १५	१७ १३ १५	१७ २० २० २० २१
सरगम ग रे रे	ग स रे	ग प प प म
बोल हाँ कि त	नी दू र	त क ज ल ता न
स्वर नं० १७ १५ १३	१५ १७ १७	१५ १८
सरगम ग रे स	रे रे ग	ग — रे म
बोल हीं को ईं	चि रा ग	रा — ख व न
स्वर नं० २० १८ १५	१३ १३ १०	१० ११ ८ १० १३ १५
सरगम प म रे	स स ध	ध नी प ध स रे
बोल चु की हैं	आ ग दि	ल को बे क रा र

स्वर नं०	१७ १७	१८ २० २०	२० १८ १५	१३ १३
सरगम	ग ग	म प प	प म रे	स स
बोल	क र छे	इ के आं	सु आं का	रा ग

फिर स्थाई बजाये

गाना नं० १७ शैर

मेरी तकदीर मुझे आज कहां लाई  
शीशा शीशा जहां मेरा ही तमाशाई है  
मुझे इल्जाम न देना मेरी बेहोशी का  
मेरी मजबूर मुहब्बत की मेरी रुसवाई है

स्थाई

मुहब्बत में ऐसे कदम डगमगाये  
जमाना ये समझा कि हम पी के आये, हम पी के आये

अन्तरा

जिसे काम हो रात दिन आंसुओं से  
उसे हुक्म है ये हंसे और हंसाये, जमाना……  
किसी की मुहब्बत में मजबूर होकर  
हम उन तक तो पहुंचे वो हम तक न आये जमाना—  
वो जिनके लिए जिन्दगानी लुटादी  
ये बैठे हुए हैं मेरा दिल चुराये जमाना—  
छुपोगे कहां तक नजर तो मिलाओ  
तुम्हारी बला से मेरी जान जाये, जमाना यह समझे—  
फिलम अनारकली से

कोमल०-म		मन्द सप्तक के स्वर—		ध नी
स्वर नं	१८ १८ १८	१८ १८ १८	१८ १८	१८ १८
सरगम	म म म	म म म	म म	म म
बोल	मे री त	क दी र	मु मे	आ ज
स्वर नं	१७ १७ १३	१५ १७ १७	१७ १७ १७	१७ १७ १५
सरगम	ग ग स	रे ग ग ग	ग ग ग	ग ग रे रे
बोल	क हां ला	ई है शी शा	शी शा ज	हां मे रा ही
स्वर नं	१५ १५ १३	१३ १३ १७१७	१८ १८ २२२८	२२ २२ २२
सरगम	रे रे स	स स ग ग	म म ध ध	ध ध ध
बोल	त मा शा	ई है मु मे	इ ल जा म	न दे ना
स्वर नं	२० २० २०	१८ १७	१७ १७	१७ १७ १७
सरगम	प प प	म ग	ग ग	ग ग ग
बोल	मे री वे	हो शी	का मे	री म ज
स्वर नं०	१७ १७	१७ १७	१७ १७ १५	१३ १६
सरगम	ग ग	ग ग	ग ग रे	स स
बोल	बू र	मो ह	ब्ब त ही	मे री
स्वर नं०	११ ११	११ १०	१०	
सरगम	नी नी	नी ध	ध	
बोल	रु स	वा ई	है	

कोमल स्वर... म

मन्द्र स्वर ध

स्वर नं०			१८ १८ २०	२०१८ १७
सरगम			म म प	प म ग
बोल			मु ह च्च	त में ऐ
स्वर नं०	१५ १७ १८	१८ १५ १५	१३ १३	१३ १० १०
सरगम	रे ग म	म रे रे	स स	स ध स
बोल	से क द	म ड ग	म गा	ए जमा ना
स्वर नं०	१३ १५ १७	१८ १८ १७	१७ १५	१७ १५ १३
सरगम	स रे ग	म म ग	ग रे	रे ग स
बोल	ये स म	झा कि ह	म पी	के आ ये
स्वर नं०	१८ १७ १७	१५ १७	१५ १३	१३
सरगम	म ग ग	रे ग	रे स	स
बोल	कि ह म	पी के	आ ये	

अन्तरा

कोमल स्वर— म

मन्द—ध

स्वर नं०	२० २०	१८ १८ १७	१५ १५ १७	१७ १५
सरगम	प प	म म ग	रे रे ग	ग रे
बोल	जि से	का म हो	रा त दि	न आं

स्वर नं०	१५ १३ १२	१० १०	१३ १२	१७ १८
सरगम	रे स स	ध ध	स स	ग म
बोल	सु ओं से	उ से	हु क्म	है ये
स्वर नं	१७ १७	१५ १५	१३ १२ १३	१० १० १३
सरगम	ग ग	रे रे	स स स	ध ध स
बोल	हं से	औ र	हं सा ये	ज मा ना

फिर स्थाई बजायें।

### गाना न० १८ स्थाई

इस दिल की हालत क्या कहिए  
जो शाद भी है नाशाद भी है

अन्तरा

कुछ खो भी दिया कुछ पा भी लिया  
इक राग खुशी का गा भी लिया  
और होठों से फरियाद भी की  
दिल शाद भी है नाशाद भी है—इस दिल की  
बुझता है चिराग उठता है धुआं  
सीने में लुपा है गम का जहां  
आबाद भी है बरबाद भी है  
दिल शाद भी है नाशाद भी है  
चाहत का पैमाना देखा था  
इक खगाव पुराना देखा था  
कुछ भूल गये कुछ याद भी है  
दिल शाद भी है नाशाद भी है

फिल्म अनहोनी से

## ताल कहरवा स्थाई

कोमल स्वर—म

स्वर नं०	१३ १३	१७ १७ १७ १८	१७ १५ १५	१३ १५
सरगम	स—स	ग ग ग म	ग रे रे	स रे —
बोल	इ स	दि ल की	हा ल त	क्या क
स्वर नं०	१५ १७	१७ १८ १८	२० २२ २०	१८ १८
सरगम	रे ग	ग म म	प ध प	म म
बोल	हि ए	जो शा द	भी है ना	शा द
स्वर नं०	१८ १७			
सरगम	म ग			
बोल	भी है			

कोमल—म	अन्तरा	मध्य स्वर—नी
स्वर नं० १७ १७ १८	२० २०	२२ २२ २२
सरगम	ग ग म	प प
बोल	कु छ खो	भी दि
स्वर नं० १८ १७	१७ १७ १७	१८ १७ १७
सरगम	म ग	ग ग ग
बोल	लि या	इ क रा
स्वर नं० ११ १३	१७ १३ १३	१७ १७ १८ १७
सरगम	नी स	ग स स
बोल	ना लि	या औ र
स्वर नं० १३ १५	१७ १७ १८	२० २२ २२
सरगम	स रे	ग ग म
बोल	द भी	की दि ल
स्वर नं० १३ १५	१७ १३ १३	शा द भी
सरगम	स रे	ग स स
बोल	द भी	है इ स
		दि ल
		की हा ल त

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० १६ स्थाई

तस्वीर बनाता हूँ तेरी खूने जिगर से  
देखा तुझे मैंने मुहब्बत की नजर से

अन्तरा

जितने भी मिले रंग वो सब भर दिए तुझ में  
एक रंगे बफा और है जो लाऊं वो किधर से । तस्वीर.....  
सावन तेरी जुल्कों से घटा मांग के लाया  
विजली ने चुराई है तड़प तेरी नजर से । तस्वीर.....  
मैं दिल में चुला कर तुझे रुखसत न करूँगा  
मुश्किल है तेरा लौट क जाना मेरे घर से  
तस्वीर बनाता हूँ तेरी खूने जिगर से

फिल्म दीवान स

को-म	ताल कहरवा			स्थाई		
स्वर नं०	१७ १८ २० २२	२२	२२ २२	२२	२२	२२
सरगम	ग म प ध	ध ध ध	ध ध			
बोल	त स्वी र	ब ना ता	हूँ ते			
स्वर नं०	२ २० २०	१८ १८ १७	१७ १३ १३	१७ १७ १७		
सरगम	ध प प	म म ग	ग स ग	म ग ग		
बोल	री खूने	जि ग र	से दे खा	है तु झे		
स्वर नं०	१५ १५ १२	१८ १५ १५	१५ १२ १३	१३ १३		
सरगम	रे रे रे	रे रे रे	रे स स	स स —		
बोल	मै ने मु	ह ब्ब त	की न ज	र से —		

अन्तरा

कोमल स्वर—म

तार—स

स्वर नं०	१८ २० २२	२४ २५ २५	२५ २५	२५ २५ २५
सरगम	म प ध	नी स स	स स	स स
बोल	जि त ने	भी मि ले	रं ग	बो स ब
स्वर नं०	२४ २४ २२	२२ २० १८	१७ १७	१७ १८ १७
सरगम	नी नी ध	ध प ग	ग ग	ग म ग
बोल	भ र दि	ए तु झ	में ए	क रं गे
स्वर नं०	१७ १७ १८	१७ १५ १५ १५	१७ १५	१५ १३
सरगम	ग ग म	ग रे रे रे	ग रे	रे स
बोल	व फा ओ	र है जो ला	ऊं बो	कि ध
स्वर नं०	१३ १३			
सरगम	स स			
बोल	र से			

फिर स्थाई वजायें

गाना न० २० स्थाई

दुनियां बदल रही है आंसू वहाने वाले ।

तूफान आंसुओं का पलकों में अब छपाले ॥

अन्तरा

दिल मेरा तुझ से बोले, आंसू बनाले शोले ।

उम्मीद की किरन से, यह दिल का दाग धोले ॥

इन गम की आंधियों में मन के द्विए जलाले,

आंसू वहाने वाले ... ... ...

अब दूर कर अन्धेरा, चमकेगा फिर सवेरा ।

तुझसे नजर मिला कर, भर आया दिल भी मेरा ॥

उजड़ी जवानियों की विगड़ी को तू बनाले,

आंसू ब ने वाले ... ... .

तू भी तो अब बदल जा, यह वक्त है सम्भल जा ।

रोकेगा कौन तुझ को, एक तीर बन के चलजा ॥

मैं दिल का राग छेड़, तू गीत गम का गाले,

आँसू बहाने वाले... ... ..

( फिल्म बादल से )

ताल कहरवा स्थाई

कोमल स्वर...ग

मन्द स्वर—नी

स्वर नं०	१३ १३	१७ १७ २०	२० २२ २०	१८ १७ १५
सरगम	स स	ग ग प	प ध प	म ग रे
बोल	दु नि	यां ब द	ल र ही	है
स्वर नं०	१५	१७ १८ १६ १५	१३ ११	१३ १५ १६
सरगम	रे	ग म ग रे	स नी	स रे ग
बोल	आं	सू ब हा	ने वा	ते —
स्वर नं०	१५	१६ —	१५ १३	१६ १५
सरगम	रे	ग —	रे स	ग रे
बोल	आं	सू —	ब हा	ने वा
स्वर नं०	१३ १३			
सरगम	स स			
बोल	ले			

को०—नी

अन्तरा

तार—सा नी

स्वर नं०	२२ २२	२३ २२	२० २० २२	२० २२ २०
सरगम	ध ध	नी ध	प प ध	नी स स
बाल	दि ल	मे रा	तु झ से	बो ले

स्वर नं	२५ २७	२५ २३	२५ २२	१८ १८
सरगम	स रे	स नी	ध नी	प ध प
बोल	आं	सू ब	ना ले	शो ले
स्वर नं	२२२२२३२३	२० २२ २२ २२	१८१८२०८८१६	१७ १७
सरगम	ध ध नी ध	प ध ध ध	म म पा म ग	ग ग
बोल	उ म्मी द	की कि र	न से —	य ह
स्वर नं	१७१८१८१५	१७ १८ १७	१५ १३	१२१३१६१६
सरगम	ग म म रे	ग म ग	रे स	स स ग ग
बोल	दि ल का	दा ग	धो ले	इ न ग म
स्वर नं	२० २०	२२ २० १८ १६	१५ १५ १५ १६	१८ १६ १५
सरगम	प प	ध प म ग	रे रे रे ग	म ग रे
बोल	की आं	धि यो	में म न	के दि
स्वर नं०	१३ १२	१३ १५ १६	१५	१६ १५
सरगम	स नी	स रे ग	रे	ग रे
बोल	ये ज	ला ले	आं —	सू ब
स्वर नं०	१२ १६	१५ १३ १३		
सरगम	ख ग	रे स स		
बोल	हा ने	वा ले		

फिर स्थाई बजाये

गाना नं० २१ स्थाई

मैं राही भटकने वाला हूँ, कोई क्या जाने मत वाला हूँ।

अन्तरा

यह मस्त घटा मेरी चादर है, यह धरती मेरा वि तर है।

मैं रात में दिन का उजाला हूँ—कोई क्या जाने ... ...

यह विजली राह दिखाती है, मंजिल पै हमें पहुंचाती है ।

मैं तूफानों का पाला हूँ—कोइ क्या जाने .....

मैं मचलूँ तो एक आग भोड़ूँ, मैं झूमूँ तो एक राग भी डोड़ूँ ।

दुनियां से दूर निराला हूँ—कोई क्या जाने.....

मैं राहीं भटकने वाला हूँ, कोई क्या जाने मतवाला हूँ।

( फिल्म बादल से )

## ताल दादरा स्थाई

स्वर नं०	१३ ११	१३ १५ १५	१६ १५ १३	१३ १५
सरगम	स नी	स रे रे	ग रे स	स रे
बोल	में —	रा ही भ	ट क ने	वा ला
स्वर नं०	१६ २० २०	१८ २० १८ २०	१५ १५ १६	१८ १६ १५ १५
सरगम	ग प प	म प म ग	रे रे ग	म ग रे रे
बोल	हँ को ई	क्या जा	ने म त	वा ला
स्वर नं०	१३ १३ ११	१३ १५ १५	१६ १५ १३	१३ १५
सरगम	स स नी	स रे रे	ग रे स	स रे
बोल	हँ मैं	रा ही भ	ट क ने	वा ला

स्वर नं०	१३ १३			
सरगम	स स			
बोल	हूँ			

कोमल—ग

अन्तरा

स्वर नं०	२०	१८२०१८२०	१८२० २०	२२ २८ २२ २२
सरगम	प	म प म प	म प प	ध नी ध ध
बोल	य ह	म स त घ	टा मे री	चा द र
स्वर नं०	२० २०	१८२०१८१६	१५ १६ १८	१६ १६ १५ १५
सरगम	प प	म प म ग	रे ग म	ग ग रे रे
बोल	है य ह	ध र ती	मे रा	वि स्त र
स्वर नं०	१३ १३ १०	१३ १३ १५	१६ १५ १३ १३	१३ १५
सरगम	स स ध	स रे रे	ग रे स स	स रे
बोल	है मैं	रा त में	दि न का उ	जा ला
स्वर नं०	१६ २० २०	१८२०१८१६	१५ १५ १६	१८ १६ १५ १५
सरगम	ग प प	म प म ग	रे रे ग	म ग रे रे
बोल	हूँ को ई	क्या जा	ने म त	वा ला

स्वर नं०	१३	१३			
सरगम	स	स			
बोल	ब्लॅ	—			

## फिर स्थाई बजायें

गाना नं० २२ स्थाई

उन से प्यार हो गया उन से प्यार हो गया

दिल मेरा खो गया दिल उनका खो गया

दिल दिल से मिल गया उन से प्यार हो गया

अन्तरा

नैनों से नैन मिले बदले जमाने समझे दिल बाले  
न जाने कोई और न जाने उन से प्यार हो गया

उल्कत की देखो अजब कहानी है

आये न बाड़ल किर भी पाची डन से प्यास हो गया

## ( फ़िल्म बादल से )

कोमल स्वर—म		स्थाई			मन्द स्वर—नी ध		
स्वर न०	१३	१५	२२		२०	१८	१७
सरगम	स	रे	ध		प	म	ग
बोल	उ न	से	प्या र		हो	ग	या
स्वर नं०	८८	२०	१८	१७	१७	१७	१८
सरगम	ध	प	म	ग	ग	ग	म
बोल	प्या र	हो	ग	या	दि	ल	मे रा
स्वर नं०	१२	१२	१३	१५	१३	१२	१३
सरगम	नी	नी	स	रे	स	नी	स
बोल	दि	ल	उन	का	खो	ग	दि

स्वर नं०	१३ १३ १२	१० १३	१५ २२	२० १८ १७
सरगम	स स नी	ध स	रे ध	प म ग
बोल	मि ल ग	या उ न	से प्या र	हो ग या

अन्तरा

## कोमल स्वरों के—म

स्वर नं०	१७ १७ १८	२० २० २२	२२ २० २०	२० १८
सरगम	ग ग म	प प ध	ध प प	प म
बोल	नै नों से	नै न मि	ले ब द	ले ज
स्वर नं०	१८ १७ १७	१८ २० १८	१८ १७	१७ १७ १७
सरगम	म ग ग	म प म	म ग	ग ग ग
बोल	मा ने स	म मे दि	ल वा	ले औ र
स्वर नं०	१८ २० २०	२२ २२ २०	२० १८	१७ १७
सरगम	म प प	ध ध प	प म	ग ग
बोल	न जा ने	को ई औ	र न	जा ने
स्वर नं०	१३	१५ २२	२० १८	१७
सरगम	स	रे ध	प म	ग
बोल	उ न	से प्या र	हो ग	या —

गाना नं० २३ स्थाई

दो दिन के लिए मेहमान यहां मालूम नहीं मंजिल है कहां  
अरमान भरा दिल तो है मगर जो दिल से मिलेवो दिल है कहां  
अन्तरा

इक फूल जला इक फूल खिला

कुछ अपना लुटा कुछ उनको मिला  
कैसे करें किस्मत से गिला, रंगीन हर इक महफिज है कहां  
दो दिन के लिये मेहमान यहां

दुनियां में सवेरा होने लगा इस दिल में अन्धेरा होने लगा  
हर खाब सिसक के रोने लगा

किस मुँह से कहें कातिल है यहां— दो दिन के...

जलता है जिगर उठता है धुआं

आँखों से मेरी आँसू है रवां

मर हैं वे ही जाय अर्सां

ऐसी ये मेरी मुश्किज है यहां, दो दिन के लिए

( फिल्म बादल से )

तीन ताल स्थाई

को० स्वर—ग ध

मन्द स्वर—नी ध

स्वर नं०	१० १३ १७	१७ १७ १७	१७ २२ २२	२० १८
सरगम	ध स ग	ग ग ग	ग ध ध	प म
बोल	दो दि	न के लि	ए मे ह	मा न
स्वर नं०	१७ १७ १३	१७ १७ १५	१७ १८ १७	१५ १३
सरगम	ग ग स	ग ग रे	ग म ग	रे स
बोल	य हां मा	लू म न	ही मं जि	ल है

स्वर नं०	१२ १० १०	१३ १७ १७	१७ १७ २२	२२ २० १८
सरगम बोल	नी ध ध क हां अ	स ग ग र मा न	ग ग ध भ रा दि	ध प म ल तो है
स्वर न०	१७१७१३१७	१७१५१७	१८ १७	१५ १३ १२ १०
सरगम बोल	ग ग स ग जो दि ल से	ग रे ग मि ले बो	म ग दि ल	रे स नी ध है क हां

## अन्तरा

मध्य स्वर—नी ध	कोमल स्वर—म
स्वर नं०	१७ १८ २०
सरगम	ग म प
बोल	इ क फू
स्वर नं०	२२ २२ २२
सरगम	ध ध ध
बोल	ल ज ला
स्वर नं०	२२ २२ २०
सरगम	ध ध प
बोल	इ क फू
स्वर नं०	२० १८
सरगम	प म
बोल	ल खि
स्वर नं०	१३ १२ १२
सरगम	स नी नी
बोल	छ उ न

स्वर नं०	१२ १० १०	१०१३१७१७१७	१८ १७ १५	१३ १३ १५
सरगम	नी ध ध	ध स ग ग ग	म ग रे	स स रे
बोल	को मि ला	कै से क रे	कि स्म	त से गि
स्वर नं	१७१३१७१७	१५१७१८ १७	१५ १३	१५ १३
सरगम	ग स ग ग	रे ग म ग	रे स	रे स
बोल	ला रं गी न	त र इ क	म ह	फि ल

स्वर नं०	१२	१०			
सरगम	नी	ध			
बोल	है	क हां			

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० २४ स्थाई

अनमोल प्यार बिन मोल बिके

इस दुनियां के बाजार में, इस दुनियां के बाजार में  
इनशान और ईमान बिके इस दुनियां के बाजार में  
इस दुनियां के बाजार में !

अन्तरा

खिलते ही इस फुलबाड़ी में प्यार की कलियां जाती हैं  
दिल की दिल में रह जाती हैं, चांदनी रातें रह जाती हैं  
कितने ही संसार उन्हें इस संसार में

इस दुनियां के बाजार में  
दिन के ऊंजाले में भी कोई हमको लूटके चल देता है  
प्यार भरा अरमान भरा ये दिल पैरों से कुचल देता है  
चमन हमारी आंखों के सूखे बहार में

इस दुनियां के बाजार में

धन दौलत के दूध पै हमने पाप के सांप को पलते देखा  
उल्टी रीत इस दुनियां की सुचह का सूरज ढलते देखा  
बोल यही इन्शाफ क्या मालिक तेरे दरबार में

इस दुनियां के बाजार में...

( फिल्म बादल से )

ताज़ कहरवा

कोमल—म		स्थाई				
स्वर नं०	२०	१५ १८	२०	२० २०	२०	२० १७
सरगम	प	रे म	प	प प	प	प प ग
बोल	ओ	ओ अ	न	मो ल	प्या र	बि
स्वर नं०	१७ १५ १५	१३ १३ १३	१३	१७ १७	१७	१५ १३
सरगम	ग रे रे	स स स	स	ग ग	ग	रे स
बोल	न मो ल	वि के इ	स	दु नि	यां	के बा
स्वर नं०	१६ १८	१३१३१७१७	१७	१५ १३	१७	१८
सरगम	ग म	स स ग ग	ग	रे स	ग	म
बोल	जा र में	इ स दु नि	यां	के बा	जा र	में
स्वर नं०	१८ २० २० २०	२०२०१७१७	१५	१५	१३	१३ १३
सरगम	म प प प	प प ग ग	रे	रे	स	स स स
बोल	इ न्शा न	औ र ई मा	न	वि	के	इ स
स्वर नं०	१३ १७ १७ १७	१५ १३ १७	१८	१३	१३	१७ १७ १७
सरगम	स ग ग ग	रे स ग	म	स	स	ग ग ग
बोल	दु नि यां	के बा जा	र	में इ	स दु	नि यां
स्वर नं०	१५ १३	१७ १८				
सरगम	रे स	ग म				
बोल	के बा	जा र में				

अग्रवाल बुकडिपो खारीबावली देहली

७७

अन्तरा में	कोमल स्वर—म		तार—स
स्वर नं०		२२ २२ २३	२५ २५ २५ २५
सरगम		ध ध नी	स स स स
बोल		खि ल ते	ही इ स फु
स्वर नं०	२५ २४ २४	२२ २० २०	१८ १८ २० १८
सरगम	स नी नी	ध प प	म म प म
बोल	ल वा डी	में प्या र	लि यां जा ती
स्वर नं०	१७	२२ २२ २२	२२ २० २० १८
सरगम	ग	ध ध ध	ध प प म
बोल	हैं	दि ल की	मेर ह जा
स्वर नं०	२० १७	२२ २२ २२	२० २० २०
सरगम	प ग	ध ध ध	प प प
बोल	ती हैं	चां द नी	ढ ल जा
स्वर नं०	१८ १७	१७ १७ १७	१३ १७ १७ १७
सरगम	म ग	ग ग ग	स ग ग ग
बोल	ती हैं	कि त ने	र उ ज डे
स्वर नं०	१५ १५ १३	१५ १८ १८	१७ १७ १५
सरगम	रे रे स	रे म भ	ग न रे
बोल	इ स सं	सा र में	नि यां के

फिर स्थाई बजायें

गाना न० २५ स्थाई

आज मेरे मन में सखी बांसुरी बजाये कोई

प्यार भरे गीत सखी बार बार गाये कोई

बांसुरी बजाये सखी गाये सखी

कोई छैलवा हो कोई अल वेलवा हो

अन्तरा

रग मेरी जवानी के लिए भुमता घर आया है सावन

मेरे नयनों में है साजन

इन उठी घटाओं में हवाओं में सखी नाचे मेरा मन

दिल के हिण्डोले पै मुझे भुलना भुलाये कोई

प्यार भरे गीत सखी बार २ गाये कोई

कहता है इशारों में कोई आ मुझे अम्बुआ के तले मिल

भला वो कौन है धायल

मैं नाम न लू आज लगे लाज सखी धड़के मेरा दिल

दर पै जीवन के मधुर रागनी सुनाये कोई

प्यार भरे गीत सखी बार २ गापे कोई

( फिल्म आन से )

ताल कहरवा स्थाई

स्थाई

कोमल स्वर—म

मध्य स्वर—ध

स्वर नं०	१० १३	१५ १७ १५ १५	१३ १३	१० १३ १५
सरगम	ध—स	रे ग रे रे	स स	ध स रे—
बोल	आ ज	मे रे म न	मे ख खी	बां स री
स्वर नं०	१७ १५ १५	१३ १३	१० १३	१५ १७ १५
सरगम	ग रे रे	स स	ध स	रे ग रे रे
बोल	ब जा ये	को ई	प्या र	भरे गीत
स्वर नं०	१३ १३ १०	१३ १५ १७	१५ १५	१३ १३
सरगम	स स ध	स रे ग	रे रे	स स
बोल	स खी बा	र बा र	गा ये	कोई
			फिर स्थाई	बजायें

स्वर नं०	१५ १७	१८ १७ १५		१३ १३ १३
सरगम	रे ग	म ग रे		स स स
बोल	छै ल	वा हो		को ई अ ल
स्वर नं०	१५ १७ १८	१७ १५ १३	१३ १४ १७	१८ १७ १५
सरगम	रे ग म	ग रे स	स रे ग	म ग रे
बोल	वे ल वा	हो को	ई छै ल	वा हो
स्वर नं०	१७ १७ १८	१८ १८ १८	२० २० २०	२० २० २०
सरगम	ग ग म	म म म	प प प	प प प
बोल	रं ग मे	री ज वा	नी के लि	ए झु म
स्वर नं०	२० २० २०	१८ १८ २०	१८ १७ १७	१७ १८ २०
सरगम	प प प	म म प	म ग ग	ग म प
बोल	त घ र	आ या है	सा व न	मे रे नै
स्वर नं०	२० २० १८	१७ १७ १७	१७ १७ १८	२० १८ २० १८
सरगम	प प म	ग ग ग	ग ग म प	म प म
बोल	नों में है	सा ज न	इ न उ ठी	घ टा ओं
स्वर नं०	१७ १८ २०	१८ १७ २०	२० २२ २२	२० १८ १७
सरगम	ग म प	म ग प	प ध ध	प म ग
बोल	में ह वा	ओं में स	खी ना चे	मे रा मन

स्थाई

कोमल स्वर—म

मध्य स्वर—ध

स्वर नं०	२२ २२ २२	२० २० १८	१८ १७ १७	२० २० १८
सरगम	ध ध ध	प प म	म ग ग	प प म
बोल	दि ल के	हिं ढो ले	पे मु के	भु ल ना
स्वर नं०	१८ १८ १७	१७ १७	१० १३	१५ १७ १५ १५
सरगम	म म ग	ग ग	ध स	रे ग रे रे
बोल	भु ला ये	को ई	ज्या र	भरे गीत
स्वर नं०	१३ १३ १०	१३ १५ १७	१५ १५	१३ १३
सरगम	स स ध	स रे ग	रे रे	स स
बोल	स खी बा	र बा र	गा ये	कोई
			फिर स्थाई	वजायें

गाना न० २६ स्थाई

आग लगी तन मन में दिल को पड़ा थामना  
राम जाने कब होगा सैंया जो का सामना

अन्तरा

सूनी हैं आज पिया भोरी अटरिया  
दिल धड़के जैसे विना जल की मछरिया  
जरा लीजो खर्वारिया  
आन पड़े मुश्किल तो आये कोई कामना—राम जाने  
साजन की याद मुझे पल पल सताये  
उनका सिंगार मेरे मन को न भाये  
देखो नैना भर आये  
प्यार मेरा हो जाये कहीं बदनाम ना—राम जाने  
लागी ना छूटे करो कोई बहाना  
दिल मेरा बना पिया तेरा निशाना  
आया नाजुक जमाना  
हाये बुरा उल्फत का देखो अन्जाम ना—राम जाने

( फ़िल्म आन से )

ताल कहरवा स्थाई

मन्द्र स्वर—नी

स्वर नं०	१३	१५	१७	१८	१८	१८	१८	१८	१८	१८	१८
सरगम	स	रे	ग	म	म	म	म	म	म	म	म
बोल	आ	ग	ल	गी	त	न	म	न	में	दि	ल

स्वर नं०	१८ १७ १५	१७ १७ १३	१५ १६	११ ११ ११
सरगम	म ग रे	ग ग स	रे स	नी नी नी
बोल	प ड़ा था	म ना ए	म जा	ने क व
स्वर नं०	११ १३ १५	१५ १७ १५ १५	१३ १३	१३
सरगम	नी स रे	रे ग रे रे	स स	स
बोल	हो गा सें	यां जी का	सा म ना	ना

अन्तरा

को०—नी

तार—सा

मन्द्र—नी

स्वर नं०	१७ १७ १८	२० २०	२० २० २०	२२ २३ २२
सरगम	ग ग म	प प	प प प	ध नी ध
बोल	सू नी हैं	आ ज	पि या मो	री अ ट
स्वर नं०	२० २० १७	१७ १७ १८	२० २० २०	२० २० २०
सरगम	प प ग	ग ग म	प प प	प प प
बोल	रि या दि	ल त ड़	फे जै से	बि ना ज
स्वर नं०	२२ २३ २३	२२ २० २०	२२ २२	२३ २५ २३
सरगम	ध नी नी	ध प प	ध ध	नी स नी
बोल	ल की म	क्ष रि या	ज रा	ली जो ख

स्वर नं०	२३ २२ २०	१३ १५ १७	१८ १८ १८	१८ १८ १८
सरगम	नी ध प	स रे ग	म म म	म म म
बोल	ब रि या	आ न प	डे मु श	कि ल तो
स्वर नं०	१५ १७ १७	१९ १७	१७ १७	१३ १५ १३ ११
सरगम	रे ग ग	ग ग	ग ग	स रे स नी
बोल	आ ये को	ई का	म ना	रा म जा ने

फिर स्थाई बजायें

### गाना नं० २७ स्थाई

दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले  
हम आज अपनी मौत का सामान ले चले

#### अन्तरा

मिटता है कौन देखिये उल्फत की राह में  
ओले चले हैं आन तो हम जान ले चले  
मौत का सामान ले चले                           दिल में...  
मंजिल पै होगा फैसला किस्मत के खेल का  
कर दे जो दिल का खून वो मेहमान ले चले  
मौत का सामान ले चले—दिल में छुपा कर...

( फिल्म आन से )

मन्त्र स्वर—नी ध		स्थाइ		
स्वर न०	१३ १७	१७१७१७१५	१७१५१२१८	१० १२
सरगम	स ग	ग ग ग रे	ग रे रे नी	ध नी
बोल	दि ल	में छु पा	के प्या र	का तू
स्वर नं०	१५ १७ १५ १७	१५१३१३१७	१७ १७	१७ १५ १७ १५
सरगम	रे ग रे ग	रे स स ग	ग ग	ग रे ग रे
बोल	फा न ले	च ले ह म	आ ज	अ प नी
स्वर नं०	१३ १२ १०	१५ १७ १५	१७ १५	१७
सरगम	स नी ध	रे ग रे	ग रे	ग
बोल	मौ त का	सा मा न	ले च	ले —

मन्त्र स्वर—नी ध		अन्तरा		
स्वर न०	१७ १८	२० २० २०	२२ २०	१८ १७
सरगम	ग म	प प प	ध प	म ग
बोल	मि ट	ता है कौ	न दे	ख ए
स्वर नं०	१७ १८ २०	२० २० १८	२० २२ १८	१८ १८
सरगम	ग म म	प प म	प ध म	म म
बोल	उ ल फ	त की रा	ह में उ	ल फ त
स्वर नं०	१८ २० १८	१७ १७ १५	१७ १७ १५	१३ १२ १०
सरगम	म प म	ग ग रे	ग ग रे	स नी ध
बोल	की ग ह	में वो ले	च ले हैं	आ न तो

स्वर नं०	१२ १७	१२ १५ १२	१३ १७	१५१७१७१५
सरगम	नी ग	स रे नी	स ग	रे ग ग रे
बोल	ह म जा	न ले च	ले सा	मा न ले
स्वर नं०	१२ १३	१७ १७ १५	१७ १७	१७१५१७१५
सरगम	नी स	ग ग रे	ग ग	ग रे ग रे
बोल	च ले	ह म दि	ल में	वसा करे

फिर स्थाई बजाये

### गाना नं० २८ स्थाई

मान मेरा अहसान अरे नादान कि मैंने तुझसे,  
 किया है प्यार मैंने तुझसे किया है प्यार.....  
 मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुशन,  
 तेरा चेकार—मैंने तुझसे किया है प्यार । मान.....

### अन्तरा

उल्कत न सही नफरत ही सही इसको भी मुहब्बत कहते हैं  
 तू लाख छिपाये भेद भगर हम दिल में छिपाये रहते हैं  
 तेरे भी दिल में आग उठी है जाग,  
 जवां से चाहे न कर इकरार । मैंने तुझसे किया है.....  
 अपना न बनालूं तुझको अगर एक रोज तो मेरा नाम नहीं  
 पथर का जिगर पानी करदूं ये तो कोऽ मुश्किल काम नहीं  
 छोड़ दे अब ये खेल तू करले मेल,  
 मेरे संग मान ले अपनी हार—मैंने तुझसे किया है.....

(फिल्म आन से )

कोमल स्वर—ग	ताल कहरवा	थाई	मध्य स्वर—ध
स्वर नं० १० १३ १३	१३ १३ १५	१६ १६ १६	१८ १८ १५
सरगम ध स स	स स रे	ग ग ग	म म रे
बोल मा न मे	श अ ह	सा न अ	रे ना दा
स्वर नं० १६ १६ १६	१६ १५ १५	१३ १३	१५ १३ १३
सरगम ग ग ग	ग रे रे	स स	रे स स
बोल न कि मैं	ने तु झ	से कि	या है प्या
स्वर नं० १३ १६ १६	१५ १५ १३	१३ १५	१३ १३ १३
सरगम स ग ग	रे रे स	स रे	स स स
बोल र मैं ने	तु झ से	कि या	है प्या र
स्वर नं० १० १० १३	१३ १३ १३	१५ १६ १६	१५ १३ १३
सरगम ध ध स	स स स	रे ग ग	रे स स
बोल मे री न	ज र की	धू प न	भ र ती
स्वर नं० १५ १६ १६	१६ १६ १६	१५ १३ १३	१५ १३ १६ १६
सरगम रे ग ग	ग ग ग	रे स स	रे स ग ग
बोल रु प तो	हो ता हु	शन ते	रा बे का र
स्वर नं० १६ १६ १५	१५ १३ १३	१५ १३	१३ १३ —
सरगम ग ग रे	रे स स	रे स	स स
बोल मैं ने तु	झ से कि	या है	प्या र

कामल—को नी ग	अन्तरा	मन्द्र—ध
स्वर नं २० २० २०	२० २० २०	२० २२ २३
सरगम प प प	प प प	प ध नी
बोल उ ल फ	त न स	ही न फ
स्वर नं २० २०	२० २० १८	२० १८
सरगम प प	प प म	प म
बोल स ही	इ स को	भी मु
स्वर नं २० २० २०	२० २० २०	२० २०
सरगम प प प	प प प	प प
बोल क ह ते	हैं तू ला	ख छि
स्वर नं २३ २२ २२	२० २० २०	२० २०
सरगम नी ध ध	प प प	प प
बोल द म ग	र ह म	दि ल
स्वर नं० १६ १८ १८	२० २० २०	१८ १० १३
सरगम ग ग म	प प प	ध ध स
बोल ये र —	ह ते हैं	ते रे भी
स्वर नं० १५ १६ १६	१६ १५ १३	१६ १६ १०
सरगम रे ग ग	ग रे स	ग ग ध
बोल में आ ग	उ ठी है	जा ग ज
		चां से

स्वर न०	१३ १६ १३	१३ १३ १३	१३ १३	१५ १६	१६ १६
सरगम	स स स	स स स	रे ग	ग ग	
बोल	चा हे न	क र इ	क रा	र कि	
स्वर न०	१६ १६ १५	१५ १३ १२	१५ १३	१३ १३	
सरगम	ग ग रे	रे स स	रे स	स स	
बोल	मैं ने तु	झ से कि	या है	प्या र	

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० २६ स्थाई

तुम्हे खो दिया हमने पाने के बाद ।

तेरी याद आई तेरे जाने के बाद ॥

### अन्तरा

मिला था न जब तक जुराई का गम ।

मुहब्बत का न मतलब समझे थे हम ॥

तड़फने लगे तीर खाने के बाद—तेरी याद आई……

निगाहों में अब तू समाने लगा ।

तेरा नाम होठों पै आने लगा ॥

हुए हम तेरे इक जमाने के बाद—तेरी याद आई……

मुहब्बत मिली और दिल खो गया ।

बदल गई किस्मत यह क्या हो गया ॥

खुशी छिन गई दिल लगाने के बाद—तेरी याद……

(फिल्म आन से)

ताल कहरवा स्थाई

कोमल स्वर—ग			स्थाई	मन्द स्वर—ध नी		
स्वर न०	१० १३ १३		१३ १३ —	१५ १५ १२	१६ १८	
सरगम	ध स स		स स —	रे	रे	ग म
बोल	तु मे खो		दि या —	ह म ने	पा ने	
स्वर नं०	१६ १५ १५		१३ १३ ११	१३ १६ १५	१३ १५ १५	
सरगम	ग रे रे		स स नी	स ग रे	स रे रे	
बोल	के वा द		ते री या	द आ	ई ते रे	
स्वर नं०	१५ १६ १८ १५		१५ १५	१३ १३ ११	१३ १६ १५ १३	
सरगम	रे ग म ग		रे रे	स स नी	स ग रे स	
बोल	जा ने के		बा द	ते री या	द आ ई	

## अन्तरा

कोमल स्वर—नी ग			मन्द स्वर—ध नी	तार—स		
स्वर न०	२० २० २०		२२ २३ २५	२३	२२	२० २० १८
सरगम	प प प		ध नी स	नी ध	प प म	
बोल	मि ला था		न ज ब	त क	जु दा ई	
स्वर नं०	१६ १५ १५		२० २० २०	२० २० २०	१७ १८	
सरगम	ग रे रे		प प प	प प प	म म	
बोल	का ग म		मु ह ब्ब	त का न	म त	

स्वर नं०	१६ १५ १६	१८ १६ १५	१३	—	१० १० १३
सरगम	ग रे ग	म ग रे	स	—	ध ध स
बोल	ल ब स	म भे थे	ह म	—	त ड प
स्वर नं०	१३ १३ १३	१५ १५ १६	१८ १६ १५	१५ १३ १३	१५ १३ १३
सरगम	स स स	रे रे ग	म ग रे	म ग रे	
बोल	ने ल गे	तो र वा	ने के वा	द ते री	
स्वर नं०	११ १३ १५	१३ १५ १६	१८ १६ १५	१५	—
सरगम	नी स रे	स रे रे ग	म ग रे	रे —	
बोल	या द आ	ई ते रे ज्ञा	ने के वा	द —	

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० ३० स्थाई

बड़े अरमान से रखा है बलम तेरी कसम ।

प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो पहला कदम ॥

जुदा न कर सकेंगे हमको जमाने के सितम ।

प्यार की दुनियां में यह पहला कदम हो पहला कदम ॥

### अन्तरा

ले उठा प्यार भी अंगड़ाई है दिल भी जबां ।

अजी ऐसे में लिए जाते हो तुम बोलो कहां ॥

दूर दुनियां की निगाहों से कहीं जायेंगे,

प्यार की दुनियां में यह पहला कदम………

तेरी दो आंखों में देखते हैं दोनों जहां ।

इन्हीं में खो गया दिल मेरा कहो दृढ़ं कहां ॥

चांद घटता हो घटे अपनी मुहब्बत न हो कम,  
प्यार की दुनियां में यह पहला कदम.....  
मेरी नैया को कनारे का इन्तजार नहीं ।

तेरा आंचल हो तो पतवार भी दरकार नहीं ॥  
तेरे होते हुए स्यों हो मुझे तूफानों का गम,  
प्यार की दुनियां में यह पहला कदम.....

( फ़िल्म मल्हार से )

ताल कहरवा स्थाई मन्त्र—नी ध प

स्वर नं०	१७ १७ १७	१७ १५ १७	१७ १७ १३	१७ १७ १७
सरगम	ग ग ग	ग रे ग	ग ग स	ग ग ग
बोल	ब डे अ	र मा नों	से र खा	है व ल
स्वर नं०	१७ १५ १३	१२ १० १०	८ ८	८ १० १०
सरगम	ग रे स	नी ध ध	प प	प ध ध
बोल	म ते रो	क स म	प्या र	की दु नि
स्वर नं०	१३१५१७१७	१७ १५ १५	१५ १३	१३ १३ १५
सरगम	स रे ग ग	ग रे रे	रे स	स स रे
बोल	या में य	ह प ह	ला क	द म दो
स्वर नं०	१७ १५ १५	१५ १३ १३	१३ — —	— — —
सरगम	ग रे रे	रे स स	स — —	— — —
बोल	हो प ह	ला क द	म — —	— — —

अन्तरा

मद्र स्वरों के—नी ध प

स्वर नं०			१७ १७ १७	१८ २०
सरगम			ग ग ग	म प
बोल			ले उ ठा	प्या र
स्वर नं०	२० २० २०	२०१८१८१७	१७ १५ १७	१७ —
सरगम	प प प	प म म ग	ग रे ग	ग —
बोल	भो अं ग	झाई है दि	ल भी ज	बां ...
स्वर नं०	१७ १७ १७	१८२०२०२०	१८ १७ १७	१७ १७ १७
सरगम	ग ग ग	म प प प	म ग ग	ग ग ग
बोल	अ जी ए	से में लि ये	जा ते हो	तु म बो
स्वर नं०	१५ १७ १७	१३१३१५१७	१७ १७ १७	१७ १७ १७
सरगम	रे ग ग	स स रे ज	ग ग ग	ग ग ग
बोल	लो क हाँ	दुर दु नि	यां की नि	गा हों से
स्वर नं०	१७ १७ १५	१७१५१३१२	१० द द द	द १० १३
सरगम	ग ग रे	गरे सनी	ध प प प	प ध स
बोल	कहीं जा	यें गे ह	म प्या र	की दु नि यां

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० ३२ स्थाई

ये मेरे मजबूर दिल से न मौहब्बत बेकरार  
यूं न तड़प रात दिन यूं न मचल बार २

अन्तरा

फिर बोही दिन आयेंगे वो मेरे हो जायेंगे  
तुझको यकीन हो तो मुझको नहीं ऐतबार, ये मेरे  
जिंदगी बरबाद हो लव पै न करियाद हो  
है तो यह मुश्कल मगर जैसे भी गुजरे गुजार  
चैन कहां पायेंगे तड़पे चले जायेंगे  
दिल पै काबू नहीं आना नहीं पत्थर ये मार, ये मेरे  
( फ़िल्म नगमा से )

ताल कहरवा स्थाई

कोमल स्वरों के ग ध

स्वर नं०	१३	१५	१६	१८	१८	१५	१३	२०	२०
सरगम	स रे ग	म म ग	रे	स				प	प
बोल	ये मेरे	म ज बू	र	दि ल				से न	
स्वर नं०	२०	२१२०	१८	१६	१८	१८	१८	२०	२०
सरगम	प ध प	म ग म	म म	प				प	प
बोल	मुहब्बत	त वे क	रा	र यूं				न त ड़	फ

स्वर नं०	१८ १६ १६	१८१३१५१६	१८ १८ १६	१५ १३
सरगम	म म ग	म स रेग	म म ग	रे स
बोल	रा त दि	न यू न. म	च ल वा	र वा र

अन्तरा

कोमल स्वर—ग ध नी

स्वर नं०	२० २० २०	२० २३	२५ २५ २५	२३ २२ २३
सरगम	प प प	प नी	स स स	नी ध नी
बोल	कि र बो	ही दि न	आ यें गे	बो मे रे

स्वर नं०	२३ २१ २० २०	२० २० २०	२० २१ २०	२० १८ १६
सरगम	नी ध प	प प प	प ध प	प भ ग
बोल	हो जा यें	गे तु भ	को य कीं	न हो तो
स्वर नं०	१८ १३	१५ १६	१६ १५	१३ १३ १५ १६
सरगम	म स	रे ग	ग रे	स स रे ग
बोल	हो मु भ	को न हीं	ऐ त वा	र ये मे रे

गाना न० ३३ स्थाई

फिर स्थाई बजायें

बलमां बड़ा नादान रे बलमा बड़ा नादान

प्रीत की न जाने पहचान रे बलमां बड़ा नादान

अन्तरा

बैयां पकड़ूं हाथ दबाऊं समझत नहीं कैसे समझाऊं

लाख जतन किये हार गई मैं रोगी हो गई जान रे  
बलमा बड़ा नादान रे...  
वेदर्दी संग नाता लागा मेरी प्रीत का गीत जागा  
दिनती करी मैं पैदां पढ़ूँ मैं तो मेरी जान रे  
बलमा बड़ा नादान रे...  
( किलम अलवेला से )

## ताल दादरा

मन्त्र स्वर—नी ध

स्थाई

स्वर नं०	१३ १५ १७	१८ १७ १५ १३	११ ११ १०	१३ १५ १७
सरगम	स रे ग	म ग रे स	नी नी ध	स रे ग
बोल	ब ल मा	ब ड़ा ना	दा न रे	ब ल मा
स्वर नं०	१८ १७ १५	१३ ११ १०	१३ १५ १७	१७ १८ १७
सरगम	म ग रे	स नी ध	स रे ग	ग म ग
बोल	ब ड़ा ना	दा न रे	प्री त की	ना जा ने
स्वर नं०	१५ १५ १३	११ १०	१३ १५ १७	१८ १७ १५
सरगम	रे रे स	नी ध	स रे ग	म ग रे
बोल	प ह चा	न रे	ब ल मा	ब ड़ा ना
स्वर नं०	१३ ११	१० १३ १५	१७	१८ १७
सरगम	स नी	ध म रे	ग	म ग
बोल	दा न	रे ब ल	मा	ब ड़ा—

अन्तरा

कोमल स्वर —नी

मद्र स्वरों के—नी ध

स्वर नं०	१७ १८ २०	२० २० २०	२२ २३ २२	२० १७ १७
सरगम	ग म प	प प प	ध नी ध	प ग ग
बोल	वैं यां प	क छूं हा	थ द वा	ऊ स म
स्वर नं०	१८ १९ २०	२० २० २०	२३ २३	२२ २०
सरगम	म म प	प प प	नी नी ग	ध प
बोल	भत न	हों कै से	स म	भा ऊं
स्वर नं०	१८ १८	१८ १८ १८	१८ २०	२२ २० १८
सरगम	म म	म म म	म प	ध प म
बोल	ला ख	ज त न	क र हा र	ग ई मैं
स्वर नं०	१७ २२ २२	२० १८	१७ १५ १३	१३ १५ १७
सरगम	ग ध ध	प म	ग रे स	स रे ग
बोल	रो गी	हो गई	जा न रे	ब ल मा
स्वर नं०	१८ १७	१५ १३ ११	१० १३ १५	१७ १८ १७
सरगम	म ग	रे स नी	ध स रे	ग म ग
बोल	ब डा	ना दा न	रे ब ल	मा ब डा

गाना नं० ३४ स्थाई

तेरी दुनियां में दिल लगता नहीं वापस बुलाले  
मैं सजदे में गिरा हूँ मुझ को ये मालिक उठाले

अन्तरा

बहार आई थी किसमत ने मगर यह गुल खिला डाले  
जलाया आशियां शैयाद ने पर नोंच डाले  
तेरी दुनियां में दिल लगता नहीं...

भंवर का सर न चकराये न दिल लहरों का छूवे  
ले किस्ती आप मैंने की तूफां के हवाले  
मुझको ये मालिक उठाले... तेरी दुनियां में

( फिल्म बंवरे नैन से )

को०—रे ताल कहरवा स्थाई मन्द्र—नी ध

स्वर नं०	१५ २० १८	१७ १५ १५	१५ १७ १५	१४ १५
सरगम	रे प म	ग रे रे	रे ग रे	रे रे
बोल	ते री दु	नि यां में	दि ल ल	ग ता
स्वर नं०	१७ १८ १५	१७ २० २२	२२ २४	१८ १७ १७
सरगम	ग म रे	ग प ध	ध नी	म ग ग
बोल	न हीं वा	प स बु	ला	ले मै
स्वर नं०	१७ १५ १५	१३ १३	१२ १२	१० १२ १३
सरगम	ग रे रे	स स	नी नी	ध नी स
बोल	स ज दे	में गि	रा हूँ	मुझ का

स्वरनं०	१५ १५	१७ १८	१८ १७ १८	२० १८ १८
सरगम	रे रे	ग म	म ग म	प म म
बोल	ये मा	लि क		उ ठा
स्वरनं०	१७ १५ १५	१५		
सरगम	ग रे रे	रे		
बोल	ले —	—		

कोमल स्वर—नी

अन्तरा

त.र स्वर के—संरे

स्वरनं०	२० १८ २२	२० १८	१७ १५ १७	१७ १८ १८
सरगम	प म ध	प म	ग रे ग	ग म म
बोल	ब हा रे	आ ई	थी कि	स म
स्वरनं०	२० २०	२४ २४ २२	२० २५ २२	२० २५
सरगम	प प	नी नी ध	प नी ध	प स
बोल	त ने	— म	ग र य	ह गु
स्वरनं०	२५ २५	२५ २७	२७ २५	२४ २२
सरगम	सं सं	सं रे	रे सं	नी ध
बोल	ल खि	ला डा	ले	— —

गाना नं० ३५ स्थाई

तू ने हाय मेरे जख्में जिगर को छू लिया  
 दूर हूँ मैं तेरी दुनियां से क्यूँ छूआ दामन मेरा—तूने

अन्तरा

मैं प्यार की चान्दनी रात हूँ।

उलझी हुई दर्द की बात हूँ।

तू ने हाय मेरे जख्में जिगर को छू लिया

सूना था घर कोई रहने लगा

डर के मगर दिल यह कहने लगा

तू ने हाय मेरे जख्में जिगर को छू लिया

(फिल्म नगीना से)

कोमल स्वर—नी

ताल कहरवा

कोमल तार स्वर—नी

वरन०	१८ २० २०	२५ २३	२५ २३	२२ २०
सरगम	म प प	सं नी	सं नी	ध प
बोल	तू	ने हा	या मे	रे ज
स्वरन०	१८ १७ १५	१३ १५ १७	१८ १३	१३ १३ १३
सरगम	म ग रे	स रे ग	म स	स स स
बोल	ख में जि	ग र को	छू	— —
स्वरन०	१५ १५ १३	१३ २० २१	२० २० २२	२४ २४ २२
सरगम	रे रे स	स प ध	प प ध	नी नी ध
बोल	लि या	दूर	हूँ मैं ते	री दु नि

SRI RAMAKRISHNA ASHRAMA

SIVALAYA

KARAN NAGAR.

SRINAGAR, KASHMIR.

स्वर न०	२० २०	१८ १८ २२	२४ २५	२५ २७ २५
सरगम	प प	म म ध	नी स	सं रें सं
बोल	यां से	क्यों छु	आ दा	म न मे
स्वर न०	२३ २३	१८ २० २०	२५ २५	
सरगम	नी नी	म प प	सं सं	.
बोल	रा	तू	ने	

अन्तरा

कोमल तार स्वर—नीं

स्वर न०	१८ २० २०	२२ २०	१८ १७	१७ १७ १८
सरगम	म प प	ध प	म ग	ग ग म
बोल	मैं प्यार	की चां	द नी रा	त
स्वर न०	२० २३ २५	२३ २३	२५	२५ २५
सरगम	प नीं सं	तीं नीं	सं	सं सं
बोल	हूँ उ ल	भी हु	ई द	ई —
स्वर न०	२३ २५	२३ २३	२५ २५	२३ २२ २०
सरगम	नीं सं	नीं नीं	सं सं	नीं ध प
बोल	कीं —	बा	त हूँ	— —

SRI RAMAKRISHNA ASHRAMA  
LIBRARY SRINAGAR.

Accession No.: 2027... ...

Date 02 02 2021 8-11-81

स्वर न०	१८ २० २०	२५ २३ २५	२३ २२ २०	१८ १७
सरगम बोल	म प प तू	स नी स ने हा ये	नी ध प मे रे ज	म ग ख में
स्वर नं०	१५ १३ १३ १५	१६ १८ १३ १५	१५ १३ १५ १५	१३ १५ १५
सरगम बोल	रे स स रे जि ग र	ग म स रे को छू —	रे स रे रे लि —	स रे रे या —
स्वर नं०	१८ २० २०	२५ २३ २५	२३ — —	— —
सरगम बोल	म प प तू —	स नी स ने हा ये	नी — —	

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० ३६ स्थाई

चमन में रहके बीराना मेरा दिल होता जाता है ।

खुशी में आज कल कुछ गम भी शामिल होता जाता है ।

चमन में रहके बिराना...

अन्तरा

न जाने क्यों बदलती जा रही है जिन्दगी मेरी

मैं दिल से बेखबर दिल मुझ से गाफिल होता जाता है

चमन में रहके बीराना ...

ये उल्फन और यह बेचैनी ये धड़कन और ये बेताबी  
मेरा दिल जाने किन तीरों से घायल होता जाता है ॥

चमन में रहके बीराना ...

( फिल्म दीदार से )

ताल कहरवा स्थाई

मन्द्र स्वर—ध

स्वर नं०	१०	१७ १७ १८	१५ १७ १७	१५ १७
सरगम	ध	ग ग स	रे ग ग	रे रे
बोल	च	म न में	र ह के	बी —
स्वर नं०	१२ १५ १०	१० १२ १३	१५ १७	१८ १७
सरगम	स रे ध	ध स स	रे ग	म ग
बोल	रा ना मे	रा दि —	ल हो ता	जा ता
स्वर नं०	१५ १३ १० १७	१७ १८ १५	१७ १७ १७	१५ १३ १५ १०
सरगम	रे स ध ग	ग म रे	ग ग ग	रे स रे व
बोल	है इ सी	में आ ज	क ल कु	छ ग म भी
स्वर नं०	१० १३ १५	१७ १८ १७	१७ १५ १३	१३
सरगम	ध स रे	ग म ग	ग रे म	स
बोल	शा मि ल	हो ता	जा ता है	—

अन्तरा

तार स्वर—स नी रे ग

स्वर नं०	२५ २४ २५	२५ २७ २८	२७ २५ २७	२५ २४ २२ २४
सरगम	स नी स	स रे ग	रे स रे	स नी ध नी
बोल	न जा —	ने क्यों	ब द ल	ती जा —

स्वर नं०	२२ २० १८१८	१७ १८	२० २२	२० २२ २४ २२
सरगम	ध प म	म ग म	प म	प ध नी ध
बोज	र — ही	है जि	न्द गी	— मे
स्वर नं०	२० २० २२	२२ २४ २४	२२ २० २२ २०	२० १८ २०
सरगम	प प ध	ध नी नी	ध प ध प	प म प
बोल	री —	मैं दि ल	से बे ख ब	र दि ल
स्वर नं	२० २२ २४	२४ २५ २४	२२ २० २२ २०	२० २८ २० २०
सरगम	प ध नी	नी स नी	ध प ध प	प ध प प
बोल	मु झ से	गा कि ल	हो ता जा	ता है —

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० ३७ स्थाई

ले जा मेरी दुआयें ले जा परदेश जाने वाले

ले जा मेरी दुआयें

जाकर मुला न देना दिल से मेरी वफायें

ले जा मेरी दुआयें ।

अन्तरा

तू है सुहाग मेरा तू है सिंगार मेरा

कर लूँगी जिन्दगी भर मैं इन्तजार तेरा

उम्मीद के सितारे देखो न छूब जायें

ले जा मेरी दुआयें ले जा

सुनते हैं ये सितम गर दुनियां नहीं किसी की

जिसने भी की मोहब्बत दुश्मन हुई उसी की

ऐसा न हो कि साजन हम तुम से न मिलने पायें  
 ले जा मेरी दुआयें लेजा परदेश जाने वाले  
 जा कर भुला ना देना दिल से मेरी बफायें  
 लेजा मेरी दुबायें ... (फिल्म दीदार से )

मन्त्र स्वर—नो ताल कहरवा स्थाई को०—ग ध

स्वर नं०	१३ १२	१३ १३ १२	१३ १५ १६	१६ १६ १५
सरगम	स नी	स स नी	स रे ग	ग ग रे
बोल	ले जा	मे री दु	वा यें ले	जा प र
स्वर नं०	१३ १५ १६	१८ १६ १५ १३	१२ १३ १५ १६	१५ १५
सरगम	स रे ग	म ग रे स	नी स रे ग	रे रे
बोल	दे श जा	ने वा ले	ले जा	मे री
स्वर नं०	१३ १३	१३ १३	२० २० २१	२० १८
सरगम	स स	स स	प प ध	प म
बोल	दु वा	यें —	जा क र	भु ला
स्वर नं०	१६ १८ १६	१६ १५ १३	१५ १६ १८	१६ १५ १३
सरगम	ग म ग	ग रे स	रे ग म	ग रे स
बोल	न दे ना	दि ल से	मे री	ब फायें
स्वर नं०	१२ १३ १५ १६	१५ १५	१३ १३	१३ १३ १५ १३
सरगम	नी स रे ग	रे रे	स स	स स रे स
बोल	ले जा	मे री	दु वा	यें —

अन्तरा	को०—ज नी ध	तार—नी	मन्त्र स्वर—ध
स्वर नं०	२० २० २०	२० २२ २३	२२ २० २०
सरगम	प प प	प ध नी	ध प प
बोल	सु न ते	हैं ये सि	त म ॥
स्वर नं०	१८ १६	१५ १३ १५	१६ १५ १३
सरगम	म ग	रे स रे	ग रे स
बोल	नि यां	न हीं कि	सी की
स्वर नं०	२० २१	२३ २२ २०	२० १८
सरगम	प ध	नी ध प	प म
बोल	भी की	मां ह ढ्व	त टु
स्वर नं०	१३ १५ १६	१५ १३	२० २० २१
सरगम	स रे ग	रे स	प प ध
बोल	ई उ सी	की	ऐ सा न
स्वर नं०	१८ १६	१६ १५ १३	१५ १६
सरगम	म ग	ग रे स	रे ग
बोल	ज न	ह म तु	म को
स्वर नं०	१६ १५	१३ १३ १२ १३	१५ १६
सरगम	ग रे	स स नी स	रे ग
बोल	ल ने	पा यें	ले जा
			मे री

स्वर नं०	१३ १३ १३	१३ १६	१६	
सरगम	स स स	स ग	ग	
बोल	दु वा	ये ले	जा	

किर स्थाई बजायें

गाना न० ३८ स्थाई

शामू—देख लिया मैंने किस्मत का तमाशा देख लिया

एक आग बुझी एक आग लगी आंखों ने मेरी

क्या देख लिया—देख लिया मैंने

चम्पा—देख लिया मैंने साजन तेरा वायदा देख लिया

रस्ते पै हूँ मैं मर्मजल पै तू यह प्यार को नाता देख लिया

देख लिया मैंने……

### अन्तरा

शामू—आया मैं किसी की महफिल में तृकान लिये लाखों दिल में  
मिलकर भी रहा मैं मुश्किल में मिलने का नतीजा देख लिया  
देख लिया मैंने……

चम्पा—हुपते ही तेरे बो चांद मेरे सूरज भी न निकला आंगन में  
फिर गम की अंधेरी रात हुई दो दिन का उजाला देख लिया

देख लिया मैंने……

( फिल्म दीदार से )

## स्थाई

ताल कहरवा

मन्त्र—प ध

स्वर न०		८ १३ १३	१३ १५ १८ १६	१५ १३
सरगम		प स स	स रे म ग	रे स
बोल		दे ख लि	या मैं	ने —
स्वर नं०	१३ १५ १६	१८ १६ १५	१६ १६ १५	१३ १३
सरगम	स रे ग	म ग रे	ग ग रे	स स
बोल	कि स्म त	का त मा	शा दे ख	लि या
स्वर न०	२० २०	२० २२ २०	१८ १८ १८	१६ १५ १३
सरगम	प प	प ध प	म म म	ग रे स
बोल	ए क	आ ग बु	भी ए क	आ ग ल
स्वर नं०	१५ १६ १३	६ १३ १३	१३ १५ १८ १६	१५ १३ १५ १६
सरगम	रे ग स	ध स स	स रे म ग	रे स रे ग
बोल	गी आँ	खों ने मे	री क्या दे	ख लि या
स्वर नं०	६ १३ १३	१५ १६ १५	१३ १३	
सरगम	ध स स	रे ग रे	स स	
बोल	दे ख लि	या मैं	ने	

कोमल—ध नी	अन्तरा	मन्द्र—ध
स्वर नं		२० २० २०
सरगम		प प प
बोल		छु प ते
स्वर नं	२० १८	१८ २० २१
सरगम	प म	म प ध
बोल	वो —	चां द मे
स्वर नं	१८ २० २०	२० २१
सरगम	म प प	प ध
बोल	नि क ला	आं ग
स्वर नं	२३ २१	२० १८
सरगम	नी ध	प म
बोल	की अं	धे री
स्वर नं०	१६ १६ १५	१३ १५ १३ १५
सरगम	ग ग रे	स रे स रे
बोल	दि न का	उ जा ला
स्वर नं०	६ १३	१५ १६
सरगम	ध स	रे ग
बोल	दे ख	लि या
		मैं —
		ने

गाना नं० ६ स्थाई

हो बचपन के दिन भुला न देना ।  
आज हँसे कल रुला न देना ॥

अन्तरा

रुत बदले या जीवन बदले,  
दिल के तराने हो न पुराने, हो न पुराने ।  
नैनों में बन कर स्वप्ने सुहाने,  
आयेंगे एक दिन वहाँ जमाने, वही जमाने ॥

याद हमारी मिटा न देना,  
बचपन के दिन भुला न देना ॥

लम्बे हैं जीवन के रस्ते,  
आवो चले हम गाते हंसते गाते हंसते ।

दूर देश एक महल बनाये,  
प्यार का जिसमें दीप जलायें, दीप जलायें ।

दीप जला कर बुझा न देना,  
बचपन के दिन भुला न देना ।

आज हँसे कल रुला न देना ॥

( फिल्म दीदार से )

ताल कहरवा स्थाई

मन्द्र स्वर—ध नी

कोमल स्वर—ध नी

स्वर नं०		१०	११ १३ १५	१३ १८ १६
सरगम		ध	नी	स म ग
बोल		हो		व च प
स्वर नं०	१५ १३ ११	१० ११ १३ १३	१३ १३ १३	१३ १५ १६
सरगम	रे स नी	ध नी स स	स स स	स रे ग
बोल	न के दि	न भु ला	न दे ना	आ ज
स्वर नं०	१० १७ १७	१५ १७	१८	१७
सरगम	ग ग ग	रे ग	म	ग
बोल	हं से क	ल ख	ला	न
स्वर नं०	१५ १३	१० ११	१३ १५ १३ १८	१७ १५ १३
सरगम	रे स	ध नी	स रे स म	ग रे स
बोल	दे ना	हो	ब च	प न के

कोमल—ध नी

अन्तरा

मन्द्र—ध नी

स्वर नं०		१० ११	१३ १२ ११	१३ १० १०
सरगम		ध नी	स स नी	स नी ध
बोल		ल घ्वे	हैं जी व	न के र
स्वर नं०	१० १०	१० १३ १५	१५ १५ १५	१० १२ १५
सरगम	ध ध	ध स रे	रे रे रे	ध स रे
बोल	स्ते	आ बो च	लैं ह म	गा ते हं

स्वर नं०	१६ १५ २०	१३ १५	१६ १५	२२ २२ २२
सरगम बोल	ग रे ध स त गा	स रे ते हैं	ग रे स ते	ध ध ध दूर दे
स्वर नं०	२२ २२ २२	२० २२ २०	१८ २० २२	१५ १६
सरगम बो	ध ध ध श ए क	प ध प म ह ल	म प ध ब ना यें	रे ग प्या र
स्वर नं०	१८ २० २०	२० २२ २०	१८ २० २२	२२ १३ १५ १८
सरगम बोल	म प प का जि स	प ध प में दी प	म प ध ध स रे म	ध स रे म दी प ज
स्वर नं०	१६ १५ १३	१३ १५ १६	१६ १६ १६	१६ १८ २० १८
सरगम बोल	ग रे स ला में	सा रे ग दी प ज	ग ग ग ला क र	ग म प म बु भा न
स्वर नं०	१६ १५ १३	१० ११ १३ १५	१३ १८ १६	१५ १३ ११
सरगम बोल	ग रे स दे ना	ध नी स रे हो —	स म ग व च प	रे स नी न के दि
स्वर नं०	१० ११ १३	१३ १३ १३	१३ १५ १७	१७ १७ १७
सरगम बोल	ध नी स न भु ला	स स स न दे ना	स रे ग आ ज	ग ग ग हं से
स्वर नं०	१७ १५ १७	१८ १७ १५	१३ १० ११	१३ १५ १३
सरगम बोल	ग रे ग क ल रू	म ग रे ला न दे	स ध नी ना हो	स रे स — —

फिर स्थाई बजायें।

गाना नं० ४० स्थाई

मेरी कहानी भूलने वाले तेरा जहां आबाद रहे  
तेरी खुशी पर मैं मिट जाऊं तेरा जहां आबाद रहे

अन्तरा

मेरे गीत सुने दुनियां ने मगर मेरा दर्द न कोई जान सका  
एक तेरा सहारा था दिल को तू भी न सुके पहचान सका  
बचपन की यह रीत पुरानी चाहे तुम्हे ना याद रहे

मेरी कहानी ...

मैं अपना फसाना कह न सका मेरे दिल को तमन्ना दिल में रही  
लो आज किनारे पर आकर अरमानों की किस्ती छूब गई  
किस्मत को मंजूर यही था लब पै मेरे फरियाद रहे

मेरी कहानी भूलने वाले.....

( फिल्म दीदार से )

ताल कहरवा स्थाई

स्वर नं०			१३	१७ १७
सरगम			स मे	ग री क
बोल				
स्वर नं०	१७ १७ १८	२० १८	२० २०	१८ १७
सरगम	ग ग म	म प	प प	भ ग
बोल	हा नी भू	ल ने	वा ले	ते रा
स्वर नं०	२३ १३	२३ २५२०	१७ १८	२० १७ २२
सरगम	नी नी	नी ध प	ग म	प ग ध
बोल	ज हां	आ बा द	र हे	मेरी

स्वर नं०	२० १८	१८ २० १८	१७	
सरगम	प म	म प म	ग	
बोल	क हा	नी		

## अन्तरा

कोमल तार स्वर—सं०

स्वर नं०			२० २०	२२ २२ २०
सरगम			प प	ध ध प
बोल			मे रे	गी त सु
स्वर नं०	२० १८ १८	१८ २० २०	२० २० २०	२० १८ १८
सरगम	प म म	ग प प	प प प	प म म
बोल	ने दु नि	यां ने म	ग र मे	रा द द
स्वर नं०	२० २० २२	१८ २०	२० २०	२२ २३
सरगम	प प ध	म प	प प	ध नी
बोल	न को ई	जा न	स का	हो
स्वर नं०	१८ २०	२० २०	२० २० २०	२२ २२ २२
सरगम	म प	प प	प प प	ध ध ध
बोल	जा न	स का	ए क ते	रा स हा

स्वर नं०	२३ २५ २३	२२ २०	२० १८ २०	१८ १७
सरगम	नी सं नी	ध प	प म प	म ग
बोल	रा था दि	ल को	तू भी न	मु मे
स्वर नं०	१७ १८ २०	२० २० २०	२२ २३ २२	२० २०
सरगम	ग म प	प प प	ध नी ध	प प
बो.	प ह चा	न स का	प ह चा	न स
स्वर नं०	२० २०	१३ १७ १७	१७ १७ १८	२० १८
सरगम	प प	स ग ग	ग ग म	प म
बोल	का	ब च प	न के य	ह गी
स्वर नं०	२० २० १८	१७ २३ २३	२३ २२	२०
सरगम	प प म	ग नी नी	नी ध	प
बोल	त पु रा	ने आ ज	तु मे	ना
स्वर नं०	१७ १८	२०१७२२२०	१८ १८ २० १८	१७
सरगम	ग म	प ग ध प	म म प म	ग
बोल	या द र	हे मे री	क हा नी	

फिर स्थाई बजायें

गाना न० ४१ स्थाई

जब से बलम घर आये जीयरा मचल मचल जाये

अन्तरा

दो दिल से दिल ने कहा था फसाना ।

लौटा आया है गुजरा जमाना

खुशियां साथ २ लाये जियरा मचल २ जाये

हो रोके आंखों से दिल को छुपाऊँ

मुस्करा के सितारे लुटाऊ हो मुस्करा के सितारे लुटाऊ  
 आशा भूम २ गाये जियरा मचल २ जाये  
 दो दिन हैं अपने मोहब्बत जवां हैं  
 उनसे आवाद मेरा जहां है हो उनसे आवाद मेरा जहां है  
 मनके चोर चले आये जियरा मचल २ जाये  
 (फिल्म आवारा से)

## ताल कहरवा

## स्थाई

स्वर नं०	१३ १५ १६	१६ १७ १८	० ० २०	१८ १७ १९
सरगम	स रेग	ग ग म	प प	म ग म
बोल	ज ब से	ब ल म	घ र	आ ये
स्वर नं०	१६१५१३	१८ १८ १६	१६ १६ १५	१३ १३
सरगम	ग रेस	म म ग	ग ग रे	स स
बोल	जियरा	म च ल	म च ल	जा ये

## अन्तरा

## तार स्वर—सं

स्वर नं०	२० २२ २३	२५ २५ २५	२३ २२२३२५	२३२२२०
सरगम	प ध नी	सं सं सं	नी ध नी सं	नी ध प
बोल	दि ल से	दि ल ने	क हां था	फ सा ना
स्वर नं	२० २२	२३ २५ २५	२३ २२ २३	१८१७१५१३
सरगम	प ध	नी सं सं	नी ध नी रे	म ग रेस
बोल	लौ ट	आ या है	गु ज रा	ज मा ना

स्वर नं	२० २३ २२	२० १८ १७	१८१७१७१५	१८१६१५१३
सरगम	प नी ध	प म ग	म ग ग रे	म ग रे स
बोल	हो लौ ट	आ या है	गु ज रा	ज मा ना
स्वर नं	१३ १५ १६	१६ १६	१८ २० २०	१८ १७ १८
सरगम	स रे ग	ग ग	म प प	म ग म
बोल	खु शि यां	सा थ	सा थ	ला ये
स्वर नं	१६ १५ १३	१८ १८ १६	१६ १६ १५	१३ १३
सरगम	ग रे स	म म ग	ग ग रे	स स
बोल	जि य रा	म च ल	म च ल	जा ये

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० ४८ स्थाई

दम भर जो इधर मुँह केरे बो चन्दा  
मैं उन से प्यार कर लूँगी बातें हजार कर लूँगी

अन्तरा

दिल करता है प्यार के सजदे और मैं भी उनके साथ  
चान्द को चन्दा रोज ही देखे मेरी पहली रात हो मेरी  
बादल में अब ल्हुप जारे ओ चन्दा  
मैं उनसे प्यार कर लूँगी बातें हजार कर लूँगी  
मैं चोर हूँ काम है चोरी दुनियां मैं हूँ बदनाम  
दिल को चुराता आया हूँ मैं यह ही मेरा काम हो यही मेरा  
आना तू गवाही देने ओ चन्दा  
मैं उन से प्यार कर लूँगी नजरें दो चार कर लूँगा

दिल को चुरा के खो मत जाना राह न जाना भूल  
 इन कदमों से कुचल न देना मेरे दिल का फूल  
 यह बात उन्हें समझारे ओ चन्दा  
 मैं उनसे प्यार कर लूँगी बातें हजार कर लूँगी  
 दम भर जो इधर मुँह फेरे  
 (फिल्म आवारा से)

ताल कहरवा स्थाई

मन्द्र स्वर—नी ध

स्वर नं०	१३ १३ १०	१० १३ १३	१३ १३ १३	१५ १३ १८
सरगम	स स ध	ध स स	स स स	रे ग म
बोल	द म भ	र जो इ	ध र मुं	ह फे रे
स्वर नं०	१७ १८ २०	१८ १७ १५ १३	१३ ११ १३	१५ १५
सरगम	ग म प	म ग रे स	स नी स	रे रे
बोल	ओ च	न्दा —	मैं उ न	से प्या
स्वर नं०	१६ १५ १५	१३ १३	११ १० १३	१३ १५ १५
सरगम	ग रे रे	स स	नी ध स	स रे रे
बोल	र क र	लूँ गी	बा तें	ह जार
स्वर नं०	१६ १५	१३ १३		
सरगम	ग रे	स स		
बोल	क र	लूँ गी		

तार—स	अन्तरा		मन्द्र स्वर—नी ध		
स्वर नं०	२० २२	२३ २५	२५ २५	२३ २२ २३	
सरगम	प ध	नी स	स स	नी ध नी	
बोल	दि ल	क र	ता है	प्या र के	
स्वर नं०	२३ २२ २०	२० २० २०	२२ २० २०	१८२०१८२०२२	
सरगम	नी ध प	प प प	ध प प	म प म प ध	
बोल	स ज दे	औ र मैं	भी उ न	के सा थ	
स्वर नं०	२० २२	२२ २० २०	१८ १८	१८ १६ १५ १३	
सरगम	प ध	ध प प	म म	म ग रे स	
बोल	चां द	को च न्दा	रो ज	ही दे खे	
स्वर नं०	११ १३ १३	१६ १५ १५	१३१३१६१५	१३ ११ १३ १३	
सरगम	नी स स	ग रे रे	स स ग रे	स नी स स	
बोल	मे री	ए ह ली	रा त हो	मे री —	
स्वर नं०	१६ १५ १५	१३ १३			
सरगम	ग रे रे	स स			
बोल	प ह ली	रा त			
स्वर नं०	१३ १० १०	१३ १३	१३ १५	१६ १८	
सरगम	स ध ध	स स	स रे	ग म	
बोल	बा द ल	मे तू	छु प	जा रे	

स्वर नं०	१६ १५ १८	२० १८ १३ १५	१३ ११ ११	१३ १३ १५
सरगम	ग रे म	प म ग रे	स नी नी	स स रे
बोल	ओ — —	च ना	मैं उ न	से प्या र
स्वर नं०	१६ १५	१३ १३	११ १० १३	१३ १५ १५
सरगम	ग रे	स स	नी स ध	स रे रे
बोल	क र	लूं गा	बा तें	ह जा र
स्वर न०	१६ १५	१३ १३		
सरगम	ग रे	स स		
बोल	क र	लूं गा		

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० ४३ स्थाई

आ जाओ तड़फते हैं अरमा

अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है !

मैं रोऊं यहां तुम चुप हो वहां,

अब रात गुजरने वाली है। अब रात.....

अन्तरा

ओ चांद की रंगत उड़ने लगी,

लो तारों के अब दिल दूट गये हो दूट गये

वे दर्द भरा वे चैन समा—अब रात गुजरने वाली है ॥

अब रात गुजरने वाली हैं ।

ओ इस चांद के ढोले में आई नजर ।

यह रात की दुलहिन चलदी किधर हो चलदी किधर ॥

आवाज तो दो सोये हो कहां—अब रात.....

ओ घबरा के नजर भी हार गई,  
किस्मत को भी नींद आने लगी हो आने लगी ।  
तुम आये नहीं मैं जाऊँ कहां, अब रात गुजरने वाली है ।  
(फिल्म आवार से )

ताल कहरवा स्थाई मन्त्र स्वर—प ध

स्वर नं०	८ १०	१३ १५ १६	१५ १३ ८	१३ १५ १५
सरगम	प ध	स रे ग	रे स प	स स रे
बोल	आ	जा औ त	इ प ते	हैं अ र
स्वर नं०	१६ १८ १८	१८ १६ २० १८	१२ १३ १५ १६	१३ १५ १८ १६
सरगम	ग म म	म ग प म	नी स रे ग	स रे म ग
बोल	मां अ ब	रा त गु	ज र ने	वा ली है
स्वर नं०	१८ १८	१८ १६ २० १८	१८ १६ १५	१३ १५ १८ १६
सरगम	म म	म ग प म	म " रे	स रे म ग
बोल	अ ब	रा त गु	ज र ने	वा ली है
स्वर न०	८ १०	१३ १५ १६	१५ १३ १८	१३ १५ १५
सरगम	प ध	स रे ग	रे स प	स रे रे
बोल	मैं —	रो ऊं य	हां तु म	चु प हो
स्वर नं०	१६ १८	१८ १८ १८	१६ २० १८ १८	१६ १५
सरगम	ग म	म म म	ग प म म	ग रे
बोल	व हां	अ ब रा	त गु ज	र ने

स्वर नं०	१३१५१८१६	१८ १८ १८	१६ २० १६ १८	१६ १५
सरगम	स रे म ग	म म म	ग प ग म	ग रे
बोल	वा ली है	अ व रा	त गु ज	र ने
स्वर नं०	१३ १५ १८	१८		
सरगम	स रे म	ग		
बोल	वा ली	है	.	

## अन्तरा

## मन्त्र स्वर—ध प

स्वर नं०	२०१८१६२०	२० ८० २०	२० २२	२३ २२ २०
सरगम	प म ग प	प प प	प ध	नी ध प
बोल	ओ — —	— — —	चां द	की रं —
स्वर नं०	२० १८	१८ २० २२	२३ २२ २०	१८१६१८१६
सरगम	प म	म प ध	नी ध प	म ग म ग
बोल	ग त	उ ड़ ने	ल गी	
स्वर नं०	१६ १५	१५ १३	१३ १५ १६	१८ १६ १५
सरगम	ग रे	रे स	स रे ग	म ग रे
बोल	ओ ता	रों के	दि ल भी	दू ट

स्वर नं०	१३ १३ १५	१६ १८	१६ १५ १३	६ ८
सरगम	स स रे	ग म	ग रे स	ध प
बोल	ग ये —	हो — —	दू ट	ग ये
स्वर नं०	८ १३ १५	१६ १५ १३	२० १३ १५	१५ १६
सरगम	प. स रे	ग रे स	प स रे	रे ग
बोज	वे द द	भ रा	वे चै न	स मां
स्वर नं०	१६ १६ १५	१३ १३ १५	१५ १३ १५	१३ १५ १३
सरगम	ग ग रे	स स रे	रे ग रे	स रे स
बोल	अ ब रा	त गु ज	र ने वा	ली है
स्वर नं	१६ १६	१५ १३ १३	१५ १५ १६	१५ १३ १५ १३
सरगम	ग ग	रे सं स	रे रे ग	रे स रे स
बोल	अ ब	रा त गु	ज र ने	वा ली है

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० ४४ स्थाई

हम तुम से मुहब्बत करके सनम रोते ही रहे ।

हँसते भी रहे, रोते ही रहे, हँसते ही रहे ।

खुश होके सहे उल्कूत के सितम रोते भी रहे,

हँसते भी रहे !

अन्तरा

ये दिल की लगी क्या तुझको खबर

एक दर्द उठा भर आई नजर

खामोश थे हम इस दिल की कसम—

रोते भी रहे, हँसते भी रहे……

यह दिल जो जला एक आग लगी

आंसू जो सहे बरसात हुई, बरसात हुई,  
चादल की तरह आवारा थे हम—

रोते भी रहे, हँसते भी रहे……

हम तुम से मुहब्बत करके सनम—

रोते भी रहे, हँसते भी रहे……

(फिल्म आवारा से )

ताल कहरवा स्थाई

मन्त्र—प

स्वर नं०	८ १३	१५ १५ १५	१५ १५ १३	१५ १६ १६ १८
सरगम	प स	रे रे रे	रे रे स	रे ग ग म
बोल	ह म	तु म से	मो ह ब्ब	त क र के
स्वर नं०	१६ १५ १३	८ १३	१३ १३ १२	१५ १६ १८
सरगम	ग रे स	प स	स स रे	रे ग म
बोल	स न म	रो ते	भी र हे	हं स ते
स्वर नं०	१६ १५ १३	८ १३ १३	१३ १५ १५	१६ १८ १६
सरगम	ग रे स	प स स	स रे रे	ग म ग
बोल	भी र हे	रो ते भी	र हे हं	स ते भी
स्वर नं०	१५ १३			
सरगम	रे स			
बोल	र हे			

अन्तर्।

मद्र स्वर—ध प

स्वर नं०	२० २० २२	२३ २२ २०	२० १८	१८ १६
सरगम	प प ध	नी ध प	प म	म ग
बोल	ये दि ल	की ल गी	क्या तु	झ को
स्वर नं०	१८ २०	२० १८ १६	१६ १६	१५ १५
सरगम	म प	प म ग	ग ग	रे रे
बोल	ख ब	र —	ए क	द द
स्वर नं०	१३ १३	१५ १६ १८	१६ १५	१३ १३
सरगम	स स	रे ग म	ग रे	स स
बोल	उ ठा	भ र	आ ई	न ज
स्वर नं०	१५	१६ १८	१६ १५	१३ १३
सरगम	रे	ग म	ग रे	स स
बोल	र	भ र	आ ई	न ज
स्वर नं०	१० ५	८ १३	१५ १६	१५ १३ ८
सरगम	ध प	प स	रे ग	रे स प
बोल	र	खा मो	श थे	ह म इ

स्वर नं०	८ १३ १३	१५ १५ १६	१६ १८ १६ १५	१३ १३ १५
सरगम	प स स	रे रे ग	ग म ग रे	स स रे
बोल	स दि ल	की क स	म रो ते	भी र हे
स्वर नं०	१६ १८ १६	१५ १३ १३	८ १३ १५	१५ १५
सरगम	ग म ग	रे स स	प स रे	रे रे
बोल	हं स ते	भी र हे	ह म तु	म से
स्वर नं०	१५ १५ १३	१५ १६ १६	१८ १६ १५	१३
सरगम	रे रे स	रे ग ग	म ग रे	स
बोल	मो ह व्य	त क र	के स न	म —

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० ४६ स्थाई

घर आया मेरा परदेशी, प्यास चुम्ही मेरी अंखियन की

अन्तरा

तू मेरे मन का मोती है इन नैनन की ज्योति है  
याद है मेरे बचपन की—

घर आया मेरा परदेशी ...

अब दिल तोइ के मत जाना

अब रोती छोइ के मत जाना

कसम तुम्हे इन अंसुअन की

घर आया मेरा परदेशी...

( फ़िल्म आवारा से )

ताज कहरवा स्थाई

कोमल स्वर—रे ग म

स्वर नं०	१३ १४ १६	२० १५ १६	१६ १८ १४	१८ १३ १४
सरगम	स रे ग	प म ग	ग म रे	म स रे
बोल	घ र आ	या मे रा	प र दे	शी प्या
स्वर नं०	१६ १४ १८	१६ १४ १४	१६ १४ १४	१३
सरगम	ग रे म	ग रे रे	ग रे रे	स
बोल	स बु झी	मे री अं	खि य न	की

अन्तरा

कोमल स्वर—नी ध ग म रे

तार स्वर—स

स्वर नं०	२१ २३ २१	२५ २५ २३	२१ २३ २१	२०
सरगम	ध नी ध	स स नी	ध नी ध	प
बोल	तू मे रे	म न का	मो ती	है
स्वर नं०	२० २१ २३	२५ २५ २३	२१ २३ २१	२०
सरगम	प ध नी	स नी नी	ध नी ध	प
बोल	इ न नै	न न की	ज्यो ती	है
स्वर नं०	१६ १८ १६	२० १८ १६	१८ १६ १४	१८
सरगम	ग म ग	प म ग	म ग रे	म
बोल	या द है	मे रे ब	च प न	की

स्वर नं०	१३ १४ १६	१५ १८ १६	१४ १४ १६	१३ १६
सरगम	स रे ग	रे म ग	रे रे ग	स ग
बोल	घ र आ	या मे	रा प र	दे शी

फिर स्थाई बजायें

### गाना नं० ४७ स्थाई

गम का फसाना किसको सुनायें।

दूटा हुआ दिल किसको दिखायें।

अन्तरा

तेरा भला हो तड़काने वाले

दिल दे रहा है तुझ को दुवायें—गम का...

हँसती है किस्मत कहती है दुनियां

आपस में दो दिल मिलने न पायें—गम का...

तुझ को कसम है ऐसे में आजा

फिर ये जमाने शायद न आयें—गम का...

दूटा हुआ दिल कैसे दिखायें

(फिल्म मेला से)

### ताल कहरवा स्थाई

स्वर नं०	१३ १३	१३ १६	१५ १७ १७ १८	१७ १७
सरगम	स स	स स	रे ग ग म	ग ग
बोल	ग म	का फ	सा जा कि	स को

स्वर नं०	१५ १५	१५ १७ १०	१७ १७ १८	२० १८ १७
सरगम	रे रे	रे ग ग	ग ग म	प म ग
बोल	सु ना	ये दू टा	दु आ दि	ल कि स
स्वर नं०	१७ १२	१५ १५ १३	१२ १३ १३	१५ १७ १५
सरगम	ग रे	रे रे स	स स स	रे ग रे
बोल	को दि	खा ये ग	म का फ	सा ना

अन्तरा

तर स्वर — स

स्वर नं०		१७ ८०	२० ८२ ८२	२२ ८४ ८५
सरगम		ग प	प ध ध	ध नी स
बोल		ते रा	भ ला हो	त ड़ पा
स्वर नं०	२५ २४	२२२४२२२०	१८ १६ १६	१६ १६
सरगम	स नी	ध नी ध प	म ग ग	ग ग
बाल	ने वा	ले — —	— दि	ल दे
स्वर नं०	१६ १८ २०	१८ १६ १६	१५	१५ १५
सरगम	ग म प	म ग ग	रे	रे रे
बोल	र हा है	तु भको	दु	वा ये
स्वर नं०	१३ १३ १३	१३१५१६१५		
सरगम	स स स	म रे ग रे		
बोल	ग म का	फ मा ना		

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० ४८ स्थाई

परदेश बलम तुम जाओगे कहो मेरी

कसम कब आओगे—

अन्तरा

घन घोर घटा जब छायेगी—छायेगी

जब पास न तुमको पायेंगे

नैनों से जल वरसायेंगे... परदेश बलम...

हो अम्बुआ पे कोयल जब बोलेगी-बोलेगी

मेरी छोटा सी दुनिया ढोलेगी—ढोलेगी

लुप्त लुप्त के यह विरहन रोवेगी—रोवेगी

इस दिल को जो ठेस लगाओगे

देखो प्रीत किए पछताओगे-परदेश बलम...

हो बन में पवन जब भूमेगी-भूमेगी

हर फूल का मुखड़ा चूमेगी-चूमेगी

हंस हंस के जवानी भूमेगी-भूमेगी

मोरे नैन में तुम बस जाओगे

मेरा नाजुक दिल तड़फ़ाओगे—परदेश बलम

( किलम मेला से )

ताल कहरवा स्थाई

मन्त्र—प ध म नी

स्वर नं०				८ १०	६ ८
सरगम				प ध	म प
बोल				प र	दे श

अग्रवाल बुकडिपो खारीबावली देहली

१३१

स्वर नं०	१२ १२ १३	१५ १३ १२	१३ १३ १३ १५	१७ १८ १८
सरगम	नी नी स	रे स नी	स स स रे	ग म म
बोल	ब ल म	तु म जा	वो गे क	हो मे री
स्वर नं०	१८ १७ १७	१५ १५	१३ १५ १३	१३
सरगम	म ग ग	रे रे	सा रे स	स
बोल	क स म	क ब	आ बो गे	—

अन्तरा

तार स्वर—स

स्वर नं०	२० २२	२४२५२५२५	२४ २२ २२	२० २२
सरगम	प ध	नी स स स	नी ध ध	प ध
बोल	घ न	घो र घ	टा ज ब	छा ये
स्वर न०	२०	२४ २२	२० २२ २०	
सरगम	प	नी ध	प ध प	
बोल	गी	छा ये	गी	

तीन बार इसी तरह अन्तरा बजायें

मन्त्र स्वर—नी ध प

स्वर न०				२० २०
सरगम				प प
बोल				ज ब

स्वर नं०	१८ २०	२० २२ २५	२४ २२	२० २०
सरगम	म प	प ध नी	नी ध	प प
बोल	पा स	न तु म	को पा	ये गे
स्वर नं०	१८ १८ १८	१६ १३ १५	१५ १३ १५	१३ १२ १० ८ १६
सरगम	म म म	ग ग रे	रे स रे	स नी ध प म
बोल	नै नौं से	ज ल व	र सा ये	गे
स्वर नं०	८ १० ६	८ १२ १२	१३ १५ १३	१२ १३ १३
सरगम	प ध म	प नी नी	स रे स	नी स स
बोल	पर दे श	ब ल म	तु म जा	बो गे

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० ४६ स्थाई

गायेजा गीत मिलन के तू अपनी  
लगन के सजन घर जाना है

अंतरा

काहे छलके नैनों की गगरी काहे वरसे जल  
तुम बिन सूनी साजन की नगरी परदेशिया घर चल  
प्यासे हैं दीप गगन के तेरे दर्शन के सजन घर जाना है

गायेजा गीत मिलन के.....

लुट न जाये जीवन का डेरा मुझ को है ये गम

हम अकेले यह जग लुटेरा बिछुइँ न मिल के हम  
विगड़े नसंव न न के यह दिन जीवन के  
सजन घर जाना है-

डोले नैना प्रीतम के द्वारे मिलने की है धुन  
बालम तेरा तुझ को पुकारे याद आने वाले सुन  
साथी मिलेंगे वचपन के खिलेंगे फूज मन के सजन...

(फिल्म मेला से )  
ताल कहरवा स्थाई

मन्त्र—ध

स्वर नं०			१० १३	१३ १०
सरगम			ध स	स ध
बोल			गा ये	जा गो
स्वर नं०	१३ १५ १५	१६ १३ १५	१३ १०	१३ १५
सरगम	स रे रे	ग ग रे	स ध	स रे
बोल	त मि	ल न के	तू अ	प नी
स्वर नं०	१५ १६	१६ १५ १३	१३ १३	१५ १५
सरगम	रे ग	ग रे स	स स	रे रे
बोल	ल ग	न के स	ज न	घ र
स्वर नं०	१६ १५	१३		
सरगम	ग रे	स		
बोल	जा ना	है		

अन्तरा			मन्द्र—ध		
स्वर नं०		२०	२०	२०	१८ २०
सरगम		प	प	प	म प
बोल		का	हे छ		ल के
स्वर नं०	१६ १६ १८	१५ १६ १३	१० १३ १५		१३ १५
सरगम	ग ग म	रे ग स	ध स रे		स रे
बोल	नै नौं की	ग ग री	का हे छ		ल के
स्वर नं०	१८ १६ २०	२० २० १८	२० १६ १६		१८ १६ १५
सरगम	म ग प	प प म	प ग ग		म ग रे
बोल	ज ल तु	म बि न	सू नी सा		ज न की
स्वर नं०	१३ १० १३	१५ १३ १५	१३ १३ १०		१३ १५ १३
सरगम	स ध स	रे स रे	स स ध		स रे स
बोल	— न ग	री प र	दे शि या		घ र च
स्वर नं०	१३ १० १३	१३ १० १३ १५	१५ १६ १६		१५ १३ १०
सरगम	स ध स	स ध स रे	रे ग ग		रे स ध
बोल	ल प्या से	हैं दी प	ग ग न		के ते रे
स्वर नं०	१३ १५ १५ १६	१६ १५ १३ १३	१३ १५ १५		१६ १५ १३
सरगम	स रे रे ग	ग रे स स	स रे रे		ग रे स
बोल	द र्श न	के स ज	न घ र		जा ना है

स्वर नम्	१० १० १३	१० १३	१५	
सरगम	ध ध स	ध स	रे	
बोल	तू गा ये	जा गी	त	

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० ५०

### स्थाई

मेरा दिल तोइने वाले मेरे दिल हुआ लेना ।

मिटा कर अपनी दुनियां को नई दुनियां बना लेना ।

### अन्तरा

मंजू—मुहब्बत की कसम तुमको लगी दिल की बुझा लेना ।

हमारी याद जब आये तो दो आंसू बहा लेना ॥

मेरा दिल तोइने वाले……

मोहन—नहीं आता वकाओं से मुझे दामन बचा लेना ।

तुम्हीं पर जान दे देंगे किसी दिन आजमा लेना ।

मेरा दिल तोइने वाले……

मुहब्बत नाम है गम का खुशी से गम उठा लेना ।

अगर दिल को न चैन आये तो कुछ रो रो के गा लेना ।

मेरा दिल तोइने वाले……

( फ़िल्म मेंला )

ताल दादरा

स्थाई

मद्र स्वर—नी

स्वर नं०			१३ १३ १५	११ १३
सरगम			स स रे	नी स
बोल			मे रा	दि ल
स्वर नं०	१५ १५	१८ २० १८	१६ १५	१५ ११
सरगम	रे रे	म प म	ग रे	रे नी
बोल	तो ड़	ने वा	ले मे	रे दि
स्वर नं०	१३ १५	१६१८१६१५	१३	१३ १३
सरगम	स रे	ग म ग रे	स	स स
बोल	ल की	दु आ ले	ना	मि टा
स्वर नं०	१५ ११	१३१५१८२०	१८ १६ १५	१५ ११
सरगम	रे नी	स रे म प	म ग रे	रे नी
बोल	क र	अ प नी	दु नि यां	को न
स्वर नं०	१३ १५ १६	१८ १६ १५	१३ १३	
सरगम	स रे ग	म ग रे	स स	
बोल	ई दु नि	या ब सा	ले ना	

अन्तरा			मन्द्र स्वर—नी	
स्वर न०				२०२०२०
सरगम				प प प
बोल				मु ह अ
स्वर नं०	२२ २५ २३	२२ २० २२	२३ २५	२३ २२
सरगम	ध नी स	ध प ध	नी स	नी ध
बोल	त की क	स म तु	म को	ल गा
स्वर नं०	२० १८ २०	२२ २५	२३ २२ २०	१८ १६
सरगम	प म प	ध स	नी ध प	म ग
बोल	दि ल की	बु भा	ले ना	ल गी
स्वर न०	१५ १३ १५	१६ १८ १६	१५ १३ १३	१३ १५
सरगम	रे स रे	ग म ग	रे स स	स रे
बोल	दि ल की	बु भा ले	ना ह	मा री
स्वर न०	११ १३ १५	१५ १८ २०	१८ १६	१५ १५
सरगम	नी स रे	रे म प	म ग	रे रे
बोल	या द ज	ब आ ये	तो दो	आं सू
स्वर नं०	११ १३ १५	१६ १८ १६ १५	१३ १३	१३ १३ १५
सरगम	नी स रे	ग म ग रे	स स	स स रे
बोल	ब हा दे	ना		मे रा

स्वर नं०	११ १३	१५ १५ १८	२० १८ १६ १५	१५ ११ १३
सरगम	नी स	रे रे म	प म ग रे	रे नी स
बोल	दि ल	तो ड़ ने	वा ले मे	री दि ल
स्वर नं०	१५ १६	१८ १६	१५ १३	
सरगम	रे ग	म ग	रे स	
बोल	की दु	आ ले	ना	

फिर स्थाई बजावें

### गाना नं० ५१ स्थाई

ओ मुझे किसी से प्यार हो गया ।

प्यार हो गया दिल बेकरार हो गया ॥ दिल बेकरार . . .

अन्तरा

दर्द चाहा था हमने छुपाना

खुल गया फिर भी दिल का फसाना

दिल ने ये क्या किया ओ सलौने पिया

मोरा धड़के जिया—ओ मुझे किसी से

जो छुपाना मैंने चाहा आंखों ने कह दिया

और जो मैंने कहना चाहा दिल ही में रह गया

आंखों आंखों में करके इशारे

किसने दिल से कहा हम तुम्हारे

तूने यह क्या किया ओ सलौने पिया

मेरा धड़के जिया—ओ मुझे किसी से प्यार हो गया

( फिल्म बरसात से )

स्थाई

ताल कहरवा

तार स्वर—स

मन्त्र स्वर—ध

स्वर नं	१० १३	१५ १६	२०
सरगम	ध स	रे ग	प
बोल	ओ		
स्वर नं०	२० १८	१६ १६	१५ १८
सरगम	प म	ग ग	रे म
बोल	मु झे	कि सी	से प्या
स्वर नं०	१५ १३	२० २० २२	२५ २५
सरगम	रे स	प प ध	स स
बोल	ग या	प्या र हो	ग या
स्वर नं०	२२ २० १८	१६ १५ १३	१५ १५
सरगम	ध प म	ग रे स	रे रे
बोल	क रा र	हो ग या	दि ल
स्वर नं०	१६ १५	१३	
सरगम	ग रे	स	
बोल	हो ग	या हो	

		अन्तरा	मन्त्र त्वर—ध	
स्वर नं०			२० २०	१८ २० १८
सरगम			प प	म प म
बोल			द द	चा हा था
स्वर नं०	१८ १८ १६	१८ २० २०	२० २०	२० १८
सरगम	म म ग	म प प	प प	प म
बोल	ह म ने	छु पा ना	खु ल	ग या
स्वर नं०	१६ १६	१६ १५ १५	१५ १६	१५ १३
सरगम	ग ग	ग रे रे	रे ग	रे स
बोल	फि र	भी दि ल	का फ	सा ना
स्वर नं०	२० २० २०	२० २१	२०१८१८	१८ १८ २०
सरगम	प प प	प ध	प म म	म म प
बोल	दि ल ने	ये क्या	कि या बो	स लो ने
स्वर नं०	१८ १६	१६ १६ १५	१६१८१६	१५ १३
सरगम	म ग	ग ग रे	ग म ग	रे स
बोल	पि या	मो रा ध	इ के जि	या
स्वर नं०	१३ १०	१० १३	१५१६२०	
सरगम	स ध	स	रे ग प	
बोल	आ	ओ		

गाना नं० ५२

बरसात में हम से मिले तुम सजन  
तुम से मिले हम बरसात में  
अन्तरा

प्रीत ने शृंगार किया मैं बनी दुलहन, मैं बनी दुलहन  
सपनों की रुम झुम में नाच उठा मन मेरा नाच उठा मन  
आज मैं तुम्हारी हुई तुम मेरे सजन—  
बरसात में—

नैनों से खांके जो मस्त जवानी मस्त जवानी  
दुनियां में कहती किरे दिल की कहानी, दिल की  
उनकी जो मैं तो कैसी शरम  
बरसात में...

ये समाँ में जा रहे हो केसे ननाऊँ, कैसे मनाऊँ  
मैं तुम्हारी राह में निज नेन विछाऊँ, नैन विछाऊँ  
जो न आआ तुमको मेरी जान की कसम,  
बरसात में...

देर न करना कहीं ये आस टूट जाये सांस टूट जाये  
तुम न आआ दिल की लगी दिल को ही जलाय खाक में मिलाय  
आग की लपटों में पुकारे यह मेरा गम  
मिल न सके हम हांय मिल न सके हम  
बरसात में...

(फिल्म बरसात से )

ताज कहरवा स्थाई

मन्द्र—ध नी

भरन०  
सरगम  
बोज

६ ११ १३	१३ १३
ध नी स	स स
व र सा	त मे

स्वर नं	१३ १३ १४	१६ १८ १६	२० १८ १६	१६१४१४
सरगम	स स रे	ग म म	प म ग	ग रे रे
बोल	ह म से	मि ले तु	म स ज	न तु म
स्वर नं०	१४ १८१४	१६ १८	१६ १४ १३	६ ११ १३
सरगम	रे म रे	ग म	ग रे स	घ नी स
बोल	से मि ले	ह म		व र सा
स्वर नं	१३ १३	१३		
सरगम	स स	स		
बोल	त	में		

## अन्तरा

कोमज्ज स्वर—नी ध      तार स्वर—सं      मन्द्र स्वर—ध नी

स्वर न०		२० २०	०० २० २०	२१ २३ २५
सरगम		प प	प प प	ध नी स
बोल		प्री त	ते सि गा	र कि या
स्वर नं०	२३२१ २३	२१ २१ २०	२० २०	२१ २३ २१
सरगम	नी ध नी	ध ध प	प प	ध नी ध
बोल	मैं व नी	दु ल ह	न मैं	ब नी दु
स्वर नं०	२१ २० २०	२० २० २०	२० २०	२१ २३
सरगम	ध प प	प प प	प प	ध नी
बोल	ल ह न	स प नों	की रु	म सु

स्वर नं०	२५२३ २१	२३ २१ २१	२० २० २०	२१ २३
सरगम	स नी ध	नी ध ध	प प प	ध नी
बोल	म में ना	च उ ठा	म न मे	रा ना
स्वर नं०	२१ २१ २०	२० २०२०	२१ २१	२१ २१ २०
सरगम	ध ध प	प प प	ध ध	ध ध प
बोल	च उ ठा	म न	आ ज	मैं तु म्हा
स्वर नं०	२० १८ १८	१६ १६१८	१८ २०	१८१६
सरगम	प म म	ग ग म	म प	म ग
बोल	री हु ई	तु म मे	रे स	न म
स्वर नं०	१४ १४ १४	१६ १४१३	१३ १३	६ ११
सरगम	रे रे रे	ग रे स	स स	ध नी
बोल	तु म मे	रे स न	म	ब र
स्वर नं०	१३ १३	१३		
सरगम	स स	स		
बोज	सा त	में		

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० ५३ स्थाई

छोड़ गये बालम मुझे हाय अकेला छोड़ गये

छूट गया बालम हाय साथ हमारा छूट गया

दूट गया बालम मेरा प्यार भरा दिल दूट गया

## अन्तरा

दूजों संग मुस्काएं कलियां मैं कैसे मुस्काऊं  
बादल देख के भर आई अंदियां छम छन् नीर बहाऊं  
छोड़ गये बालम्...

दिल की लगी को क्या कोई जाने मैं जानू दिन जाने  
पलकों की छाया में नाचे दर्द भरे फसाने  
छोड़ गये बालम्...

पहले दिल में आग लगी और फिर बरसी बरसात  
ऐसी चली विरहा की आँधी तड़फत हूँ दिन रात  
छोड़ गये बालम्...

( किल्म बरसात से )

## ताल कहरवा

## स्थाई

स्वर नं०	१३ १६	१६ १६	२० १८	१६ १४
सरगम	स ग	ग ग	प म	ग रे
बोल	छो ड़	ग ये	बा ल	म मु
स्वर नं०	१३ १३	१४ १६	१४ १३	११ १३
सरगम	स स	रे ग	रे स	नी स
बो	के हा	य अ	के ला	छो ड़
स्वर नं०	१३ १३	१३ १६	१६ १६ २०	१८ १६
सरगम	स स	स ग	ग ग प	म ग
बोल	ग ये	छू ट	ग या बा	ल म
स्वर नं०	१४१३१३	१४ १६ १४	१३ ११	१३
सरगम	रे स स	रे ग रे	स नी	स
बोल	हा य सा	थ ह मा	रा छू	ट

स्वर नं०	१३ १३			
सरगम	स स			
बोल	ग या			
कोमल स्वर—ध		अन्तरा		मन्त्र स्वर—ध नी
स्वर नं०		२० २० १८	२० १६ १६	१८ २०
सरगम		प प म	प ग ग	म प
बोल		फ्लों सं	ग मु स	का ये
स्वर नं०	२० २०	२० २१ २१	२० १८	१६ १८
सरगम	प प	प ध ध	प म	ग म
बोल	क लि	यां मैं कै	से मु	स का
स्वर नं०	२० १६	१६ १६ १६	१६ १६ १५	१६ १८ १६
सरगम	प ग	ग ग ग	ग ग रे	ग म ग
बोल	ऊं बा	द ल दे	ख के भ	र आ ई
स्वर नं०	१५ १५ १३	११ ११ १३	१३ ११	११ ६ ६
सरगम	रे स स	नी नी स	स नी	नी ध ध
बोल	अं खि यां	छ म छ	म नी	र व हा
स्वर नं०	६	१३ १६	१६ १६	
सरगम	ध	स ग	ग ग	
बोल	ऊं	छो ड़	ग ये	

गाना नं० ५५ स्थाई

तू मेरा चान्द मैं तेरी चान्दनी  
 मैं तेरा राग तू मेरी रागनी, ओ ओ ओ  
 नहीं दिल का लगाना कोई दिल्लगी कोई दिल्लगी !

अन्तरा

साथ ही जीना साथ ही मरना उल्फत की है रीत ।

प्यार की मुख्ली हरंदम गाये तेरे मिलन के गीत ॥

मैं तेरा राग तू मेरी रागनी, तू मेरा चान्द मैं तेरी चान्दनी,  
नहीं दिल का जगाना। कोई दिलजगी कोई दिललगी !

भूल न जाना रुत ये सुहानी यह दिन और यह रात ।

जब तक चमके चान्द सितारे देखो क्षुदे न सात ॥

तू मेरा चान्द मैं तेरी चान्दनी, तू मेरा राग मैं तेरी रागनी,  
नहीं दिल का लगाना कोई दिल्लगी कोई दिल्ल ।

( फ़िल्म दिल्ली से )

ताल कहरवा

स्थाई

कोमल स्वर—नी ध

तार स्वर—

मन्द स्वर—ध

स्वर नं०	१०	१० १३ १३	१५ १६	१३ १५
सरगम	ध	ध स भ	रे ग	स रे
बोल	तू	मे रा चां	द मे	ते री
स्वर नं०	१३ १३ १३	१० १० १३	१३ १५	१६ १६
सरगम	स स स	ध ध स	स रे	ग ग
बोल	चां द नी	मै ते रा	रा ग	तू

स्वर नं	१३ १५ १३	१३ १३ १३	१५ १६ १८	१८ १६ १५
सरगम	स रे स	स स स	रे ग म	म ग रे
बोल	मे री रा	ग नी हो		
स्वर नं०	१५ १३ १	१३ १५ १६	१८ १८ १८	१८ १८ १६
सरगम	रे स स	स रे ग	म म म	म म ग
बोल		न हीं दि	ल का ल	गा ना
स्वर नं	१६ १६ १५	१५ १५ १६	१३ १५	१३ १३
सरगम	॥ ग रे	रे रे ग	स रे	स स
बोल	को ई दि	ल्ल गी	को ई	दि
स्वर नं०	१५ १५ १३	१० १० १३	१३ १५	
सरगम	रे रे स	ध ध स	स रे	
बोल	लज गी	तू मे रा	चां द	

अन्तरा

तार स्वर—स			मन्द्र—नी ध		
स्वर नं०	२० २० २०	२० १८ २०	१६ १६		
सरगम	प प प	प म प	ग ग		
बोल	सा थ ही	जी ना	सा थ		
स्वर न०	१८ १६ १५	१३ १३ १३	१३ १३ १३	१५ ११ ११	
सरगम	ग ग रे	स स स	स स स	रे नी नी	
बोल	ही म र	ना उ ल	फ त की	य ह	

स्वर नं०	१३ १५ १५	१६ १८ १६	१६ १६ १५	१३ १३
सरगम	स रे रे	ग म ग	ग ग रे	स स
बोल	री त हा		उ ल फ	त की
स्वर नं०	१५ १३	१३ १३ १३	११ १० १३	१५ १६
सरगम	रे स	स ल स	नी ध स	रे ग
बोल	य ह	री त हां	उ ल फ	त की
स्वर नं०	१६ १६	१५ १३	२२ २२	२३ २२ २५
सरगम	ग ग	रे स	ध ध	नी नी स
बोल	य ह	री त	ख्या र	की मु र
स्वर नं०	२५ २३ २३	२३ २३ २३	२० १८ १६	१६ १५ १५
सरगम	स नी नी	नी नी नी	प म ग	ग रे रे
बोल	ली ह र	द म गा	ये ते रे	मि ल न
स्वर नं०	१५ १३ १३	१३ ११	१० १०	१३ १५ १६
सरगम	रे स स	स नी	ध ध	स रे ग
बोल	के गी	त हां	ते	रे मि ल
स्वर नं०	१६ १६	१५ १३	११ १० १०	१३ १३ १३
सरगम	ग ग	रे स	नी ध ध	स स स
बोल	न के	गी त	तू मे रा	चां द

स्वर नं०	१५ १६ १६	१३ १५ १३	१३ १६ १३	१३ १५ १६
सरगम बोल	रे ग ग मैं ते	स रे स री चां द	स ग स नी हो हो	स रे ग हो हो

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० ५६ स्थाई

इस दुनियां में ये दिल बालों दिल का लगाना खेल नहीं ।

उल्फत करना खेल है लोकन करके निभाना खेल नहीं ॥

अन्तरा

जब से हुए हैं दूर वो हम से ढूँढ़ रही है उनको नजर ।

हायरे ओ बेदर्द जमाने यह भी नहीं है तुझको खबर ॥

आग लगी है दिल में कुछ ऐसी जिसका बुझाना खेल नहीं,  
उल्फत करना खेल है.....

लाख सताये हमको ये दुनियां भूल सकेंगे उनको न हम ।

और बढ़े गी उनकी मुहब्बत जितने सहेंगे जुल्मो सितम ॥

कहदे कोई नादानों से हमको मिटाना खेल नहीं !

उल्फत करना—खेल है.....

फिल्म दिल्लिगो से

तीन ताल स्थाई मन्त्र स्वर—प. नी

स्वर नं०	८ ८ १२	१२ १२ १२	१२ १३ १५ १५	१५ १३
सरगम	प प नी	नी नी नी	नी स रे रे	रे स
बोल	इ स दु	नि यां मैं	ये दिल —	वा लो
स्वर नं०	१८ १८ १८	१८ १६ १५	१३ १३ १५	१५ १३ १२
सरगम	म म म	म ग रे	स स रे	रे स नी
बोल	दि ल का	ल गा ना	खे ल	न ही

स्वर नं०	८ १२ १२	१२ १२ १२	१२ १२	१३ १५
सरगम	प नी नी	नी नी नी	नी नी	स रे
बोल	उ ल फ	त क र	ना खे	ल है
स्वर नं०	१५ १५	१३ १८ १८	१८ १८	१६ १५
सरगम	रे रे	स म म	म म	ग रे
बोल	ले कि	न क र	के नि	भा ना
स्वर नं०	१३ १३	१५ १५	८ ८ १२	१२ १२ १२
सरगम	स स	रे रे	प प नी	नी नी नी
बोल	खे ल	न ही	इ स दु	दि यां में
तार स्वर—स	अन्तरा		मन्द्र स्वर—ध	
स्वर नं०	२० २० २०	१८ २० २०	१६ १६ १५	१३ १३ १३
सरगम	प प प	म प प	ग ग रे	स स स
बोल	ज ब से	हु ए हैं	दू र बो	ह म से
स्वर नं०	१० १३ १३	१३ १० १३	१३ १३ १५	१६ १८
सरगम	ध स स	स ध स	स स रे	ग म
बोल	द्वं द र	हा है उ	न को न	ज र
स्वर नं०	१५ १६ १५	१३ १५ १५ १३	१३ १३	१३ १३ १३
सरगम	रे ग रे	स रे रे स	स स	स स स
बाल	द्वं द र	ही है उ	न को	न ज र

अग्रवाल बुकांडपो खारीबावली देहली १५१

स्वर नं०	२० २० २२	२५ २५	२३ २३	२२ २२ २०
सरगम	प प ध	स स	नी नी	ध ध प
बोल	हा य रे	बो वे	द र द	ज मा ने
स्वर नं०	१८१८२०	१८ १६ १५	१५ १६ १८	१६ १५१ ३
सरगम	म म प	म ग रे	रे ग म	ग रे स
बोल	य ह भी	न ही है	तु झ को	ख ब र
स्वर नं०	१०१०११	१३१३१५१६	१५ १५ १३	१३ १३ १३
सरगम	ध ध स	स स रे ग	रे रे स	स स स
बोल	य ह भा	न ही है	तु झ को	ख ब र
स्वर नं०	८ ८ १२	१२ १२	१२ १२ १३	१५ १५ १५
सरगम	प प नी	नी नी	नी नी स	रे रे रे
बोल	आ ग ल	गो है	दि ल	में कुछ
स्वर नं०	१३ १८	१८१८१८	१६ १५ १३	१३ १५ १५
सरगम	स म	म म म	ग रे स	स रे स
बोल	ऐ सी	जि स का	बु भा	ना खे ल
स्वर नं०	१३ १२ ८	८ १२ १२	१२ १२	१२१३१५१५१३
सरगम	स नी प	प नी नी	नी नी	नी स रे रे स
बोल	न ही इ	म दु नि	या में	ये दिल बालो
			फिर	स्थाई बजायें

गाना नं० ५७ स्थाई

तेरे कूचे में अरमानों की दुनियां लेके आया हूँ  
 तुझी पर जान देने की तमन्ना लेकर आया हूँ  
 अन्तरा मिला था दिल से जब दिल याद कर वो भूलने वाले  
 वही बीते जमाने का सहारा लेके आया हूँ—तेरे कूचे...  
 जिगर में टीस दिल में दर्द और आँखों में दो आँसू  
 जरा तो देख लो आकर मैं क्या क्या लेकर आया हूँ  
 तेरे कूचे में.....

ओ अकसाना मुहब्बत का कभी जो तुमने छेड़ा था  
वो अकसाना मैं होठों पर अधूरा लेकर आया हूँ  
तुझी पर जान देने की तमन्ना लेकर आया हूँ  
ताल कहरवा स्थाई (फिल्म दिल गी से)

(फिल्म दिलगी से)

## मन्द्र स्वर—नी

स्वर नं०	१३१३१५१३	१११३१३	१६१३१६	१८ २० २२
सरगम	स स रे स	नी स ग	ग स ग	म प ध
बोल	ते रे कू	चे	में अ र	मा नों
स्वर नं०	२० २० १८	१६१३१६१३	१३१५१६१८	१८१६१५१६
सरगम	प प म	ग ग ग स	स र ग म	म ग र ग
बोल	की दु	नि यां	ले के	आ या
स्वर नं०	१३ १३			
सरगम	स स	तुझी पर जा	न देने की	तमन्ना
बोल	हुँ	इसी तर्ज	प र	बजायें

मन्त्र स्वर—नी	अन्तरा	तार स्वर—संरे
स्वर नं० २५२५२५	२५ २५ २४	२५ २२
सरगम	स स स	स स नी
बोळ	मि ला था	दि ल से
स्वर नं०	२५ २५ २४	२४२८२०२४
सरगम	स स नी	नी ध प नी
बोळ	या द क	र बो भू
स्वर नं०	१५१३१५१६	१३१५२०१८
सरगम	रे स रे ग	स रे प म
बोळ	अ रे बो	भू ल ने
स्वर नं०	१३१२१३	१६१६१६१३
सरगम	स नी स	ग ग ग स
बोळ	बी ते ज	मा ने का
स्वर नं०	१६ १६ १३	१६१६१६१५१६
सरगम	ग ग स	म ग म रे ग
बोळ	— ले	के आ या
		हूँ

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० ५८ स्थाई  
जिया बेकरार है छाई बहार है  
आजा मोरे बालमा तेरा इन्तजार है

## अन्तरा

सूरज देखे चन्दा देखे सब देखे हम तरसें हो—सब देखे हम  
जैसे बरसे कोई बदरिया ऐसे अंखियां बरसे, ऐसे अंखियां

जिया बेकरार है……

नेनों से एक ताठ ढूटे मिट्टी में मिल जाये हो—मिट्टी में…  
भाँड़ों की बरसात सजनवा दिल में आग लगाये—हो दिल में

जिया बेकरार है……

नजरे तुम्ह को ढूँढ रही हैं मुखड़ा तो दखला जारे—मुखड़ा तो  
रस्ते पर हूँ आन लगाये आने वाले आजा हो—आने वाले…

जिया बेकरार है……

ताल कहरवा स्थाई

(फिल्म बरसात से)

मन्त्र स्वर—नी

स्वर नं०	३२१११२	१५ १८ १८	१८ २०	१८१६,६१६
सरगम	स नी स	रे म म	म प	म ग ग ग
बोल	जिया वे	क रा र	है छाई	ब ह र है

स्वर नं०	१६ १८ १६	१५ १३ १५	१५ १५ १८	१६१५१३१३
सरगम	ग म ग	रे स रे	रे रे म	ग रे स स
बोल	आ जा मो	रे बा ल	मा ते रा	न्त जा र है

अन्तरा				मन्त्र स्वर—नी
स्वर नं०	२० १८	१६ १८ २०	०० २१ २३	२१ २०
सरगम	प म	ग म प	प ध नी	ध प
बोल	ओ		सूरज	देखे

स्वर नं०	२० १८	१६ १५	१५ १६ १८	१६१५१५
सरगम	प म	ग रे	रे ग म	ग रे रे
बोल	चं दा	दे खे	स ब दे	खे ह म

स्वर नं०	१३ १३ १३	११ १५	१६ १८	१६ १५ १५
सरगम	स स स	नो रे	ग म	ग रे
बोल	त र से	हो स	व दे	खे ह म
स्वर नं०	१३ १३ १३	२२२२२२	२२ २२	२३ २५
सरगम	स स स	ध ध ध	ध ध	नी स
बोल	त र से	जै से व	र से	को ई
स्वर नं०	२३२२२०	२०१८१८	२० १८ १६	१८ १८
सरगम	नो ध प	प म म	प म ग	म म
बोल	व द रि	या ऐ से	अं खि	यां व
स्वर नं०	१८२०१६	१५१५१६१८	१६ १६	१५ १३
सरगम	म प ग	रे रे ग म	ग ग	रे स
बोल	र से	हो ऐ से	अ खि	यां व
स्वर नं०	१३ १३	११ न ११	१३	
सरगम	स स	नो प नी	स	
बोल	र से	ज या वे		

फिर स्थाई बंजायें

गाना नं० ५६ स्थाई

अकसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का  
आंखों में रंग भर के तेरे इन्तजार का

अन्तरा

जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में नहीं है बहार में  
जी चाहता है मुँह भी ना देखूँ बहार का

आंखों में रंग भर के तेरी……

हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलतें जमाने की  
लेकिन नसीब लाई हूँ एक सोगवार का

आंखों में रंग भरके तेरी...

आजा के अब तो आंखों में आंसू भा आगये, आंसू भी...

सागर झलक उठा मेरे सवरो करार का

आंखों में रंग भरके तेरी...

(फिल्म दर्द से )

ताल कहरवा स्थाई

मद्र स्वर—नी

तार स्वर—स

स्वर नं०		१२	१५ १२ १३	१६ १८
सरगम		स	र नी स	ग म
बोल		अ	क सा ना	लि ख
स्वर नं०	१६ १८	१८ २५ २३	२० २० २२	२० १८ १६ १८
सरगम	ग ग	म स नी	प प ध	प म ग म
बोल	र ही हूँ	दि ले वे	क रा र	का —
स्वर नं०	१६ १८ २०	१८ १६ १५	१५ १३ ११	११ ११
सरगम	ग म प	म ग रे	रे स नी	नी नी
बोल	आं खों	में रंग	भ र के	ते रे
स्वर नं०	१५ १५	१६ १८ १६	१६ १६	
सरगम	रे रे	ग म ग	ग ग	
बोल	इ न्त	जा र का	—	

अन्तरा		नद्र स्वर—नी	
स्वर नं०		१३	१३ २०
सरगम		स	स प
बोल		ज	ब तू
स्वर नं०	२० २० १८	२० २० २०	२२ २० १८
सरगम	प प म	प प प	ध प म
बोल	न हीं	तो कु छ्	भी न हीं है व हा
स्वर नं०	२० २० १५	१५ १६ १८	१६ १५ ११ १३ १३
सरगम	प प रे	रे ग म	ग रे नी स स
बोल	र में न	हीं है व	हा र में जी चा ह
स्वर नं०	१३ १६	८ १६ १६ ११	१३ ११ २० २० २२ २० १८
सरगम	स ग	म ग ग नी	स नी प प ध प म
बोल	ता है	मुं ह भी	न दे खूं ब हा र
स्वर नं०	१६ १८	१८ २० १६	१५ १८ ११ ११
सरगम	ग म	म न ग	रे स नी नी
बोल	का आं	खों में रं	ग भर के त रे
स्वर नं०	१५ १५ १६	१८ १६	१५ १५ १८
सरगम	रे रे ग	म ग	रे रे स
बोल	इ न्त	जा र	का

गाना नं ६० स्थाई

जबां है मोहब्बत हंसा है जमाना  
लुटाया है दिल ने सुशी का स्वजना  
अन्तरा

मोहब्बत करें सुश रहें मुस्करायें  
सुश रहें मुस्करायें  
न सोचें हमें क्या कहेगा जमाना  
जबां है मोहब्बत...

अभी तक मुझे याद है वो कहानी, याद है वो कहानी  
न भूलेगा बचपन का रंगी जमाना

जबां है मोहब्बत...

यहां आंखों आंखों में बातें हुई हैं  
किसी ने न देखा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना  
जबां है मोहब्बत...

तुम आये कि बचपन मेरा लौट आया, बचपन मेरा  
मिला है मुझे जिन्दगी का बहाना

जबां है मोहब्बत...

( फिल्म अनमोल घड़ी से )

ताल कहरवा स्थाई

मन्द्र स्वर—१ ध नी

स्वर नं०	१३	१०	१३	१५	१६	१५	१३	१०	१३	१५१३१११०
सरगम	स	ध	स	रे	ग	रे	स	ध	स	रे स नी ध
बोल	ज	बां	है	मा	ह	ब्ब	त	हं	सी	है ज मा

स्वर नं०	८ ८ ८	१० १३ १३	१३ १५ १६	१५ १६ १६
सरगम	प प प	ध स स	स रे ग	रे ग ग
बोल	ना लु	टा या है	दि ल ने	खु शी का
स्वर नं०	१५ १३	१३	१२ १० १३	
सरगम	रे स	स	स ध स	
बोल	ख जा	ना	ज बां है	

अन्तरा

मन्द्र स्वर — प ध नी

स्वर नं०				२० २० २०
सरगम				प प प
बोल				मो ह च्च
स्वर नं०	१८ २० २२	२० १८ १८	१६ १५ १३	१३ १३ २०
सरगम	म प ध	प म म	ग रे स	स स प
बो	त क रे	खु श र	हें मु स्क	रा यें खु
स्वर नं०	२० २० १६	१६ १५ १३	१३ १८ १६	१६ १८ १८
सरगम	प प ग	ग रे स	स म ग	ग म म
बोल	श र हें	मु स्क रा	यें न सो	चें ह में
स्वर नं०	१८ १६ १६ १६	१६ १५ १३	१५ १६ १८ १८	१६ १६ १६
सरगम	म ग ग ग	ग रे स	रे ग म म	ग ग ग
बोल	क्या क हे	गा ज मा	ना क्या	क हे गा

स्वर नं०	१६ १५ १५	१३ १० १३	१३ १३ १५	१६ १० १३
सरगम	ग रे रे	स ध स	स स रे	ग ध स
बोल	ज मा ना	ज बां है	मो ह व्व	त हं सी
स्वर नं०	१५ १३ ११	१० द १०	१० १३ १३	१३ १५ १५
सरगम	रे स नी	ध प ध	ध स स	स रे रे
बोल	है ज मा	ना लु टा	या है दि	ल ने

फिर स्थाई बजावें

गाना नं ६१ स्थाई

क्या मिल गया भगवान तुम्हें दिल को दुखा के  
अरमानों की नगरी में मेरी आग लगाक

### अन्तरा

हम सोचते थे कभी दिल दिल से मिलेंगे  
जीवन में भोहबत के कभी फूज़ दिलेंगे  
ये क्या थी खबर तुम को न आयेगा दया भी  
रख दोगे किसी दिन मेरी दुनियां को मिटा के  
अरमानों की नगरी में मेरी...

आकाश ही दुश्मन नहीं दुश्मन है जमीं भी  
दुख दर्द के मारों को नहीं चैन कहीं भी  
इस जीने से अब मौत ही आजाये तो अच्छा  
जब छूट गया हाथ उनका मेरे हाथ में आके  
अरमानों की नगरी में मेरी...

मालूम न था खाक में मिल जायेंगे एक दिन  
खुद अपनी ही हम आग में जल जायेंगे एक दिन

तुम से तो यह उम्मीद न थी जग के खिवैया  
नैया को छावो दोगे किनारे पै ही लाके

अरमानों की नगरी में मेरी……  
(फिल्म अनमोल घड़ी से)

ताल दादरा

स्थाई

मन्त्र स्वर—ध

स्वर नं०			१३ १५	१० ११
सरगम			स रे	ध नी
बोल			क या	मि ल
स्वर नं०	१३ १३ १५	१६१८२०१८	१८ १८ २०	१६ १८
सरगम	स स रे	ग म प म	म म प	ग म
बोल	ग या भ	ग वा न	तु म्हें	दि ल
स्वर नं०	२०१८१६१५	१६१३१३	१५ १३	१५ १५
सरगम	प म ग रे	ग स स	रे ग	रे रे
बोल	को दु खा	के अर	मा नों	की
स्वर नं०	१५१६१६	१८१६१५	१५ १३	१० १३
सरगम	रे ग ग	म ग रे	रे से	ध स
बोल	न ग री	में मे	री आ	ग
स्वर नं०	१५ १६१३	१३		
सरगम	रे ग स	स		
बोल	ल गा	के		

मन्त्र स्वर—ध नी

अन्तरा

तार स्वर—सं

स्वर नं०		२० २०	२२ २३ २३	२५ २५ २३
सरगम		प प	ध नी नी	स स नी
बोल		ह म	सो च र	हे थे क
स्वर नं०	२२२०२०	१५ १५ १८	२० २२	२३ २२
सरगम	ध प प	रे रे म	प ध	नी ध
बोल	भी दि ल	दि ल से	मि लें	गे
स्वर नं०	२०२०२०	२२ २३	२२ २२ २०	२० २०
सरगम	प प प	ध नी	ध ध प	प प
बोल	जी व	न में	मो ह व्व	त कं
स्वर नं०	१५ १५	१८१८२०	२२ २३ २२	२० २५
सरगम	रे रे	म म प	ध नी ध	प स
बोल	क भी	फू ल खि	लें गे	ये
स्वर नं०	२३ २२ २०	२२२२२०	२० २० २०	२० १८
सरगम	नी ध प	ध ध प	प प प	प म
बोल	क्या थी	ख व र	तु म को	भो न
स्वर नं०	१५१८२०	२२२३२२	२० १६ १५	११ ११ १३
सरगम	रे म प	ध नी ध	प ग रे	ध नी स
बोल	आ ये गी	द या भी	र ख	दो गे

स्वर नं०	१३ १५	१६ १८	२० १८ १८	१८२०१६
सरगम	स रे	ग म	प म म	म प ग
बोल	कि सी	दि न	मे री दु	नि यां को
स्वर नं०	१८ २०	१८ १६ १५	१६१३१३१३	१३१३१५१६
सरगम	म प	म ग रे	ग स स स	स स रे ग
बो	मि टा	के	अ र	मा नों की
स्वर नं०	१५१६१८	१६		
सरगम	रे ग म	ग		
बोल	न ग री	में	फिर स्थाई	बजावें

गाना नं ६४

स्थाई

जब दिल को सताये गम

तू छेड़ सखी सरगम, ओ, ओ,

तू छेड़ सखी सरगम

सा रे ग म प ध नी स

अन्तरा

बड़ा जोर है सात स्वरों में

बहते आंसू जाते हैं थम

जब दिल को सताये...

सात स्वरों के सात हैं भूले  
जो भूले वह सब दुख भूले  
रहे मगन हर दम  
तू छेड़ सखी सरगम

( फ़िल्म सरगम से )

तीन ताल      स्थाई

कोमल स्वर—नी ध

. तार स्वर—सं

स्वर नं		२०	१८ २५ २३	२३ २५
सरगम		प	म स नि	नी स
बोल		ज	ब दि ल	को स
स्वर नं०	२३ २१	२०	१८ १६	१८ २०
सरगम	नी ध	प	म ग	म प
बोल	ता वे	ग म	तू	छे इ
स्वर नं	१८ १६	१६ १५ १३	१५ १८ २०	२१ २०
सरगम	म ग	ग रे स	रे म प	ध प
बोल	स खी	स रग	म ओ	ओ ओ
स्वर नं०	१८ १६ १८	१८ १६ १५	१३ १३ १५	१८ १८
सरगम	म ग म	म ग रे	स स रे	म म
बोल	ओ छे	इ स खी	स र	ग म

स्वर नं०	१२ १५	१६ १८ २०	२१ २३	२५ २५
सरगम	स रे	ग म प	ध नी	स स
बोल	सा रे	ग म प	ध नी	स स
स्वर नं०	२३ २१ २०	१८ १६	१५ १३	१८ १६
सरगम	नी ध प	म ग	रे स	म ग
बोल	नी ध प	म ग	रे स	तू
स्वर नं०	१८ २०	१८ १६	१६ १५ १३	१५ १८
सरगम	म प	म ग	ग रे स	रे म
बोल	छे इ	स खी	स र	ग म
स्वर नं०	१८ १६ १८	२० १८	१६	
सरगम	म ग म	प म	ग	
बोल	तू छे	इ स	खो	

अन्तरा

कोमल स्वर—ध

तार स्वर—सं रें गं

स्वर नं०			२० २१	२५ २७ ०६ २७
सरगम			प ध	सरेगगरे
बोल			ब डा	जो
स्वर नं०	२५ २५ २७	२५ २३ २१ २३	२१ २० २०	२० २१ २५
सरगम	स स रे	स नी ध नी	ध प प	प ध स
बोल	हैं सा	त स्व रों	में	ब ह ते

१६६

## हारमोनियम गाईड

स्वर नं०	२७३१२६२५	१८ २० १८	१६ २० १८	२८ २१ २५
सरगम	रे ग म रे	म प म	ग प म	प ध स
बोल	आं सू	जा ल	हैं थ म	तू छेड़
स्वर नं०	२३२५२३	२० २१	१८ २०	२० १८
सरगम	नी स ध	प ध	प म	प म
बोल	स खी	स र	ग म	ज ब
स्वर नं०	२५ २३	२३ २५ २३	२१ २० १८	
सरगम	स नी	नी स नी	ध प म	
बोल	दि ल	को स ता	ये ग म	

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० ५६ स्थाई

मोहब्बत में ऐसे जमाने भी आये  
 कभी रो दिए हम कभी मुस्कराये

अन्तरा

मोहब्बत की आंखों से अश्कों को चुन कर  
 किसी ने फज्जक पर सितारे सजाये  
 मोहब्बत में ऐसे...  
 बनाया था इक आशियां दो दिलों में

जमाने की आंधी ने तिनके उड़ाये  
मुहब्बत में ऐसे.....

मुहब्बत जो की है तो फरियाद न कर  
मुहब्बत पै इलजाम आने न पाये  
मुहब्बत में ऐसे.....

(फिल्म सगाई)

ताल कहरवा स्थाई

को० स्वर—ग

मद्र स्वर—ध

स्वर नं०	१३ १० १३	१० १३ १० १३	१५ १६ १८ २०	१८ १५ १३
सरगम	स ध स	ध स ध स	रे ग म प	म रे स
बोल	मु ह ब्ब	त में से	से ज मा	ने भी
स्वर नं०	१३ १३ १६	१६ १५ १३	१५ १० १३	१५ १० १५
सरगम	स स ग	॥ रे स	रे ध स	रे ध रे
बोल	आ ये क	भी रो दि	ये ह म	क भी मु
स्वर नं०	१३ १३ १३	१३ १३ १०	१३ १०	१३
सरगम	स स म	स स ध	स ध	स
बोल	स क रा	ये मु ह	ब्ब त	में

को० स्वर—स

अन्तरा

मन्द्र स्वर—ध

स्वर नं०	१३ १८ १८	१८ १६ १८	२० १८	२० २२
सरगम	स म म	म ग म	प म	प ध
बोल	ब ना या	था इ क	आं शि	यां दो

स्वर नं०	२२ १८ १८	२० २२ २०	१८ १८ २०	१८ १५
सरगम	ध म म	प ध प	म म प	म रे
बोल	दि लों में	ज मा ने	की आं धी	ने ति
स्वर नं०	१६ १८ १५ १३	१३ १३	१३ १० १३	१० १३
सरगम	ग म रे स	स स	स ध स	ध स
बोल	न के उ	झा ये	मु ह व्व	त में
स्वर नं०	१० १३ १५ १६	१८२०१८१५	१३ १३ १३	१६ १६ १५
सरगम	ध स रे ग	म प म रे	स स स	ग ग रे
बोल	ऐ से	ज मा ने	भी आ ये	क भी रो
स्वर नं०	१३ १५ १०	१३ १५ १६	१५ १३ १३	१३ १३
सरगम	स रे ध	स रे ग	रे स स	स स
बोल	दि ये ह	म क भी	मु स्क रा	ये

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० ६६ स्थाई

चली जा चली जा छोड़ के दुनियाँ !

गमों की दुनियाँ आहों की दुनियाँ !!

अन्तरा

यहां कोई नहीं अपना न घर अपना न दर अपना,  
दिलासा भी बहाना है सताने का रुक्काने का—

चली जा चली जा.....

सितम मेले उठायें गम रहें आंखें सदा पुरनम,

गिला किससे करें जाकर मुकदर का जमाने का—  
चली जा चली जा.....

जियें तो घुट के मर जायें मरें तो हम किधर जायें,  
मिला अच्छा गिला हमको तेरी दुनियां में आने का—  
चली जा चली जा.....

(फिल्म हम लोग)

ताल कहरवा स्थाई

को० स्वर—ग

स्वर नं०	१३ १५ १८	१८ २०	१८ २०	२० २२ २०
सरगम	स रे म	स प	म प	प ध प
बोल	च ली	जा च	ली जा	छो डि के
स्वर नं०	१३१८२०१८	१६ १८ १५	१५ १८ १५	१३ १५ १६
सरगम	स म प म	ग म रे	रे म रे	स रे ग
बोल	दु नि यां	आ हों	की दु नि	यां ग मों
स्वर नं०	१८ १५	१३ १५ १३ १३	१५ १८ २०	२० १८ २०
सरगम	म रे	स रे स स	रे म प	प म प
बोल	की दु	नि यां	च ली जा	च ली जा

को० स्वर—ग

अन्तरा

तार स्वर—स

स्वर न०	१५ १३ १५	१५ १८ ०	२० २० २४	२२ २०
सरगम	रे प रे	रे म	प प नी	ध प
बोल	य हां को	ई न हों	अ प ना	

स्वर नं०	१५ २२ २२	२२ २४ १८	२० २० २०	१८ १८ २०
सरगम	रे ध ध	ध नी म	प प प	म म प
बोल	न ध र	अ प ना	न द	र अ प
स्वर नं०	१८ १६	१५१२२०१८	१८ २० १८	२० २२ २० १८
सरगम	म ग	रे स प म	म प म	प ध प म
बोल	ना दि	ला सा	भी ब हा	ना है
स्वर नं०	१८१८२०२०	१८१६१५१५	१३ १५ १५ १३	१३ १३
सरगम	म म प प	म ग रे रे	स रे रे स	स स
बोल	स ता ने	का रु	ला ने	का च
स्वर नं०	१५ १८ २०	१८ २०	२० २२	२० २५ १८ २०
सरगम	रे म प	म प	प ध	प स म प
बोल	ली जा च	ली जा	छो ड़	के दु नि
स्वर नं०	१८ १७	१७ १८	१५ १८ १५	१३ १५ १८
सरगम	म ग	ग म	रे म रे	स रे म
बोल	यां	आ हों	की	यां ग मों
स्वर नं०	१७ १५	१३ १५	१३ १५ १८	२० १८ २०
सरगम	ग रे	स रे	स रे म	प म प
बोल	की दु	नि यां	च ली जा	च ली जा
			फिर	स्थाई बजायें

गाना नं० ६७ स्थाई

वतन की राह में वतन के नौजवां शहीद हो !  
 पुकारते हैं ये जर्मीं व आशमां शहीद हो !!  
 खिलेंगे फूल उस जगह कि तू जहां शहीद हो !  
 वतन की राह में वतन के नौ जवां शहीद हो !!

अन्तरा

शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिन्दगी ।  
 तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की जिन्दगी ॥  
 है कौन खुश नशीब मां तू जिसके कर का ताज है,  
 अमर वह देश क्यों न हो कि तू जहां शहीद हो ।  
 इस पाक जर्मीं की खाक पर हर एक जहां शहीद हो ॥  
 वतन की राह वतन के नौ जवां शहीद हो...  
 वतन की लाज जिसको थी अजीज अपनी जान से ।  
 यह नौ जवान जा रहा है देख कितनी शान से ॥  
 पुकारते हैं ये जर्मीं व आशमां शहीद हो—  
 वतन की राह में वतन के नौ जवां शहीद हो...  
 ( फिल्म शहीद से )

तीन ताल स्थाई

को० स्वर—ग

मन्द्र कोमल स्वर—ध

स्वर नं०	१८	२०	२२	२२	१८	२०	१८	१६	१३	६	६
सरगम	म	प	ध	ध	म	प	म	ग	स	ध	ध
बोल	व	त	न	की	रा		ह	में	व	त	न

स्वर नं०	१३ १३	१३१५१६	१३१५१५	१३ १३ ६
सरगम	स स	स रे ग	स रे रे	स स ध
बोल	के नौ	ज वा	श ही द	हा —
स्वर नं०	६ ६	६ ८ ६	६ ६	११ ६ २०
सरगम	ध ध	ध ध ध	ध ध	नी ध प
बोल	पु	का रते	हैं य	ह ज मीं
स्वर नं०	२० २०	२२ २० १८	१८ २० १८	१६ १५
सरगम	प प	ध प म	म प म	ग रे
बोल	नो आ	श मां	श ही	द हो

अन्तरा तार स्वर—स रे ग

स्वर नं०		२५ २७ २७	२६ २६	२७ २५
सरगम		स रे रे	ग ग	रे स
बोल		श ही द	ते री	मौ त
स्वर नं०	२५ २५ २५	२५ २७ २७	२७ २५	१८ २० २२
सरगम	स स स	स रे रे	रे स	म प ध
बोल	ही ते रे	व त न	की जि	न्द गी
स्वर नं०	२२ २२	२५ २५ २५	२७ २७	२७ २७
सरगम	ध ध	स स स	रे रे	रे रे
बोल	ते रे	ल हु से	जा ग	उ ठेगी

स्वर नं०	२५	२७ २६ २७	२५	२७ २५
सरगम	स	रे ग रे	स	रे स
बोल	इ स	च म न	की जि	न्द गी
स्वर नं०	२५ २५	२५ २५ २७	२४ २२	२० २० २०
सरगम	स स	स स रे	नी ध	प प प
बोल	खि लें	गे फू ल	उ स ज	ग ह के
स्वर नं०	२२ २०	१८ २०	१८ १७	
सरगम	ध प	म प	म ग	
बोल	तू ज हाँ	श ही	द हो	

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० ६८ स्थाई

छुग छुप कर मत देखो जी भवर जी

हमको नजर लग जायेगी, हमको नजर लग जायेगी

अन्तरा

गोरा गोरा मुखड़ा तनक देखन दो

हमरी नजर भर जायेगी, हमको नजर...

देखना है तो तनक सजने दो

हमरी नजर भर जायेगी

हमको नजर...

पांव के घुंघरू जरा बजने दो

सौ सौ कमर बल खायेगी

हमको नजर...

धीरे २ बोलो घूंघट पट खोलो  
भोली दुलहन शरमायेगी हमको नजर ...

( फ़िल्म मनकी जीत से )

ताल कहरवा स्थाई

कोमत स्वर—ग

मन्द्र कोमल स्वर—नी

स्वर नं	१३ १५ १८	१८ २० १८	२० २० १६	१८ १६
सरगम	स रे म	म प स	प प ग	म ग
बोल	छु प छु	प क र	म त दे	खो जी
स्वर नं०	१८ १५ १६	१५ १३ १३	१३ १३ ११	१३ १३
सरगम	म रे ग	रे स स	स स नी	स स
बाल	भं व र	जी ह	म को न	ज र
स्वर नं०	१५ १६ १५	१६ १६ १३	१५ १३ १३ १३	११ १३ १३
सरगम	रे ग रे	ग ग स	रे स स स	नी स स
बोल	ल ग जा	ये गी —	ह म को	न ज र
स्वर न०	१५ १६	१५ १६	१६ १६ १३	१५ १६
सरगम	रे ग	रे ग	ग ग स	रे ग
बोल	ल ग	जा ये गी	न ज र	ल ग
स्वर नं०	१५१६१३११	१३		
सरगम	रे ग स नी	स		
बोल	जा ये गी	जी		

कोमल मन्त्र स्वर—नी	अन्तरा	कामल स्वर—ग
स्वर नं० १३१५१३	१५ १६ १८	१८ २० १८
सरगम	स रे स	रे ग म
बोल	गो रा गो	रा मु ख
स्वर नं० १३ १३ १५	१३ १३ ११	१३
सरगम	ग स रे	स स नी
बोल	ख न दा	ह म री
स्वर नं० १६ १५	१६ १६ १३	
सरगम	ग रे	ग ग स
बोल	र जा	ये गो

अन्तरा नं० २

कोमल मन्त्र स्वर—नी	मन्त्र स्वर—ध	को०—ग
स्वर नं०	१५ १६ १८ १५	१३ १०
सरगम	रे ग म रे	स ध
बोल	दे ख ना	है तो
स्वर नं० १० ११ ११ ११ ११ ११ १३	१५ १५	१३ १५ १८
सरगम	ध नी नो	स रे म
बोल	त नि क स ज ने	पां व

स्वर नं०	१८ १८ २०	१८ १६ १५ १८	२० २२ २२	२० १८
सरगम	म म प	म ग रे म	प ध ध	प म
बोल	के घुं घ	रु ज रा	व ज ने	दे
स्वर नं०	१३ १३ ११	१३ १३ १५	१६ १५	१६ १६ १३
सरगम	म स नी	स स रे	ग रे	ग ग स
बोल	सौ सौ क	म र व	ल खा	ये गी

फिर स्थाई बजायें

गाना न० ६६ स्थाई

जब तुम्ही चले परदेश लगा कर ठेस  
ओ प्रीतम प्यारा दुनियां में कौन हमारा

अन्तरा

जब बादल घिर २ आयेंगे  
बीते दिन याद दिलायेंगे ।  
जब तुम्हीं कहो कित जाय नसीबो हमारा  
दुनियां में कौन हमारा...

आँखों से आँसू बहता है  
दिल रो रो कर यह कहता है  
जब तुम्हीं ने साजन हमसे किया किनारा  
दुनियां में कौन हमारा...

( फिल्म रत्न से )

अग्रवाल बुकडिपो खारीबावली देहली

१७७

कोमल स्वर—ग ताल कहरवा स्थाई मन्द्रस्वर—ध नी

स्वर नं०			१३	१३ १० १३
सरगम			स	स ध स
बोल			ज.	ब तु म
स्वर नं०	१३ १३ १३	१८ १६ १५	१३१३१५	१५१६१५१५
सरगम	स स स	म ग रे	स स रे	रे ग रे रे
बोल	ही च ले	प र दे	श ल	गा क र
स्वर नं०	१३ १३	१५ १३ ११	११११११	१३ १३ १५
सरगम	स स	रे स नी	नी ना नी	स स रे
बोल	ठे स	ओ प्री	त म प्या	रा
स्वर नं०	१३१११११३	१३१५१५१३	१३ १६	१३
सरगम	स नी नी स	स रे रे स	स ग	स
बोल	दु नि यां	में कौ न	ह मा	रा

कोमल स्वर—ग

अन्तरा

मन्द्र स्वर—नी ध

स्वर नं०	२०२०२०२०२०	२० २२	२० १८	१८१६१६
सरगम	प प प	प ध	प म	म ग ग
बोल	ज व बा	द ल	घि र	घि र
स्वर नं०	१५१६१८	२० २०	२० २२	२० १८
सरगम	रे ग म	प प	प ध	प म
बोल	आ ये	ने बी	ते दि	न या

स्वर नं	१६८८१६.५	१६ १५ १३	१३	१५८४१८
सरगम	ग म ग रे	ग रे स	स	रे रे म
बोल	द दि	ला ये गे	कि	र तु म
स्वर नं०	१८ १६	१८ १८	१६ १५	१०१११५१३
सरगम	म ग	म म	ग रे	ध नी रे स
बोल	ही क	हो कि	त जा	य न सी
स्वर नं	१३ ११	१३ १३ १५	१३ ११	१११३१३
सरगम	स नी	स स रे	स नी	नी स स
बोल	ब ह	मा रा	दु नि	यां में कौ
स्वर नं०	१५१५१३	१६ १३		
सरगम	रे रे स	ग स		
बोल	न ह	मा रा		

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० ७० स्थाई

रुम भुम वरसे बद्रवा मस्त हवायें आई  
पिया घर आजा आजा पिया घर आजा

अन्तरा

काले काले बादल घिर घिर आ गये आ गये  
ऐसे में तुम जाके जुलमवा ढा गये ढा गये  
सावन कैसे बीते रे तुम कहां मैं कहां

ओ मोरे राजा आजा पिया घर आजा

रुम झुम बरसे बादरवा.....

मुझ विरहन के हाल पै बादल रोते हैं रोते हैं

बालम हमरे आँख मूँद कर सोते हैं सोते हैं

हमको नींद न आयेरे याद सताये तोरी

मुख दिखलाजा आजा पिया घर आजा

रुम झुम बरसे बदरवा.....

कहा करु ऐसों से उल्कत हो गई हो गई

उनके मस्त अलमस्त नैन में खो गई खो गई

प्यासे दोनों नैननवा प्यासा जोवन मेरा

तोहे मोरी कसम आजा आजा पिया घर आजा

रुम झुम बरसे बादरवा.....

( फिल्म रतन से )

ताल कहरवा

स्थाइ

कोमल स्वर—ध

तार स्वर—ग स रे

स्वर नं०			१६	२० २०
सरगम			ग	प प
बोल			रु	म झु
स्वर नं०	१८ २३ २३	२० २२	२२२५२५	२५२६२७२७
सरगम	म ध ध	प ध	ध स स	स ग रे रे
बोल	म व र	से बा	द र	वा म

स्वर नं०	२६२६२५२७२७	२७२६२६२७	२५ २५	२७ २७
सरगम	ग ग स रेरे	रे गगरे स	स स	रे रे
बोल	स्त ह वा	ये आ	ई पि	या घ
स्वर नं०	२७ २५ २७	२७२५२७३२	३२२७२८	२८ २७
सरगम	रे स रे	रे स रे प	प ग ग	ग रे
बोल	- र आ	जा आ	जा पि	या
स्वर नं०	२५ २८ २८	२७ २५	२५	
सरगम	स ग ग	रे स	स	
बोल	घ र	आ जा		

## अन्तरा

## तार स्वर—स रे ग

स्वर नं०			२५ २८	२८ २८
सरगम			स ग	स ग
बोल			का ले	का ले
स्वर नं०	२७ २७ २७	२७ २७ २५	२५ २५	२७ २८
सरगम	रे रे रे	रे रे स	स स	रे ग
बोल	वा द ल	घि र घि	र आ	ग ये
स्वर नं०	२७	२८ २७ २५	२८	२८ ३०
सरगम	रे	ग रे स	ग	ग म
बोल	आ	आ ये	ऐ	से

स्वर नं०	३२३२३२३०	३०२८२८	२७ २७	२७ २५
सरगम	प प प म	म ग ग	रे रे	रे स
बोल	में तु म	जा के जु	ल म	बा ढा
स्वर नं०	२७ २८ २७	२८ २७ ८	२८ ३२	३० ३०
सरगम	रे ग रे	ग रे ग	ग प	म म
बोल	ग ये ढा	ग ये सा	व न	कै से
स्वर नं०	२८३२६२	३०३४३४	२ ३२	३४३४२५२५
सरगम	ग प प	म ध ध	प प	ध ध स स
बोल	बी ते रे	मैं क हां	तु म	क हां
स्वर नं०	३०२८२८	२५२७२७२७	२८ २८	२७२५२५
सरगम	म ग ग	स रे रे रे	ग ग	रे स स
बोल	ओ मो रे	रा जा आ	जा पि	या घ र
स्वर नं०	२५२७२७२७	२५२७२७२५	१६ २० २०	१८
सरगम	स रे रे रे	स रे रे स	ग प प	म
बोल	आ	जा	रु म झु	म

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० ७२ स्थाई

भारत की एक सन्नारी की हम कथा सुनाते हैं

मिथला की राज दुलारी की हम कथा सुनाते हैं

## अन्तरा

शिव धनुष राम ने तोड़ा मिला चन्द्र चकोर का जोड़ा  
जनकपुरी से तोड़ा नाता अवधपुरी से जोड़ा  
कोमल थी वह कली, सुखों में पली, बनों में चली,  
बहुत दुख पाई, सुनकर उनकी व्यथा नैन  
भर भर आते हैं  
हम कथा सुनाते हैं.....

रावण ने छल करी सिया को हरी विधि क्या करी  
शोक बहु पाई, सीता २ करे विरह में जरे  
बनों में फिरे विकल रघुराई  
किर पवन पुत्र वहां आये सुधि को धाए  
युक्ति बहु कीनी सीया सुधि पाई  
राम कोप कर बढ़े लंक पर चढ़े  
फूक दई लंक सिया लौटाई, सिया लौटाई  
जैसे दिये में तेल, तेल में बाती, बाती में तेज प्रकाशे  
तस राम हृदय में सिया, सिया हिये राम ही भासे  
क्या बिना प्राण के अमर रही कहाँ देही  
क्या यही राम दरवार कहां वैदेही कहां वैदेही  
कहा वैदेही, कहां वैदेही, .....

(फिल्म राम राज्य से )

ताल दादरा स्थाई

कोमज स्वर—ग नो

मन्द्र स्वर—नी

स्वर नं०	८२ १५ १६	१६ १५ १८ १८२०२२३३	८२ १८ १६
सरगम	स रे ग	ग ग म	म प ध नी
बोल	भा र त	की ए क	स न्ना री
स्वर नं०	१३ १५ १६	१८२०१६१६	१५ १३ १५
सरगम	स रे ग	म प ग ग	रे स रे ग म प
बोल	म क —	था सु ना	ते हैं —
स्वर नं०	२० २० २० १५	२० १८	२० १६ १५
सरगम	प प प रे	प म	प ग रे
बोल	ह म क	था सु	ना
स्वर नं०	१३ १२	१३ १३	
सरगम	स नी	स स	
बोल	ते	हैं	

अन्तरा

मन्द्र स्वर—नी

को० स्वर—ग

तार स्वर—स रे

स्वर नं०		११ १३	१३ १५
सरगम		नी स	स रे
बोल		शि व	ध नु

स्वर नं०	१६ १८ १६	१६१६१३१५	१६ १५ १३ १५	१५ १६
सरगम	ग म ग	ग ग स रे	ग रे स रे	रे ग
बोल	ष रा म	ने तो झा	मि ला	च न्द्र
स्वर नं०	१८२०२२२२	११ ११	११ २२ २०	१८ २०
सरगम	म प ध ध	नी नी	नी ध प	म प
बोल	च को र	का	जो झा	ज न
स्वर नं०	२० २२ २४	२४ २२ २४	२५ १५ १६ १६	२५ २७ २७ २७
सरगम	प ध नी	नी ध नी	स रे ग ग	स रे रे रे
बोल	क पु री	से तो	झा ना ता	अ व ध
स्वर नं०	२७ २३ २३	२२	२२	२२
सरगम	रे नी नी	ध	ध	ध
बोल	पु री से	जो	झा	
स्वर नं०	२२ २२ २०			
सरगम	ध ध प	कोमल थी	बो कली इसी	तरह बजायें
बोल	आ आ			
स्वर नं०	१३ १५ १६	१६ १६ १८	१८ २०	२२ २३
सरगम	स रे ग	ग ग म	म प	ध नी
बोल	सु न क	र जि	न की	व्य था

अग्रवाल बुकडिपो खारीबावली देहली १८५

स्वर नं०	२२ १८	१६ १३	१५ १६	१८ २०
सरगम	ध म	ग स	रे ग	म प
बोल	नै न	भ र	भ र	आ
स्वर नं०	१६ १६ १५	१३ १५	१६ १८ २० २०	२० २० १५
सरगम	ग ग रे	स रे	ग म प म	प प रे
बोल	ते हैं		ह	म कथा
स्वर नं०	२० १८ २० १६	१५ १५ १३	१३ १२ १३ १३	
सरगम	प म प ग	रे रे स	स नी स स	
बोल	सु ना		ते	हैं

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० ७२

शिव शंकर भोले भाले भक्तों के रखवाले  
तुमको लाखों प्रणाम तुम को मेरा प्रणाम

अन्तरा

तुमने यह संसार बनाया सभी तुम्हारी माया छाया  
सर्पों की माला बाले, कैलाश पर्वत बाले

तुमको लाखों प्रणाम...

तुम जल थल में तुम अम्बर में तुम हो नगर २ में  
तुम हो लहर २ स्वर २ में कहाँ नहीं तुम हो जग भर में  
डमरू के बजाने बाले दुष्टों को मिटाने बाले

तुमको लाखों प्रणाम...

हर हर हर महादेव का नारा नर नारी घर २ का प्यारा  
 दीप तुम्हारा तेल तुम्हारा दुनियां का सब खेल तुम्हारा  
 हे खेल खिलाने वाले त्रिभुवन को रचाने वाले  
 तुमको लाखों प्रणाम...

( फिल्म हर हर महादेव से )

ताल कहरवा

स्थाई

मन्त्र स्वर—नी

कोमल स्वर—ग

स्वर नं०				१८ २०
सरगम				म प
बोल				शि व
स्वर नं०	१८ १८	१८ १८	१८ १६	१५ १६ १३
सरगम	म म	म म	म ग	रे ग स
बोल	शं क	र भो	ले भा ले	भ को
स्वर नं०	१५ १८	१६ १५	१३ १३ १३	११ १३
सरगम	रे म	ग रे	स स स	नी स
बोल	के र	ख वा	ले तु म	को ला
स्वर नं०	१५ १३	१५ १८ १६	१५ १५ १३	१३ १३
सरगम	रे स	रे म ग	रे रे स	स स
बोल	खों	प्र	णा म	तु म

अग्रवाल बुकडिपा खारीबावली देहली

१८७

स्वर नं०	११ १३	१५ १३ १५	१८१६१५१५१८	
सरगम	नी स	रे स रे	म ग रे रे म	
बोल	को मे	रा प्र	णा म	
कोमल स्वर—नी		अन्तरा		कोमल स्वर—नी
स्वर नं			१५	१८ १८
सरगम			रे	म म
बोल			तु	म ने
स्वर नं०	१८ १८	२० २० २०	२० २० २०	२० २२
सरगम	म म	प प प	प प प	प ध
बोल	य ह	सं सा र	ब ना या	स भी
स्वर नं०	२० १८	१६ १५	१३ १५	१६
सरगम	प म	ग रे	स रे	ग
बोल	तु म्हा	री मा	या छा	या
स्वर नं०	१८ २० १८	१८ १८	१८ १८ १६	१५ १६
सरगम	म प म	म म	म म ग	रे ग
बोल	स पी की	मा ला	वा ले कै	लां श
स्वर नं०	१३ १५ १८	१६ १५	१३ १३ १३	१२१३१५१३
सरगम	स रे म	ग रे	स स स	नी स रे स
बोल	प वं त	वा ले	तु म को	ला खों

स्वर नं०	१५ १८ १६	१५ १५ १३	१३ १३	१२ १३
सरगम	रे ग म	रे रे स	स स	नी स
बोल	प्र	णा म	त म	को
स्वर न०	१३ १५ १३	१५ १८	१६ १५ १५	१८
सरगम	स रे स	रे म	ग रे रे	म
बोल	मे रा	प्र	णा	म

फिर अस्थाई बजायें

### गाना नं० ७३ स्थाई

देखा करो भगवान गरीबों का तमाशा !

दिन रात कोई अश्क बहाये तो तुम्हें क्या !!

#### अन्तरा

ले जितना सताना सता बिगड़ी मेरी हरजिग न बना,

इन रोती हुई आंखों से पानी की जगह खून बहाये तो तुम्हें क्या,

देखा करो भगवान.....

दूटी हुई नैया है मेरी बस एक झक्कोले की देरी ।

तूफान चहूँ ओर से आके मेरी नैया को डुबो दें तो तुम्हें क्या,

देखा करो भगवान.....

दुनियां मेरी न भाई भुझे याद किसी की आई,

इतने बड़े मेले में जो पांवों में किसी के पिस जाये तो तुम्हें क्या,

देखा करो भगवान.....

( फिल्म दासी )

को० स्वर—ग	ताल दादरा स्थाइ	मद्र स्वर—नी ध
स्वर नं० १३ १५ १६	१८ २२ २०	२२ १८ १६
सरगम स रे ग	म ध प	ध म ग
बोल दे खा क	रो भ ग	वा न ग
स्वर नं० १३ १५ १३	११ १८ ११	११ १६
सरगम स रे स	नी म नी	नी ग
बोल त मा शा	ग री	बों
स्वर नं० १५ १३ ११	१३ १३ १३	१० १० १०
सरगम रे स नी	स स स	ध ध ध
बोल मा शा	दि न रा	त को ई
स्वर नं० १३ २२ २०	२० १८	१६ १५ १३
सरगम स ध प	प म	ग रे स
बोल ब हा ये	तो	तु म्हें
स्वर नं० १३ १५ १६	१८२०२२२०	२२१८१८१८
सरगम स रे ग	म प ध प	ध म म म
बोल दे खा क	रो भ ग वा	न ग रो
स्वर नं० १३ १५ १३ ११	११ ११ ११	१३ १३ १५
सरगम स रे स नी	नी नी नी	स स रे
बोल त मा शा	ग री बों	का त मा शा

## अन्तरा

को० स्वर—म नी

तार स्वर—सं

स्वर नं०	२० २२ २३	२५ २५ २५	२३ २२ २०	१८ २० २२
सरगम	प ध नी	स स नी	नी ध स	म प ध
बोल	ले जि त	ना स ता	ना स ता	वि ग
स्वर नं०	२२ २० १८	१७ १७ १८ १७	१५ १३ १३	२० २०
सरगम	ध प म	ग ग म ग	रे स स	प प
बोल	डी मे री	ह र गि ज	न ब ना	इ न
स्वर नं०	२० २० २०	२० २० २०	२० २० २०	१८ १८
सरगम	प प प	प प प	प प प	म म
बोल	रो ती हु	ई आं खों	से पा नी	की ज
स्वर नं०	१८ १८	१७ १७	१७ १७ १५	१५
सरगम	म म	ग ग	ग ग रे	रे
बोल	ग ह	खू न	ब हा ये	तो
स्वर नं०	१३ १५	१३		
सरगम	स रे	स		
बोज़	तु म्हें	क्या		

फिर स्थाई बजायें

गाना न० ७४ स्थाई

उम्मीद उनसे क्या थी और कर वो क्या रहे हैं !  
खुद ही बना रहे थे खुद ही मिटा रहे हैं !!

अन्तरा

आये थे इश्क बन कर अब अश्क बन चले वो,  
खुद ही हंसा रहे थे खुद ही रुला रहे हैं !

उम्मीद उनसे क्या थी

ये वेकसी का आलम ये वेकसी की दुनियां  
दिल जल रहा है फिर भी हम मुस्करा रहे हैं ।

उम्मीद उनसे क्या थी.....

किस की सदा ये आई किसने मुझे पुकारा,  
कोई मुझे बता दे क्या वो बुला रहे हैं !

उम्मीद उनसे क्या थी.....

(फिल्म वसन्त से )

ताल कहरवा स्थाई

को० स्वर—ग

मद्र स्वर—नी

स्वर नं०		१३	१७ १२	१५ १८ १८
सरगम		स	ग स	रे म म
बोल		उ	म्मी द	उ न से
स्वर नं०	२० १७	१५ १५ १३	१३ १२	१३ ११ १३
सरगम	प ग	रे रे स	स नी	स नी स
बोल	क्या थी	ओ र क	र वो	क्या र हे
स्वर नं०	१३ १२ १३	१७ १३ १५	१७ १८ १८	२० १६ १६
सरगम	स स स	ग स रे	ग म म	प ग ग
बोल	हैं खु द	ही व ना	र हे थे	खु द ही

स्वर नं०	१५ १५	१३ १३ ११	११ १३	१३
सरगम	रे रे	स स नी	नी स	स
बोल	मि टा	र हे हैं		

## अन्तरा

को० स्वर—ग

मन्द्र स्वर—ध नी

स्वर नं०			१५	१६ १५
सरगम			रे	ग रे
बोल			आ	ये ये
स्वर नं०	१२ १६	१३ १६ १०	१० ११ १३	११ १३
सरगम	नी ग	स ग ध	ध नी स	नी स
बोल	इ श्क	ब न क	र अ ब	अ श्क
स्वर नं०	११ १३ ११	१२ १३	१३ १८ १३	१५ १३
सरगम	नी स नी	नो स	स ग स	रे स
बोल	ब न च	ले बो	खु द ही	हं सा
स्वर नं०	१५ १८ १८	२० २० १६	१५ १३	११ १३ ११
सरगम	रे म म	प प ग	रे स	नी स नी
बोल	र हे थे	खु द ही	रु ला	र हे हैं

फिर स्थाई बजायें

गाना नं ७५ स्थाई

इस दिल के दुकड़े हजार हुए  
कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा ।  
बहते हुए आंसू रुक न सके,  
कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा ॥

अन्तरा

जीवन के सफर में हम जिन को,  
समझे थे हमारे साथी हैं ।  
दो कदम चले और बिछुड़ गये—  
कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा,  
इस दिल के दुकड़े.....

आशाओं के तिनके चुन-चुन कर,  
सपनों का महल बनाया था ।  
तूकान से तिनके बिछुड़ गये—  
कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा,  
स दिल के दुकड़े.....

( फिल्म प्यार की जीत से )

ताल कहरवा स्थाई मन्द्र स्वर—नी ध

स्वर नं०	१३	१३ १३ १८	२० २० २०	१८
सरगम	स	स स म	प प प	म
बोल	इ	स दि ल	के दु क	डे ह
स्वर नं०	१५ १५ १३	११	१० ११	१३ १३
सरगम	रे रे स	नी	ध नी	स स
बो	जा र हु	ए को	ई य हां	गि रा

स्वर नं०	१३ १५ १३	१३ १५ १३ १३	१३ १३ १३	१८२०२०१८
सरगम	स रे स	स रे स स	स स स	प प प म
बोल	को ई	व हां गि रा	व ह ते	हु ए आं
स्वर न०	१५ १५ १३	११ १० ११	१३ १३	१३ १५ १३
सरगम	रे रे स	नी ध नी	स स	स रे स
बोल	सू रु क	न स के	को ई	य हां गि
स्वर न०	१३ १५ १३	१३ १३ १३	१३ १३	१३ १३ १३
सरगम	स रे स	स स स	स स	स सं स
बोल	रा को ई	व हां गि	रा इ	स दि ल

## अन्तरा

	को० स्वर—ध नी ग	तार स्वर—स रे	मद्र स्वर—नी ध	
स्वर न०	१८ २० २३	२३ २३ २३	२१ २१	२० २३
सरगम	म प नी	नी नी नी	ध ध	प नी
बोल	जी व न	के स फ	र में	ह म
स्वर न०	१५ २७ २५	२७ २५ २३	२२ २०	२२ २३
सरगम	स रे स	रे स नी	ध प	ध नी
बोल	जि न को	स म झे	थे हं	मा रे
स्वर न०	२२ २० १८	२० २० २२	२० १८	१८ १६
सरगम	ध प म	प प ध	प म	म ग
बोल	सा थी है	दो क द	म च	ले औ

स्वरन०	१६ १६ १५	१५ १५ १३	१३ ११	१० ११
सरगम	ग ग रे	रे रे स	स नी	ध नी
बोल	र बि छु	इ ग	ये को	ई य
स्वरन०	१३ १३ १३	१५ १६	१६ १६	१५
सरगम	स स स	रे ग	ग ग	रे
बोल	हां गि रा	को ई	व हा	गि
स्वरन०	१३ १३	१३ १३	१३ १८	२०
सरगम	स स	स स	स म	प
बोल	रा	इ स	दि ल	के

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० ७६ स्थाई

चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है !

पहली मुलाकात है यह पहली मुलाकात है !!

अन्तरा

साजन की बात पर गुस्सा जो आ गया ।

जुल्फों का बादल गालों पै छा गया ॥

अभी अभी दिन था, अभी अभी रात है !

पहली मुलाकात है पहली.....

पहली मुलाकात में बात ऐसी हो गई ।

राजा भी खो गया, रानी भी खो गई ॥

दोनों को न पता चला मजे की यह बात है !

पहली मुलाकात है पहली.....

( फिल्म बड़ी बहन से )

को० स्वर—ग		ताल कहरवा स्थाई		मढ़ स्वर—नी	
स्वर नं०	१३ १८	१३ १८ १३	१८ १८ १६	१८ १८	१८ १८
सरगम	स म	स म स	म म ग	म म	
बोल	चु प	चु प ख	इ हो ज	रु र	
स्वर नं०	१६ १६ १८	१८ २० १३	१५ १३ ११	१३ १५ १३	
सरगम	ग ग म	म प स	रे स नी	स रे स	
बोल	को ई वा	त है प	ह ली सु	ला का त	
स्वर नं०	१३ १३	१५ १६ १८	१६ १५	१३ १३	
सरगम	स स	रे ग म	ग रे	स स	
बोल	है य ह	प ह ली	मु ला का	त है	
स्वर नं०	१३ १८ १८	१८ २० २०	२० १८ १८	१६ १६ १३	
सरगम	स म म	म प प	प म म	ग स प	
बोल	सा ज न	की वा त	प र गु	स्सा जो	
स्वर नं०	२० २२ २०	२० २२ २२	२३ २३ २२	२० २० २०	
सरगम	प ध प	प ध ध	नी नी ध	प प प	
बोल	आ ग या	जु ल्लों	का वा द	ल गा	
स्वर नं०	२२ १८	१८ १८	२० २० २०	२२ १८	
सरगम	ध म	म म	प प प	ध म	
बोल	लों पै	छा ग	या गा	लों पै	

स्वरनं०	१६ १८ २०	२० १३	१८ १३	१८ १३
सरगम	ग म प	प स	म स	म स
बोल	छा ग	या अ	भी अ	भी दि
स्वर नं०	१८ १८	१६ १८	१८	१६
सरगम	म म	ग म	म	ग
बोल	न था	अ भी	अ	भी
स्वर नं०	१८ १६	१६ १५	१६ १८ १६	१५ १३ १३
सरगम	म ग	ग रे	ग म ग	रे स स
बोल	रा त	है प	ह ली मु	ला का त है

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० ७७ स्थाई

रोऊं मैं सागर के किनारे सागर हँसी उड़ाये !

क्या जाने यह चंचल लहरें मैं हूँ आग लुपाये !!

अन्तरा

मैं भी इतना छूब चुका हूँ क्या तेरी गहराई

कोई होड़ लगाये मोसे.....

रोऊं मैं सागर के.....

तुम मैं छूबे चान्द मगर इक चान्द ने मुझे छुबाया

मेरा सब कुछ लूट के छुंग गई चांदनी रात की माया

रोऊं मैं सागर के.....

अरमानों की चिता सजाके मैंने आग लगाई  
 अब क्या आग बुझाये मेरी अब क्या आग बुझाये  
 रोऊँ मैं सागर के.....

(फिल्म नगाना से )

तीन ताल

कोमल स्वर—ग म

मद्र स्वर—नी ध

स्वर नं०	१३ ११ १०	१०	१३ १३ ११	१० १३ १५ १३
सरगम	स नी ध	ध	स स नी	ध स रे स
बोल	रो	ऊँ	मैं सा	ग र के
स्वर नं०	१६ १५ १६	१५ १३ १३	१६ १६ १८	१८ २० २२
सरगम	ग रे ग	रे स स	ग ग म	म प ध
बोल	कि ना रे	सा	ग र हं	सी उ इ़ा
स्वर नं०	११ १८ १६	१६ २०	२० २२ २०	२२ २२
सरगम	नी म ग	ग प	प ध प	ध ध
बोल	ये	क्या जा	ने य	ह चं
स्वर नं०	२५ २३ २३	२२ २० १६	१८	१६ १८
सरगम	स नी नी	ध प ग	म	ग म
बोल	च ल ल	ह रें मैं	हुँ	आ
स्वर नं०	१६ १८ १६	२० १८ १६ १८	१३ ११ १०	१० १३
सरगम	ग म ग	प म ग म	स नी ध	स ध
बोल	ग छु	पा ये	रो	ऊँ मैं

स्वर नं०	१३१११०	१३१५१३१६	१५ १६	
सरगम	स नी ध	स रे स ग	रे ग	
बोल	सा ग	र के कि	ना रे	
अन्तरा				
को० स्वर—नी ग	मन्द्र स्वर—नी ध		तार स्वर—सं रे	
स्वर नं०				२३२५२५
सरगम				नी स स
बोल				मैं भी
स्वर नं०	२३ २५ २५	२५ २७ २५ २७	२७२५२३२३	२०२८२३२५
सरगम	नी स स	स रे स रे	रे स नी नी	प ध नी स
बोल	इ त ना	झ ब	चु का हूँ	क्या ते
स्वर नं०	२२ २० १८	२३२२२०१८	१३ १६	१६ १८
सरगम	ध प म	नी ध प म	स ग	ग म
बोल	री ग ह	रा ई	का हे	हो इ
स्वर नं०	२० १८	१६ १६ १५	१३ १३	१११०१०
सरगम	प म	ग ग रे	स स	नी ध ध
बोल	ल गा	ये मौ	से रो	ऊं
स्वर नं०	१११०१३	१३ १५	१५ १३	१५१६१५१३
सरगम	नी ध स	स रे	रे स	रे ग रे स
बोज	मैं सा	ग र	के कि	ना रे सा

स्वर नं०	१६१६१६	१८२०२२	१६ १८ १६	
सरगम	ग ग ग	म प ध	ग म ग	
बोल	ग र हं	सी उ	ड़ा ये	

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० ७८

### स्थाई

मैं तो गिरधर के घर जाऊँ

### अन्तरा

गिरधर म्हारे सांचे प्रीतम  
देखत रूप लुभाऊँ—मैं तो……  
मेरी उनकी प्रीत पुरानी  
उन विन कल न पाऊँ—मैं तो……  
जहां बिठाये वहां ही बैठूँ  
बेचे तो बिक जाऊँ—मैं तो……  
जो पहराये सो ही पहरूँ  
जो देवे सो ही खाऊँ—मैं तो……  
मीरा के प्रभु गिरधर नागर  
बार बार बलि जाऊँ  
मैं तो गिरधर के घर जाऊँ

( फिल्म जोगन से )

कोमल स्वर—ग

ताल कहरवा स्थाई

स्वर नं०	१६१८२०	२० २२ २०	१८ १६ १५	१३१३१५
सरगम	ग म प	प ध प	म ग रे	स स रे
बोल	मैं तो	गि र ध	र के घ	र जा

स्वर नं०	१३१५१६	१६ १८	२०२२२०	१८ १६
सरगम	स रे ग	ग म	प ध प	म ग
बोल	ऊं	मैं तो	गि र ध	र के
स्वर नं०	१५ १३	१५ १३		
सरगम	रे स	रे स		
बोल	घ र	जा ऊं		

अन्तरा

कोमल स्वर—ग

मन्द्र स्वर—नी ध

स्वर नं०	१३११११	१८११०११	१३१५१६	१५ १८ १६
सरगम	स नी ध	स नी ध नी	स रे ग	रे म ग
बोल	गि र ध	र म्हा रो	सां चो	प्री त म
स्वर नं०	१३ २० २०	१६ १५ १३	११ १३	१३
सरगम	स प प	ग रे स	नी स	स
बोल	दे ख त	रु प	लु भा	ऊं
स्वर नं०	१३११११	१३ ११ १०	११ १३	१३ १५ १६
सरगम	स नी नी	स नी ध	नी स	स रे ग
बोल	मे री	उ न की	प्री त	पु रा
स्वर नं०	१५१६१८१६	१८ २० २२	२०१६१६	१५ १३ १५
सरगम	रे ग म ग	म प ध	प ग ग	रे स रे
बोल	नी	उ न बि	न क ल	ना पा

स्वर न०	१३ १३	१६ १८	२० २२ २०	१८ १६
सरगम	स स	ग म	प ध प	म ग
बोल	ऊं	मैं तो	गि र ध	र के
स्वर न०	१५ १३ १३	१५ १३ १३	१३	
सरगम	रे स स	रे स स	स	
बोल	घ र	जा ऊं		

फिर स्थाई बजायें

गाना न० ७६

स्थाई

घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे

अन्तरा

घट २ अन्दर साँई बसत है

कटु बचन मत बोल रे...

तोहे पिया मिलेंगे...

घूंघट के पट खोल रे

धन जोवन का गरब न करिए

भूठा इनका मोल रे

तोहे पिया मिलेंगे...

घूंघट के पट खोल रे...

जोग जतन से रंग महल में

पिया पायो अनमोल रे

तोहे पिया मिलेंगे...

घूंघट के पट खोल रे...

सूने महल में दिया जला के  
आसन से मत डोल रे

तोहे पिया मिलेंगे—  
घूंघट के पट खोल रे...

(फ़िल्म जोगन से)

ताल कहरवा स्थाई

कोमल स्वर—ध ग

तार स्वर—स

स्वर नं०	१३ १५	१६ १८	२० १८	२० २५ २३
सरगम	स रे	ग म	प म	प स नी
बोल	घूं घ	ट के	प ट	खो
स्वर नं०	२१ २१ २०	१८१८१६	१६१८२०	१८ २० १८
सरगम	ध ध प	म म ग	ग म प	म प म
बोल	ल रे	तो हे	पि या	मि लें
स्वर नं०	१६ १५ १३	१३१८१८	२०२१२०२५	२५२३२१२३
सरगम	ग रे स	स म म	प ध प स	स नी ध नी
बोल	गे	घूं घ ट	के प	ट खो
स्वर नं०	२१ २०	१८ २०		
सरगम	ध प	म प		
बोल	ल	रे		

कोमल स्वर—ग ध		अन्तरा		तार स्वर—स	
स्वर नं	१८ १८	१८ २० २०	२३ २५	२५ २५	
सरगम	म म	म प प	नी स	स स	
बोल	घ ट	घ ट में	तो रे	सां ई	
स्वर नं०	२५ २७ २३	२५ १३ १३ १५	१८ २० १८	१८ २० २० २५	
सरगम	स रे नी	स स स रे	म प म प	म प स	
बोल	व स त	है क ट	क ब च	न म ती	
स्वर नं०	२३ २१	२१ २० १८	१८ १६ १६	१८ २०	
सरगम	नी ध	ध प म	म ग ग	म प	
बोल	बो ल	रे तो है	पि	या	
स्वर नं०	१८ २० १८	१६ १५	१३ १३ १८	१८ २१	
सरगम	म प म	ग रे	स स म	म ध	
बोल	सि लें	रे	धूं घ	ट के	
स्वर नं०	२० २५	२३ २१	२३ २१	२० १८	
सरगम	प स	नी ध	नी ध	प म	
बोल	प ट	खो	ल		
स्वर नं०	२० १८	२०			
सरगम	प म	प			
बोल	रे				

गाना नं० ८० स्थाई

ऐ समा तू बता तेरा परवाना कौन है  
लूटा है जिसने तुझ को वह दीवाना कौन है

अन्तरा

महफिल में सब हैं प्यार का सागर पिये हुये  
पहलू में अपने दर्द की दुनिया लिए हुए  
जो तेरा हो चुका है वो मस्ताना कौन है  
ऐ समा तू बता.....

होठों पे दिल की बात यह क्यूँ आके रह गई  
देखा जो किसको आंख यह शरमा के रह गई  
कहदे तू हाले दिल यहां बेगाना कौन है  
लूटा है जिसने तुझ को वो दीवान कौन है  
ऐ समा तू बता....

( फ़िल्म दास्तान से )

ताल कहरवा

स्थाई

कोमल स्वर—ध ग

मन्द्र स्वर—ध नी

स्वर नं०	१३ ११ १० १० ११ १३	१३ १३ १५	१३ १५
सरगम	स नी ध	ध नी स	स स रे
बोल	ऐ		श मा

स्वर नं०	१६ १५ १३ १३ १३ १५	१८ २० १६	१६ १३ १५
सरगम	ग रे स	स स रे	म प ग
बोल	ब ता	ते रा	प र वा

स्वर नं०	१८ १६	१५ १३	१३ २० २२	२० १८ १६
सरगम	म ग	रे स	स प ध	प म ग
बोल	न —	है —	ल् टा	है जि स
स्वर नं०	१८ १५ १३	१५ १५ १३	१८ १८ १८	१८ २० १६
सरगम	म रे स	रे रे स	म म म	म प ग
बोल	ने तु	झ को	व ह दी	वा ना
स्वर नं०	१६ १५	१३ १५ १३	१३	
सरगम	ग रे	स रे स	स	
बाल	कौ न	है —		

को० स्वर—ध                    अन्तरा                    तार स्वर—स

स्वर नं०			२० २२	२३ २३
सरगम			प ध	नी नी
बोल			म ह	फि ल
स्वर नं०	२५ २३ २३	२१ ३३	२३ २५ २५ २३	२५ २३
सरगम	स नी नी	ध नी	नी स स नी	स नी
बोल	में स व	हैं	प्या र	का
स्वर नं०	२५ २५ २३	२५ २३	२२ २० २५	२३ २५ २३
सरगम	स स नी	स नी	ध प स	नी स नी
बोल	सा ग र	पि ये	हु ए	सा ग

स्वर नं०	२१ २० २१	२० १८ १८	१८ २० १५	१८ १८
सरगम	ध प ध	प म म	म प रे	म म
बोल	र पि	ये हु ए	प ह लू	मे
स्वर नं०	२८ २१ २०	२३ २१ २०	२० २० १५	१८ १५ १६
सरगम	प ध प	नी ध प	प प रे	म रे ग
बोल	अ प ने	द र द	की दु	नि यां
स्वर नं०	१५ १६ १५	१३ १५ १३		
सरगम	रे ग रे	स रे स		
बोल	लि ए	हु ए		

फिर स्थाई बजायें

गाना न० ८१ स्थाई

मोरी अटरिया काग बोले  
मोरा जिया ढोले कोई आरहा है

अन्तरा

मेरे मन में उठी है उमंग रे  
मेरा तड़फे है बांया अंग रे  
मोरे मन की मुरलिया पे होले होले  
स्वर खोले खोले कोई गा रहा है

मोरी अटरिया कागा...

आज डगरिया में आई बहार रे  
मेरे जीवन में सोलह सिंगार रे  
मेरे कानो गुन गुन बोले बोले  
रस घोले घोले कोई जा रहा है

मोरी अटरिया कागा

मारे माथे पे मुकुट की बिन्दिया  
 आज लुंगो न पल भर तिन्दिया  
 ठण्डी हवाओं के झोले घुंघट पर खोले  
 जिया लहरा रहा है  
 मोरी अटरिया पै कागा बोले...  
 मोरा जिया ढोले कोई आ रहा है !

( फिल्म आँखें से )

ताल दादरा स्थाई

कोमल स्वर—ग

स्वर नं०	२० १३ १३	१३ १३ १५	१५ १६ १६	१६१५१५
सरगम	प स स	स स रे	रे ग ग	ग रे रे
बोल	मो री अ	ट रि	या का	गा बो
स्वर नं०	१३ १३ १६	१५ १६ १५	१५ १३	१३ १३
सरगम	स स ग	रे ग रे	रे स	स स
बोल	ले मो	श जी	या ढो	ले को
स्वर नं	१३ १५	१५ १३	१३	
सरगम	स रे	रे स	स	
बोल	ई आ	र हा	है	

अन्तरा

कोमल स्वर—ग

स्वर नं०		१८	२० १८ १६
सरगम		म	प म ग
बोल		मो	रे म न

स्वर नं०	१८ १८ २०	२० १८ २०	१८ १८ १५	१५ १३ १५
सरगम	म म प	प म प	म ग रे	रे स रे
बोल	में उ ठी	है	उ मं	ग रे
स्वर नं०	१६ १३	१५ १५ १६	१३ १५ १३	१५ १६ १३
सरगम	ग स	रे रे ग	स रे स	रे ग स
बोल	हो	मो रा	फ़ ड़ के	है
स्वर नं०	१५ १३ २०	१८ १८ १५	१५ १३ १५	१३ १३
सरगम	रे स प	म ग रे	रे स रे	स स
बोल	वाँ	याँ	अं ग	रे

किर स्थाई बजायें

गाना नं० ८२ स्थाई

ओ अपनी याद दिलाने को  
 इक इश्क की दुनियां छोड़ गये  
 जलदी में लिपस्टिक छोड़ गये  
 रुमाल पुराना भूल गये

अन्तरा

दौलत का हमें अरमान रहा  
 इस इश्क में भी नुकसान रहा  
 दो आने का भी जो बिक न सके  
 पीतल का वह बुन्दा छोड़ गये

ओ अपनी याद...

आशक जो हुए थे हम उन पर  
 दिन रात लगाते थे चक्कर  
 सब कुछ तो बताया था हमने  
 पर पिट जाने का किस्सा छोड़ गये

ओ अपनी याद...

हम जीने से हैं अपने खफा  
 मरने से है डर लगता  
 थे मर्द जिन्होंने जहर दिया  
 आराम से दुनियां छोड़ गये

ओ अपनी याद...

मुफ्लिस थे जनाब मजनू भी  
 पाकेट से न निकली एक पाई  
 सुनते हैं जब उनको मौत आई  
 गुजरे जमाने तुम भी छोड़ गये

( किलम जुगनू से )

ताल कहरवा स्थाई

कोमल स्वर—ग

स्वर न०	१६ १५ १३	१६ १६ १६	१६ १८	१५ १६ २०
सरगम	म रे स	ग ग ग	ग म	रे ग प
बोल	बो	अ प नी	या द	दि ला
स्वर न०	१८ १६	१५ १६ २०	२० १८	१८ १५ १६
सरगम	म ग	ग ग प	प म	म रे ग
बोल	ने को	इ क इ	शक की	दु नियां

स्वर नं०	१६ १८ १६ १५ १३ १३	१६ १६	१८ १६ १५
सरगम	ग म ग	रे स स	ग ग
बोल	छा ड़ ग	ये ज ल	दी में
स्वर नं०	१६ २०	१८ १६ १६	२० १८ १६
सरगम	ग प	म ग ग	प भ ग
बोल	क भू ल	ग ये	रु भा ल
स्वर नं०	१६ १८ १६	१६ १५ १३	
सरगम	ग म ग	ग रे स	
बोल	छो ड़	ग ये	

अन्तरा

कामल स्वर—ग

स्वर नं०		१६ २२ २२	२२ २२ २२
सरगम		ग ध ध	ध ध ध
बोल		दौ ल त	का ह में
स्वर नं०	२२ २०	१८२०१८१६	१३ १६
सरगम	ध प	म प म ग	स ग
बोल	नु क सा	न र हा	दो आ
स्वर नं०	१६ २०	१८ १६	१६ १० १६
सरगम	ग प	म ग	ग प ग
बोल	बि क न	स क	पी त ल

स्वर नं०	१५ १६	१६ १८	१६ १७ १३
सरगम	रे ग	ग म	ग रे स
बोल	वु न्दा	छो इ	ग ये

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० ८३ स्थाई

आहें न भरी शिकवे न किये  
कुछ भी न जवां से काम लिया

### अन्तरा

इस पर भी मोहब्बत रुक न सकी  
जब तेरा किसी ने नाम लिया  
हम दिल को पकड़ कर बैठ गये  
हाथों से कलेजा थाम लिया  
पूछा जो किसी ने हाल तो हम  
कुछ कह न सके कुछ कह भी गये  
रोके तो बहुत आंसू लेकिन  
कुछ रुक भी गये कुछ बह भी गये  
अफसाना कहा और लब न हिले  
अश्कों से जबां का काम लिया  
आहें न भरी.....

रोके से भला कब दिल रुकता  
दुनियां को तड़प कर तड़पाता  
सच पूछ्ये तो यह खैर हुई  
महकिल में तमाशा बन जाता।  
कुछ आप अदायें रोक गये

कुछ जब्त से हमने काम लिया  
आहें न भरी.....

गैलाख तुम्हारे जुल्म सहे  
पर आंख से आंसू वह न सका  
वीमारे मोहब्बत में नकशब  
कुछ और तो मुह से कह न सका  
एक लम्बी सी ठण्डी सांस भरी  
चुपके से किसी का नाम लिया  
आहें न भरी.....  
( फिल्म जीनत से )

ताल कहरवा स्थाई

कोमल स्वर—ग

मन्द्र स्वर—नी

स्वर नं०		११ १२	१५ १५ १५	१५ १५
सरगम		नी सा	रे रे रे	रे रे
बोल		आ	हैं न भ	री शि
स्वर नं०	१३ १६	१७ १७	१६ १८ २०	१५ १५ १५
सरगम	स ग	ग ग	ग म प	रे रे रे
बोल	क वे	न कि	ए कुछ	भी न
स्वर नं०	१५१५१३१५	१३ १३ १३	१३ १८ २०	१५ १५
सरगम	रे रे स रे	स स स	स म प	रे रे
बोल	ज बां से	था म लि	या कुछ	भी न

स्वर नं०	१५ १५	१६ १५	१३ १३	१३ १३
सरगम	रे रे	ग रे	स स	स स
बोल	ज वां	से का	म लि	या
को० स्वर—ग		अन्तरा	मन्त्र स्वर—नी	
स्वर नं०	१३ १३ १३	१३ १३	१२ १३ १३	१५ १६ १५
सरगम	स स स	स स	नी स स	रे ग रे
बोल	इ स प	र भी मो	ह ब्ब त	छु प
स्वर नं०	१५ १५ १३			१८ २०
सरगम	रे रे स			म प
बोल	न स की			ज ब
स्वर नं०	१५ १५	१५ १५ १६	१५ १३ १३	१३ १२
सरगम	रे रे	रे रे ग	रे स स	स नी
बोल	त रा	कि सी	ने ना म	लि या
स्वर नं०	१३ १२	१५ १५ १५	१५ १५ १३	१३ १६ १६
सरगम	स नी	रे रे रे	रे रे स	स ग ग
बोल	ह म	दि ल को	प क इ	कर बैठ
स्वर नं०	१६ १६ २०	१५ १५ १५	१६ १५ १३	१३ १३ १३ १२
सरगम	ग म प	रे रे रे	ग रे स	स स सनी
बोल	ग ये हा	थों से क	ले जा था	म लि या

गाना नं० ८४ स्थाई

ओ दूर जाने वाले बायदा न भूज जाना !  
रातें हुई अन्धेरो तुम चांद बन के आना !!

अन्तरा

अपने हुए पराये दुश्मन हुआ जमाना ।  
तुम भी अगर न आए मेरा कहां ठिकाना ॥

ओ दूर जाने वाले.....

आजा किसी की आंखें रो-रो के कह रहीं हैं,  
ऐसा न हो कि हमको करदे जुदा जमाना ।

ओ दूर जाने वाले.....

(फिल्म प्यार की जीत से)

ताल दादरा

मद्र स्वर—नी ध

स्वर न०	१२ १३	१२१०१३१५	१३ १५ १३	१३ १२ १३
सरगम	नी स	नी ध स रे	स रे स	स नी स
बोल	ओ	दूर	जा ने	वा ले
स्वर न०	१२ १० १३	१८ १८ १८	१८ १८ २०	२२ १७
सरगम	नी ध स	म म म	म म प	ध ग
बोल		वा य दा	न भू	ल जा
स्वर न०	१५ १५ १५	१५ १६ १५	१५ १३ १२	१३
सरगम	रे रे रे	रे ग रे	रे स नी	स
बोल	ना वा य	दा ना भू	ल जा	ना

रातें हुई अन्धेरी भी इसी तर्ज पर बजायें

को० स्वर—ग		अंतरा		मद्र स्वर—नी	
स्वर नं०	१८ १८	१८ १५	१८ १८	२० २०	
सरगम	म म	ग रे	ग म	प पे	
बोल	आ प	ने हु	ए प	रा ए	
स्वर नं०	२० २२	२२ २२ २०	२३ २३	१८ १८	
सरगम	प ध	नी ध प	ध ध	म ग	
बोल	दु श	म न हु	आ	ज मा	
स्वर नं०	२० १८	१८ २० २३	२० २२	२२ २०	
सरगम	प म	म प ध	प ध	ध प	
बोल	ना तु	म भी	अ ग	र न	
स्वर नं०	१८ १८ १५	१८ १५ १८	१५ १३	१३ १२ १३	
सरगम	म ग रे	ग र ग	रे स	स नी स	
बोल	आ ये	मे रा	क हाँ		
स्वर नं०	१५ १८	११ १३	११ १३ १५	१३ १५	
सरगम	रे म	नी स	नी स रे	स रे	
बोल	ठि का	ना	ओ दू	र जा	
स्वर नं०	१३ १३	१२ १३			
सरगम	स स	नी स			
बोल	ने वा	ले —			

गाना नं० ८५ स्थाई

मिल के बिल्लुँ गई अंखियां, हाय राम मिलके  
बिल्लुँ गई अंखियां... ...

अन्तरा

मुश्किल से वह दिन भुलाये थे हमने ।

फिर आके छेड़ा बलम ने ॥

फिर से धड़क गई छतियां,

हाय राम मिलके—बिल्लुँ गई.....

रोते हैं नैना जीया त्लमलाये ।

जाके कोई उनको लाये ॥

कैसे बिताऊं दिन रतियां,

हाय रामा मिलके—बिल्लुँ गई.....

( फिल्म रतन से )

स्थाई

ताल दादरा

मद्र स्वर—नी ध

स्वर नं०	१३ १३	२० २०	२२ २०	१८ १७
सरगम	स स	प प	ध प	म ग
बोल	मि ल	के बि	ल्लु इ	ग ई
स्वर नं०	१७ २०	१८ १७	१५ १५	१३ १० १२
सरगम	ग प	म ग	रे रे	स ध नी
बोल	अं खि	यां हा	य श	मा मि ल
स्वर नं०	१३ १७ १८	२० २० १७	१३ १३	१३१२१३
सरगम	स ग म	प प ग	स स	स नी स
बोल	के बि	ल्लु इ	ग ई	

स्वर नं०	१३ १३	१३ १२	१३	
सरगम	स स	स नी	स	
बोल	अं वि	यां		

अन्तरा

मन्त्र स्वर—नी		तार स्वर—स		
स्वर नं०	१३ १३	१२ १२	१३ १७ १७	१७ १८
सरगम	स स	नी नी	स ग ग	ग म
बोल	मु शिक	ल से	बो दि	न भु
स्वर नं०	२० २०	२२ २३	२३ २२ २०	१८ २०
सरगम	प प	ध नी	नी ध प	म प
बोल	ला ये	थे	ह म	ने
स्वर नं०	२० २२	२५ २५	२३ २२	२२ २२
सरगम	प ध	स स	नी ध	ध ध
बोल	फि र	आ के	छे छा	ब ल
स्वर नं०	२० १८ २०	१८१३१३२०	२० २०	१७ २० १८
सरगम	प म प	म स म प	प प	ग प म
बोल	म ने	फि र	से ध	इ क ग
स्वर नं०	१८ १८	२० २०	२० २०	१७ १५ १३
सरगम	म म	प प	प प	ग रे स
बोज	ई छ	ति यां	हा य	रा मा

स्वर नं०	१३	१३	२०		
सरगम	स	स	प		
बोल	मि	ल	के		

फिर स्थाई बजायें

गाना न० न८ स्थाई

जो मुझे भुला के चले गये,  
मुझे याद उनकी सताये क्यों !

जो किसी का बन के रह न सके,  
वह किसी को अपना बनायें क्यों !!

अन्तरा

तेरा प्यार एक बहाना था ।

एक दो घड़ी का फसाना था ॥

मुझे उमर भर को रुलाना था,  
कोई चार दिन को हँसाये क्यों—

जो भुलाके मुझे……

वह दिन न रहे वो न रातें रहीं ।

न वह तुम रहे न वह बातें रहीं ॥

वो बहार आई चली गई,

दिल उस पै आंसू बहाये क्यों—

जो भुलाके मुझे……

( किलम सङ्गीता से )

		ताल कहरवा स्थाई			मढ़ स्वर—नी
स्वर नं०	१३१५१८	१८ १८ २०	२० १८ १७	१७ १५ १३	
सरगम	स रे म	म म प	प म ग	ग रे स	
बोल	जो मुझे	भु ला के	च ले	ग ये	
स्वर नं०	१७ १८	१७ १५ १३	१२ १३ १७	१७१७१५१३	
सरगम	ग म	ग रे स	नी स ग	ग ग रे स	
बोल	मु झे	या द	उ न	की स ता	
स्वर नं०	१३१५१३	१३ १३ १५	१७ १८	१८ १८	
सरगम	स रे स	स स रे	ग म	म म	
बोल	ये —	क्यों जो	कि सी	का ब	
स्वर नं०	२० १८ १७	१५ १७ १५	१३ १३	१७ १८	
सरगम	प म ग	रे ग रे	स स	ग म	
बोल	न के	र ह न	स के	वो —	
स्वर नं०	१७ १५	१३ १३ १५	१३ १५	१७ १५ १३	
सरगम	ग रे	स स रे	स रे	ग रे स	
बोल	कि सी	को अ प	ना ब	ना ये	
स्वर नं०	१५ १८	१३ १५	१८ १८ १८	२० २०	
सरगम	रे म	स रे	म म म	प प	
बोल	क्यों	जो मु	झे भु ला	के	

कोमल स्वर—ती		अन्तरा		तार म्वर—स	
स्वर नं	२० २०	१८ २० २२	२० २२ २०	१८२०२२२३	
सरगम	प प	म प ध	प ध प	म प ध नी	
बोल	ते रा	त्या र	ए क	ब हा ना	
स्वर नं०	१३ २०	२२ २३	८३ २३ २५	२५	
सरगम	स प	ध नी	नी नी स	स	
बोल	था ए	क दो	घ डी	का	
स्वर नं०	२२२२२३	२२२०२०१८	१७ १५ १३	१५१३१३१५	
सरगम	ध ध नी	ध प प म	ग रे स	रे स स रे	
बोल	फ सा	ना था		मु मे	
स्वर नं०	१८ २० १८	२० २०	२० १८	१७१७१५	
सरगम	म प म	प प	प म	ग ग रे	
बोल	उ म र	भ र	को रु	ला ना	
स्वर नं०	१३ १५	१७ १८ १७	१५ १३	१३ १२	
सरगम	स रे	ग म ग	रे स	स नी	
बोल	था को	ई चा	र	दि न	
स्वर नं०	१३ १५	१७१५१५१३	१५ १३		
सरगम	स रे	ग रे रे स	रे स		
बोल	को हं	सा ये	क्यों		

गाना न० द६ स्थाई

मन मोहन आओ जी रो रो पुकारे  
विरहिन राधिका... मन मोहन...

अन्तरा

व्याकुल मन भयो व्याकुल तन भयो

बरसत नैन हमारे मुरारी आम निरास भई मन की  
तुम बिन कौन अधार मन मोहन तुम बिन

सावन बीता कागुन बीता बीते माघ कुआंर मुरारी  
बचपन बीता यौवन बीता बीते वर्ष हजार मुरारी  
बाट तकत पथरा गई अखियां दरश भये न तिहारी  
मन मोहन आओ ज ...

(फिल्म जन्माष्टमी से)

ताल कहरवा स्थई

तार स्वर—स

स्वर न०	१७ द	२० १८ १७	१७ १८ १७	१५१५१३
सरगम	ग म	प म ग	ग म ग	रे रे स
बोल	म न	मो ह न	आ	ओ
स्वर न०	१८	१८ २०	२२ २५	१७१८२०
सरगम	म	म प	ध स	ग म प
बोल	रो	रो पु	का रे	बि र हि
स्वर न	१८	१७ १८ १५	१३ १३	
सरगम	म	ग म रे	स म	
बोल	न	ग धि	का	

कोमल स्वर—नी

अन्तरा

तार स्वर—सरे

स्वर नं०	२० २२ २२	२०२२२२	२२ २०	२०२२२०
सरगम	प ध ध	प ध ध	ध प	प ध प
बोल	व्या कु	ल म न	भ यो	व्या कु ल
स्वर नं०	२२२०१८	१३ १८	२२ २० १८	१८१७१५१३
सरगम	ध प म	स म	ध प म	म ग रे स
बोल	त न भ	यो व	र स त	नै न ह
स्वर नं०	१३ १५ १७	१७ १८	१७ १५ २०	२२ २३ २५
सरगम	स रे ग	ग म	ग म प	ध नी स
बोल	मा रे	मु रा री		आ स
स्वर नं०	२५ २७ २५	२३२२२३	२५ २२	२० २३ २२
सरगम	स रे स	नी ध नी	स ध	प नी ध
बोल	नि रा स	भ ई अ	ब म	न वी
स्वर नं०	२५ २५ -५	२७२५२५	२३ २५ २३	२२ २० २५
सरगम	स स स	रे स स	नी स नी	ध प स
बोल	आ स नि	रा स भ	ई म	न का
स्वर नं०	२४२४२४	२४ २२ २०	२२ १८	१७१३ -५
सरगम	नी नी नी	नी ध प	ध म	ग स रे
बोल	तु म चि	न कौ न	आ धा	र मा ह
स्वर नं०	१८ २०	२२		
सरगम	म प	ध		
बो	ना			

गाना नं ६१ स्थाई  
 लगन मेरे मन की बलम नहीं जाने !  
 बलम नहीं जाने सजन नहीं जाने !!

## अन्तरा

लाज की मारी मैं तो मुँह से न बोलूँ  
 भेद किसी से कभी दिल के न खोलूँ  
 ठेस जिया पै लागै छुप छुप के रोलूँ  
 तड़प विरहन की बलम नहीं जाने  
 लगन मोरे मन की.....  
 दूब न जायें कहीं आशा के तारे  
 नैन चुरा के सैया हमारे  
 नैहा लगाने गये सोतन के ढारे  
 कदर निर्बन की बलम नहीं जाने  
 लगन मोरे मन की...  
 (फिल्म बाबुल से )

ताल दादरा

स्थाई

कोमल स्वर—रे ग

मन्द्र स्वर—नी ध

स्वर नं०	१३ ११ १३	११ १०	११ १३	१३ १३
सरगम	स नी स	नी ध	नी स	स स
बोल	ल ग न	मे रे	म न की	ब

स्वर नं०	११ १३	१४ १६	१४ १३	१६
सरगम	नी स	रे ग	रे स	म
बोल	ल म	न हीं	जा ने	बा

अग्रवाल बुकडिपो खारीबावली देहली

२२५

स्वर नं०	२० १६	१६ २०	१६ २०	१६ १६ १६
सरगम	प म	म ग	म प	म ग ग
बोल	ल म	न ही	जा ने	स
स्वर नं०	१३ १४ १३	११ १३	१४ १६ १४	
सरगम	स रे स	नी स	रे ग रे	
बोल	ज न	न ही	जा ने	
कोमल स्वर—नो ध		अन्तरा		तार स्वर—स
स्वर न०	१३ १४	१६	१६ १६	१६ २०
सरगम	स रे	ग	ग म	म प
बोल	ला ज	की	मा री	मैं तो
स्वर न०	१६ १६	१६ १४ १५	१६ १५	१३
सरगम	म ग	स रे रे	ग रे	स
बोल	मुं ह	से न	बो लूं	
स्वर न०	१६ २०	२१ २२	२० २० २१	२३ २३ २१
सरगम	म प	ध ध	प प ध	नी नी ध
बोल	भे द	कि सी	से क	भी दि
स्वर न०	२० २०	२१ २१	२० २१ २०	१६ २० १६
सरगम	प प	ध ध	प ध प	म प म
बोल	ल के	न	बो	लूं
स्वर न०	२० २२	२५ २५ २५	२३	२१ २३ २५
सरगम	प ध	स स स	नी	ध नी स
बोल	ठे स	जि या	पै	ला ने

स्वर नं०	२३२१२०	१६ २३ २५	२१ २३	२१ १६ २०
सरगम	नी ध प	म नी स	ध नी	ध म प
बोल	ठे स	जि या	पै	ला गै
स्वर नं०	१६१६१३	२० १६ १६	१६१६१६	१३
सरगम	म ग स	रे ग म	म ग रे	स
बोल	छु	प छु	प रो	लूं

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० ६३

परदेशी हो जाते जाते जिया मेरा लिए जा !

अन्तरा

दिल पर गम की घटा जब छाए, जी भर आए  
नीर लिए जा याद किए जा जारे

परदेशी हो जाते जाते.....

करके इशारा प्यारा प्यारा दिया सहारा

बन करके प्राणों से प्यारा किया किनारा

जाके आनं का बादा किये जारे

परदेशी हो जाते जाते.....

( फ़िल्म अफसर से )

ताल कहरवा स्थाई

मद्र स्वर—ध प

स्वर नं०	१० १८	१० १३	१२ १५	१७
सरगम	ध प	ध स	स रे	ग
बोल	प र	दे शी	हो	

अग्रवाल बुकडिपो खारीबावली देहली

२८७

स्वर नं०	१३१५	१५ १७	१६ १७ १५	१५ १७ १६
सरगम	स रे	र ग	म ग रे	रे ग म
बोल	जा ते	जा ते	जि या	मा रा
स्वर नं०	१७ १६ १७	१५ १२	१३ १५ १७	१३ १५
सरगम	ग म ग	रे स	स रे ग	स रे
बोल	लि ए	जा	हो	जा ते
स्वर नं०	१५ १७	१६ १७	१५ १५	१७ १६
सरगम	रे ग	म ग	रे रे	ग म
बोल	जा तं	जि	या मा	रा
स्वर नं०	१७ १६ १७	१५ १२	१३ १५ १७	
सरगम	ग म ग	रे स	स रे ग	
बोल	लि ए	जा	हो	

अन्तरा

स्वर नं०	१७ १५	१७ १७	१७ १६	२०
सरगम	ग रे	ग ग	ग म	प
बोल	दि ल	प र	ग म	की
स्वर नं०	२० १६ २०	२८८८२०	८८ ८० १६	८० १७ १५
सरगम	प ध प	ध ध प	ध प म	प ग रे
बोल	घ टा ज	ब छा	ये	

स्वर नं०	१५ १३ १३	१३१५१७	१७	१७ १५ १६
सरगम	रे स स	स रे ग	ग	ग रे म
बोल	जी भ	र जा ये	गी	त
स्वर नं०	१७ २२ २४	२२ २० १६	२० २२	२० २०
सरगम	ग ध नी	ध प म	प ध	प प
बोल	म	हो	टों	प र
स्वर नं०	२०२२२४२२	१०१७१७१३	१३ १५ १७	१५ १७ १३
सरगम	प ध नी ध	प ग ग स	स रे ग	रे ग स
बोल	आ ये	दि न	आ	ये

फिर स्थाई बजायें

गाना नं ६४ स्थाई

माही ओ दुपट्टा मेरा देदे दुपट्टा मेरा देदे  
दे दे ए.....

तू है वेदर्दी तोहे लाज न आए रे  
नाजुक कलाई मोरी दूट न जाये रे  
दे दे दुपट्टा मेरा माही ओ...  
ओ गोरी ओ गोरी ओ .....

करले ये वायदा गौरी आओगी चोरी चोरी  
अच्छा है यह बहाना लेने दुपट्टा आना  
हम तो न देंगे तू जोर लगाते

माही ओ—माही ओ....

लूँ मैं बलायें तेरी, करना बद्नामी मेरी  
 अबना सताओ सैयां तुझ को कसम है मेरी  
 माही ओ—दे दे दुपट्टा मेरा देदे……  
 ओ गोरी ओ—गोरी ओ……

इसने मिलाया हमें प्यारा दुपट्टा तेरा  
 एक किनारा तेरा एक किनारा मेरा  
 आज दोनों किनारे मिलाइ

माही ओ दुपट्टा मेरा देदे……  
 ( फिल्म अफसर से )  
 ताल कहरवा स्थाई

मन्त्र स्वर—ध नी

स्वर नं०	१७ १६	२० १७	१६ २०	१५ १७
सरगम	ग म	प ग	म प	रे ग
बोल	मा ही	ओ मा	ही ओ	दु प
स्वर नं०	१७१५१३	१३ १३	२० १५	१७ १७
सरगम	ग रे स	स स	प रे	ग ग
बोल	ट्टा मे रा	दे दे	ओ दु	प ट्टा
स्वर नं०	१५ १३	१३१३१५	१३ १०	१२ १३
सरगम	रे स	स स रे	स ध	नी स
बोल	मे रा	दे दे दे	दे दे	

कोमल स्वर—ग नी		अन्तरा	तार स्वर—स	
स्वर नं०	१७ १५	१७१८१५१३	१५ १६	१७ १६
सरगम	ग म	ग स रे स	रे ग	ग म
बोल	तू है	वे द दी	तो हे	ला ज
स्वर नं०	२०२०२२	२० १६ १७	१६ २०	२२ २५
सरगम	प प ध	प म ग	म प	ध स
बोल	ना आ	ये रे ना	जु क	क ला
स्वर नं०	२३ २२	२० १६ २०	१६ १७	१६ १६
सरगम	नी ध	प म प	म ग	म ग
बोल	ई मो	री द्वू ट	न जा	ये रे
स्वर नं०	२५ २५	८३२२२०१६	१७ १७	१६ २०
सरगम	स स	नी ध प म	ग ग	म प
बोल	दे दे	दु प द्वा	ओ प	र दे
स्वर नं०	१६ १७	२५ २५	२४ २२ ००	१६ १७
सरगम	म ग	स स	नी ध य	म ग
बोल	सि या	दे दे	दु प	द्वा ओ
स्वर नं०	१७	१६ १७	१५	१७ १६
सरगम	ग	म ग	रे	ग म
बोल	प र	दे सि	या	मा ही

स्वर नं०	२० १७ १६	१७ २० १५	१७ १७	१५ १३
सरगम	प ग म	ग प रे	ग ग	म प
बोल	ओ मा	ही ओ दु	प ट्टा	रे स
स्वर नं०	१३ १३	१५ १३ १०	२०	
सरगम	स स	रे स ध	प	
बोल	दे दे	दे दे	ओ	

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० ६५

स्थाई

घिर के आई बदरिया साजनवा न जा !

अन्तरा

राते हैं नैन बाबरे इन्हें समझा जा

पहले तो आंख मिलाई अब फिर क्यूँ आंख चुराई

हाथ में हाथ दिया है लाज निभाजा—

घिर घिर के आई••• •••

आंखें करियाद करेगी रो रो कर याद करेंगी

आंखों की भूल बलमवा आके बतला जा—

घिर घिर के आई••• •••

( फिल्म एक ही थी लड़की से )

## ताल कहरवा स्थाई

मन्त्र स्वर—नी ध

कोमल स्वर—ग

स्वर नं०			१२ १३	१३ १३
सरगम			नी स	स स
बोल			घि र	घि र
स्वर नं०	१५ १३ १५	१३ १३	१३ १३	१३ १२ १३
सरगम	रे स रे	स स	स स	स नी स
बोल	के आ	ई ब	द रि	या सा
स्वर नं०	१३१२१३१५	१६ १६ १७	१५	१२ १३
सरगम	स नी स रे	ग म ग	रे	नी स
बोल	ज न वा	न	जा	घि र
स्वर नं०	१३ १३	१५ १३ १५	१३ १३ १०	१३ १३ १३
सरगम	स स	रे स रे	स स ध	स स स
बोल	घि र	के आ	ई ब	द रि या

## अन्तरा

को० स्वर—ग

मन्त्र स्वर—नी ध

स्वर नं०	२० २० २०	१६ २०	१६ १६	१६ १६
सरगम	प प प	म प	म ग	ग म
बोज्ज	रो ते	हैं	नै न	वा

स्वर नं०	१६ २०	१७ १६ २०	१३ १५	१५ १६ १६
सरगम	म प	ग म प	स रे	रे म ग
बोल	ब रे	इ न्हें	स म	झा
स्वर नं०	१६ १५	१२ १३	१३ १३	१५ १३ १५
सरगम	ग रे	नी स	स स	रे स रे
बोल	जा	घि र	घि र	के आ
स्वर नं०	१३ १३	१० १३	१३ १३	१२ १३
सरगम	स स	ध स	स स	नी स
बोल	ई ब	द रि	या आ	सा ज
स्वर नं०	१२ १३ १५	१६ १६ १६	१५	
सरगम	नी स रे	ग म ग	रे	
बोल	न वा	आ	जा	

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० ६६ स्थाई

जादू कर गये किसी के नैना,  
कि मन मेरा बस में नहीं !  
अन्तरा

स्वप्नों में हो गई मैं।

क्या किसी की हो गई मैं॥

कैसे यह भेद छुपाऊँ,

कि मन मोरा बस में नहीं—

जादू कर गये... ... ...

द्विन्दिया लगाऊंगी मैं ।  
 मैहदी रचाऊंगी मैं ॥  
 दूर खड़ी शरमाऊं ।  
 घूंघट में मुसकाऊं ॥  
 के मन मोरा बस में नहीं—  
 जादू कर गये . . . . .

जिन नैनन से नैन मिलाये,  
 उन को रोता छोड़ न जड़यो ।  
 तुम ने उन से प्रीत लगाई,  
 इस मनवा को तोड़ न जड़यो ॥  
 तुम बिन चैन न पाऊं,  
 कि मन मोरा बस में नहीं—

जादू कर गये किसी के नैना,  
 कि मन मोरा बस में नहीं !

(फिल्म आंखें से )

## ताल कहरवा स्थाई

को० स्वर—रे ग म

मन्द्र स्वर—प ध

स्वर न०	१० द	१० १३ १३	१३ १३	१५ १६ १५
सरगम	ध प	ध स स	स स	रे ग म
बोल	जा दू	क र ग	ये कि	सी के
स्वर न०	१४१६१४१३	१५ १३ १५	१३ १३	१५ १६ १६
सरगम	रे ग रे स	रे स रे	स स	रे म ग
बोल	नै ना	कि म न	मो रा	ब स में

स्वरनं०	१५ १३	१०	८ १० १३	१३ १३
सरगम	रे स	ध	प ध स	स स
बोल	न हीं	जा	दू क र	ग ये
स्वर नं०	१३ १५	१७ १५ १७ १५	१३ १४ १३ १५	१३ १३
सरगम	स रे	ग रे ग रे	स रे स रे	स स
बोल	कि सी	के नै ना	कि म न	मो रा
स्वर नं०	१५ १६ १६	१५ १३	१० ८	१० १३ १३
सरगम	रे म ग	रे स	ध प	ध स स
बोल	ब स में	न हीं	जा दू	क र ग ये
स्वर नं०	१३ १५ १६	१६ १५ १७	१५ १३ १५	
सरगम	स रे ग	म रे ग	रे स रे	
बोल	कि सी	के नै	ना	

अन्तरा

कोमल स्वर—ग

मन्द्र स्वर—ध प

स्वर नं०			२०	२२ २० २०
सरगम			प	ध प प
बोल			स्व	प नों
स्वर नं०	२० १६	१५ १३ १३	२० २२	२० २०
सरगम	प ग	रे स स	प ध	प प
बोल	में खो	ग है मैं	क्या कि	सी की

२३६

## हारमोनियम गाईड

स्वर नं०	१६ १५ १३	१६	१० १३ १३ १३	१३ १५
सरगम	ग रे स	म	ध स स स	स रे
बोल	हो ग ई	मै	कै से ये	भे द
स्वर नं०	१७१६१५१६	१५ १६ १६ १५	१३ १३ १५	१३ १३
सरगम	ग म रे म	रे म ग रे	स स रे	स स
बोल	छि पा	ऊं कि	म न	मो रा
स्वर नं०	१५ १६	१६ १५	१३ १०	८ १० १३
सरगम	रे म	ग रे	स ध	प ध स
बोल	ब स	में न	हीं जा	दू कर
स्वर नं०	१३ १३ १३	१५ १६ १६	१५ १६ १५	१३ १५ १३
सरगम	स स स	रे ग म	रे ग रे	स रे स
बोल	ग ये कि	सी के	नै	ना

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० ६७ स्थाई

जिगर की आग से इस दिल को

जलता देखते जाओ ।

मिटी जाती है अरमानों की दुनियाँ

देखते जाओ...जिगर...

अन्तरा

इसी दिन के लिए बोलो तुम्हें क्या हमने चाहा था

कि हम बरबाद हों और तुम तमाशा देखते जाओ  
जिगर की आग...

लगी है आग दिल में आंख से आंसु बरसते हैं  
भरी बरसात में इस घर को जलाता देखते जाओ

जिगर की आग...

(फ़िल्म दुपट्टा से )  
ताल कहरवा स्थाइ

तार स्वर—स

स्वर नं०			१३ १३	१५ १३
सरगम			स स	रे स
बोल			जि ग	र की
स्वर नं०	१५१७१५१७	१७ १६	१७ १५	१७ १६
सरगम	रे बे रे ग	ग म	ग रे	ग म
बोल	आ ग	से	इ स	दि ल
स्वर नं०	२० २०	२२ २०	२० २० २४	२५ २४ २२
सरगम	प प	ध प	प ध नी	स नी ध
बोल	को ज	ल ता	दे ख	ते —
स्वर नं०	२० १६	२० १३	१३ १५	१५ १७ १५
सरगम	प म	प स	स रे	रे ग रे
बोल	जा	ओ मि	टी जा	ती
स्वर नं०	१७ १७	१६१७१५१७	१६ २०	२० २२ २०
सरगम	ग ग	म ग रे ग	म प	प ध प
बोल	है अ	र मा नों	की	दु नि यां

स्वर नम	२०२२२४२५	२४२२२०१६	१७ १६ २०	
सरगम	प ध नी स	नी ध प म	ग म प	
बोल	दे ख	ते जा	ओ	

अन्तरा		तार स्वर—स रे ग		
स्वर नं			१६	१६ २०
सरगम			म	म प
बोल			इ	मी दि
स्वर नं०	२० २० २२	२० २२ २२	२० २२	२२ २५ २५
सरगम	प प ध	प ध ध	प ध	ध स स
बोल	न के	लि ये	बो लो	तु म्हें
स्वर नं०	२७ २५	२५८५८८८८८८	२५ २२ २०	२० १६ ८५
सरगम	रे स	स म ग रे	स ध प	प म स
बोल	क्या	ह म ने	चा हा	था
स्वर न०	२५ २५	२७ २५	२७ २६ २७	१६ ८६
सरगम	स स	रे स	रे ग रे	ग ग
बोल	कि हम	ब र	बा द	हों और
स्वर नं०	१६ २६ ८७	२० २२ २०	२० २२	२४ २५
सरगम	म .. रे	प ध प	प ध	नी स
बोल	तु म	त मा शा	दे ख	ते

स्वर नं०	२४	२२	२०	१६	२०
सरगम	नी	ध	प	म	प
बाल	जा			ओ	

फिर स्थाई वजायें

गाना नं० ६८ स्थाई

दिल की परेशानियां इश्क की बीरानियां  
कौन सुनेगा मेरी दर्द भरी दास्तां !

अन्तरा

दिल को मेरे तोड़ के साथ मेरा छोड़ के।  
तूने तो सब पा लिया मैंने गंभाया जहां। दिल की...  
दिल में तेरी याद है फिर भी यह बरबाद है।  
तू ही बता दे मुझे मैं हूँ कहां तू कहां  
दिल की परेशानियां...

तेरी नजर क्या 'फरी फिर गई तकदीर ही  
रोने लगी जिन्दगी हँसने लगा आसमां

दिल की परेशानियां...

(फिल्म हम लोग से )

ताल दादरा स्थाई

मद्र स्वर—नी

कोमल स्वर—ग

स्वर नं०		१३	१५	१३	१२	१६
सरगम		स	रे	स	नी	स
बाल		दि	ल	की	प	रे

स्वर नं०	१६ १७	१६ १८	२० १६ १७	१५
सरगम	म ग	म म	प म ग	रे
बोल	शा नि	याँ इ	श्क को	वे
स्वर नं०	१३ १७ १५	१७ १६	१६ १६ १५	१३ १२ १५
सरगम	स ग रे	ग ग	म ग रे	स नी रे
बोल	रा नि	याँ कौ	न सु	ने गा
स्वर नं०	१५ १५	१३ १५	१७	१६ २०
सरगम	रे रे	स रे	ग	म प
बोल	मे री	द द्व	भ	री
स्वर नं०	१५ १७ १५	१३		
सरगम	रे ग रे	स		
बोल	दा स	तां		

## अन्तरा

## मद्र स्वर—नी

स्वर नं०		२०	२२ २०	१६ १७ १६
सरगम		प	ध प	म ग म
बोल		दि	ल को	मे रे
स्वर नं०	२० २२ २४	२२ २०	१७ १६	२० २२ २०
सरगम	प ध नी	ध प	ग म	प ध प
बोल	तो इ	के	सा थ	ह मा
स्वर नं०	१६ १७	१५ १३	१५ १६	१७ १५
सरगम	म ग	रे स	रे म	ग रे
बोल	रा छो	इ के	तू ने	तो स

स्वर नं०	१३ १३	१५ १२ १२	१६ २२	२० १७
सरगम	स स	रे नि स	म ध	प ग
बोल	ब पा	लि या	मैं ने	ग वां
स्वर नं०	१५ १३	१३१५१२१३	१३ १५	१३ १२
सरगम	रे स	स रे नी स	स रे	स नी
बोल	या है	ज हां	दि ल	की प
स्वर नं०	१३ १६	१७ १६	१६ २०	१६
सरगम	स म	ग म	म प	म
बोल	रे शा	नि यां	इ श्क	की
स्वर नं०	१५ १३	१७ १५ १५	१७ १६	१७१५१३१२
सरगम	रे स	ग रे रे	ग म	ग रे स नी
बोल	वि रा	नि यां	कौ न	सु ने
स्वर नं०	१५ १५	१५ १३	१५ १८	१६ २०
सरगम	रे रे	रे स	रे म	म प
बोल	गा मे	री द	र्द भ	री
स्वर नं०	१५ १७	१२ १३		
सरगम	रे ग	रे स		
बोल	दा	स्तां		

गाना न० ६६

स्थाई

हम हैं तेरे दिवाने गर तू बुरा न माने  
 किस्से हैं ये पुराने गर तू बुरा न माने

अन्तरा

यह गोरा २ मुखड़ा यह चांदनी सो डवानी  
 धरती पे जैसे आई इक आसमां की रानी  
 अरे हमको चला बनाने गर तू बुरा न माने  
 किस्से हैं ये पुराने……

पहली नजर में तूने अपना बना लिया है  
 अरनी नजर से पूछो मेरा कसुर क्या है  
 अरे ये हैं तेरे बहाने गर तू बुरा न माने  
 किस्से हैं ये पुराने……

सपने सजा कर इक महल मैं बनाऊँगो  
 रानी तुम्हें बनाकर उस महल में बिठाऊँगा  
 यह ता है जेल खाने गर तू बुरा न माने  
 किस्से हैं ये पुराने……

( फिल्म शबिस्तान से )

ताल दाढ़रा स्थाई

कोमल स्वर—ग

मन्द्र स्वर—ध

स्वर नं०			१० १३ १५	१७ १५ १५
— सरगम			ध स रे	ग रेरे
— मोल			ह म हैं	ते रे

स्वर नं	१७ १३ १५	१६ १०	१३ १५ १७	१६ १६
सरगम	ग स रे	म ध	स रे ग	ग ग
बोल	दी वा	ने ग र	तू बु	रा न
स्वर नं०	१३ १३	१३ १५ १३	१७ १६	१६ १३
सरगम	स स	स रे स	ग ग	ग स
बोल	मा ने	ग र तू	बु रा	न मा
स्वर नं०	१६	१३ १३	१६	१३ १३ १३
सरगम	म	स स	ग	स स स
बोल	ने	क्रिस्से	हैं ये	पु रा ने
स्वर न०	१० १३	१३ १५	१६ १६	१६
सरगम	ध स	स रे	ग ग	ग
बोल	ग र	तू	बु रा	न
स्वर नं०	१३ १३			
सरगम	स स			
बोल	मा ने			

मन्द्र स्वर—ध अन्तरा कोमल स्वर—म

स्वर न०	२० २० २०	२० १६	१७ १७
सरगम	प प प	प म	ग ग
बोल	य ह गो	रा गो	रा मु

स्वर नं०	१८ २०	२० २०	२० २०	२० २०
सरगम	म प	प प	प प	प प
बोल	ख झा	य ह	चां द	नी सी
स्वर नं०	१८ १७	१५ १५	१५ १५	१५ १५
सरगम	म ग	रे रे	रे रे	रे रे
बोल	ज्वा नी	ध र	ती पै	जै से
स्वर नं०	१३ १३	१७ १७	१७ १८	१७
सरगम	स स	ग ग	ग म	ग
बोल	अः ई	इ क	आ स	मा
स्वर नं०	१५ १२	१२ १० १८	१५ १७	१५ १५
सरगम	रे स	स ध स	रे ग	रे रे
बोल	की रा	नी अ रे	ह म	को
स्वर नं०	१७ १३ १५	१८	१८ १०	१३ १५
सरगम	ग स रे	म	म ध	स रे
बोल	च ला	ब ना	ने ग	र तू
स्वर नं०	१७ १७	१७ १३	१३ १०	१३ १५ १५
सरगम	ग ग	ग स	स ध	स रे रे
बोल	बु रा	न मा	ने ह	म है

स्वर नं०	१७१११५	१७१३१५	१८ १०	१३
सरगम	ग रे रे	ग स रे	म ध	स
बोल	ते रे	दी वा	ने ग	र तू

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० १०० स्थाई

किस्मत बिगड़ी दुनियां बदली ।  
फिर कौन किसी का होता है ।  
ये दुनियां वाले सच तो कहो ।  
क्या प्यार भी झूठा होता है ।

### अन्तरा

जब बुरा जमाना आता है  
साथी भी जुदा हो जाते हैं  
कोई दिल पर चोट लगाता है  
जो दिल को प्यारा होता है

किस्मत बिगड़ी .....

दुनियां में बफा का नाम नहीं  
हनियां को बफा से काम नहीं  
सब जिसको मोहब्बत कहते हैं  
नादान यह धोखा होता है

किस्मत बिगड़ी .....

तूफान से किसी बच निकली  
साहल पर पहुंच कर झूब गई  
भगवान तुम्हारी दुनियां में

अन्धेर यह कैसा होता है

किस्मत बिगड़ी.....

नेकी का नतीजा नेकी है

अंजाम बुराई का है बुरा

कानून यही है कुदरत का

कोई कुछ भी कहे क्या होता है

किस्मत बिगड़ी.....

( फ़िल्म अफसाना से )

ताल कहरवा स्थाई

कौ० स्वर—ग ध नी

मद्र स्वर—ध नी

स्वर नं०		१३	१५ १६	१६ १३ १५
सरगम		स	रे ग	ग स रे
बोल		कि	स्म त	बि ग
स्वर नं०	१३ १३	१५ १३	१० १२ १२	१३
सरगम	स स	रे स	ध नी नी	स
बोल	डी दु	नि यां	ब द	ली
स्वर नं०	१३ १५	२० २०	२० २०	१० १२
सरगम	प प	प प	प प	ध नी
बोल	कि र	कौ न	कि सी	का —
स्वर नं०	१६१५१३	१५ १३	१७ १७ १३	१५ १३
सरगम	ग रे स	रे स	ग ग स	रे स
बोल	हो ता	हे ये	दु नि	यां वा

स्वर नं०	१३१५१३	१० १२	१२ १३	१३ १५
सरगम	स रे स	ध नी	नी स	स रे
बोल	जो स	च तो	क हो	क्या
स्वर नं०	२०२०२०	२० २०	२१ २३ १६	१५ १३
सरगम	प प प	प प	ध नी ग	रे स
बोल	प्या र	भी भू	ठाहो	ता
स्वर नं०	१३ १३	१५१७१७	१६ १३	१५ १३
सरगम	स स	रे ग ग	ग स	रे स
बोल	है कि	स्म त	वि ग	ड़ी

अन्तरा

कोमल स्वर—ग नी      तार स्वर—स रे      मद्र स्वर—ध नी

स्वर नं०			१६ २०	१६ २०
सरगम			म प	म प
बोल			ज ब	बु रा
स्वर न०	२४ २५	२५ २५	२३ २५	२५
सरगम	नी स	स स	नी स	स
बोल	ज	मा ना	आ	ता
स्वर नं०	२५२३२५	२३ २५	२७ २५	२७ २५
सरगम	स नी स	नी स	रे स	रे स
बोल	है सा	थी	भी छु	दा

स्वर नं०	२५ २३ २५	२७ २५	२३	१३ १५
सरगम	स नी स	रे स	नी	स रे
बोल	हो जा	ता	है	को ई
स्वर नं०	१६ १६	१३ १५	१३ १३	१५ १३ १०
सरगम	ग ग	स रे	स स	रे स ध
बोल	दि ल	प र	चो ट	ल गा
स्वर नं०	१२ १२ १३	१३ १५	२० २०	२० २०
सरगम	नी नी स	स रे	प प	प प
बोल	ता है	जो	दि ल	का एया
स्वर नं०	१० १२ १६	१५ १३	१५	
सरगम	ध नी ग	रे स	रे	
बोल	रा हो	ता	है	

फिर स्थाई बजायें

गाना नं १०१ स्थाई

दिल पर तीर चलाए नजरिया तोरी रे  
सौ सौ बल है खाये कमरिया मोरी रे

अन्तरा

बीच सभा में खड़ा है छैला, खिड़की पीछे गौरी

चोरी चोरी नैन लड़ाये जमादार की छोरी, न माने मोरी रे  
काली काली अंखियां मेरी गोरी २ लाल

बाप हमारा करे कचहरी भइया है कोतवाल

आँख उठाकर हमको देखे किसकी है मजाल  
किसकी हिम्मत आए डगरिया मोरी रे...  
दिल पर तीर चलाए... ...

ढल जायेगा जोबन तेरा न कर इतना गुमान  
रूप जवानी तेरे रानी दी दिन के मेहमान  
लूट मचे यह दिन न आए कहना मेरा मान  
दिन २ ढलती जाय उमरिया तोरी रे  
दिल पर तीर चलाए... ...

(फिल्म दूसरी शादी से )

ताल कहरवा

स्थाई

मद्र स्वर—नी

कोमल स्वर—ग भ

स्वर नं०		१३ २० २०	२२ २२ २२	१६ १७
सरगम		स प प	ध ध ध	म ग
बोल		हो	दि ल पै	ती र
स्वर नं०	१५ १५	१३ १३ १२	१२	१३ १५
सरगम	रे रे	स स नी	नी	स रे
बोल	च लाए	न ज रि	या	तो री
स्वर नं०	१५ १६	१५ १६ १३	१३ १५	१५
सरगम	रे ग	रे ग स	स रे	रे
बोल	रे	रे दि	ल पै	ती

स्वर नं०	१६ १६	१६ १५ १३	१३ २० २०	१३ २० २०
सरगम	म म	ग रे स	स प प	स प प
बोल	र च	ला ये	सौ	सौ
स्वर नं०	२२ २२ २२	१६ १७ १५ १५	१३ १३	१२ १२
सरगम	ध ध ध	म ग रे रे	स स	नी नी
बोल	ब ल	है खा ये	क म	रि या
स्वर नं०	१३ १५ १५ १६	१५ १६	१३ २० २०	२२ २२ २२
सरगम	स रे रे ग	रे ग	स प प	ध घ ध
बोल	मो री	रे	हो	दि ल पे

अन्तरा मढ़ स्वर—नी कोमल स्वर—ग ताल बन्द

स्वर नं०	२० २०	२० १६	१७ १६	१६ १५
सरगम	प प	प म	ग म	ग रे
बोल	बी च	स भा	में	ख ड़ा है
स्वर नं०	१६ १५	१६ १६	१७ १५ १३	१२ १३
सरगम	ग रे	ग ग	ग रे स	नी स
बोल	छै ला	खि ड़ की	पो छे	गौ री
स्वर नं०	ताल शुरू	१६ १६	१६ १६	१६
सरगम		ग ग	म म	ग
बोल		चो रो	चो री	नै न

स्वर नं०	१५ १५	१५ १६	१६ १६	१५ १३
सरगम	रे रे	रे ग	म म	रे स
बोल	ल डा ये	ज मा	दा र की	छो री
स्वर नं०	१३ ११	१३ १५	१५ १६	१८ १६
सरगम	स नी	स रे	रे ग	म ग
बोल	ना मा	ने मो	री —	रे
स्वर नं०	१३ १५	१५ १६	१६ १५	१३
सरगम	स रे	रे म	ग रे	स
बोल	ज मा	दा र	की छो	री

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० १०२ स्थाई

कंकर कंकर से मैं पूछूँ शंकर मेरा कहां है कोई बताये  
 शिखर २ से पूछ रही हूँ शंकर मेरा कहां है कोई बताये  
 गौरी धर गंगाधर हर हर शंकर मेरा कहां है कोई बताये

अन्तरा

लहर २ लहराती गंगे तू क्यों गाती गाने  
 शिवजी हमसे रुठ गया है क्या यह बात न जाने  
 रो रो नैन गंवाये...कोई बताये...  
 ओ नील गगन की चन्द्र कला  
 तू रहती उनके पास भला  
 मेरा कहां गया प्रीतम बतला

मेरी विगड़ी कौन बनाये...कोई बतलावे...

हौले २ चल फ़णी धर हौले २ चल

मैं भी तेरे साथ चलूँ हौले २ चल

तू लिपटेगा गले स्वामी के मैं चरणों में रहलं

मेरा धन्य जीवन हो जाये... कोई बताये ...

(फिल्म हर हर महादेव से)

ताल कहरवा स्थाई

## कोमल स्वर—ग म नी

स्वर नं०	२० २०	२० २०	२० १८ २०	२२२३२२२०
सरगम	प प	प प	प म प	धनी ध५
बोल	कं क	र कं	क र से	मैं पू
स्वर नं०	१८ १८	२० २० १८	१६ १५	१३ १६
सरगम	म म	प प म	ग रे	स ग
बोल	छूं शं	क र मे	रा क	हां है
स्वर न०	१५ १६	१८ १६	१५	१३
सरगम	रे ग	म ग	रे	स
बोल	को	ई व	ता	ये

बाकी दो कलियां भी इसी तरह बजायें

श्रीकृष्ण

## कोमल स्वर—ग म नी

स्वर नं०	२०	२०	२०	२०	२०	२०	२०	२०	२३	२२
सरगम	प	प	प	प	प	प	प	ध	नी	ध
बोल	ल	ह	र	ल	ह	र	ल	ह	रा	ती

स्वर नं०	२० २०	१८ १८	१६ १५	१५ १५
सरगम	प प	म म	ग रे	रे रे
बोल	गं गे	तू क्यों	गा ती	गा ने
स्वर नं०	१५ १५	१६ १८	१८ २०	१८ १८
सरगम	रे रे	म म	म प	म म
बोल	शि व	जी ह	म से	रु ठ
स्वर नं०	१६ १८	१५ १५	१८	१६ १५
सरगम	ग ग	रे रे	म	ग रे
बोल	ग ये	हैं क्या	य ह	वा त
स्वर नं०	१५ १५	१३ १३	२०	२०
सरगम	रे रे	स स	प	प
बोल	न जा	ने	रो	रो
स्वर नं०	१८ १८	१६	१६ १५	१५ १६ १८
सरगम	म म	ग	ग रे	रे ग म
बोल	नै न	गं	वा ये	को है
स्वर नं०	१६ १५	१५		
सरगम	ग रे	रे		
बो	ब ता	ये		

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० १०३ स्थाई

जब तुम्हीं चले परदेश लगा कर ठेस

ओ प्रोतम प्यारा, दुनियां में कौन हमारा

## अन्तरा

जब बादल घिर घिर आयेंगे  
 बीते दिन याद दिलायेंगे  
 जब तुम्ही कहो कित जाय नसीब हमारा  
 दुनिया में कौन हमारा.....  
 आँखों से पानी बहता है  
 दिल रो रो कर यह कहता है  
 जब तुम्ही ने साजन हम से किया किनारा  
 दुनियां में कौन हमारा .....  
 (फिल्म रतन से )  
 ताल कहरवा स्थाई

## कोमल स्वर—ग म

## मन्द्र स्वर—नी

स्वर नं०		१३ १२	१३ १२	१३ १५
सरगम		स नी	स स	स रे
बोल		ज ब	तु म्ही	च ले
स्वर नं०	१६ १५	१३	१३ १५ १८	१६ १५
सरगम	ग रे	स	स रे म	ग रे
बाल	प र	दे श	ल गा	क र
स्वर नं	१३ १३	१३ १३	१५ १३ १३	१२ १३
सरगम	स स	स स	रे स स	नी स
बोल	ठे स	बो प्रो	त म	प्या

स्वर नं०	१५	१६ १२	१२ १३	१५ १६
सरगम	रे	स नी	नी स	रे ग
बोल	रा	दु नि	यां में	कौ न
स्वर नं०	१५ १६	१३ १३	१२ १३	१३ १३ १५
सरगम	रे स	स स	नी स	स स रे
बोल	ह मा	रा ज	ब तु	म्ही च ले

कोमल स्वर—ग म ध      अन्तरा      मन्द्र स्वर—नी

स्वरनं०	२० २०	२० २० २२	२० २०	२० १८
सरगम	प प	प प ध	प प	प म
बोल	ज ब	बा द	ल घि	र घि
स्वर नं०	१८१७१८	२० २०	२० २०	२१ २०
सरगम	म ग म	प प	प प	ध प
बोल	र आ	यै ने	बी ते	दि न
स्वर नं०	१६ १८	१५ १५ १६	१५ १३	१३ १५
सरगम	म ग	रे रे ग	रे स	स रे
बोल	या द	दि ला	यै ने	फि र
स्वर नं०	१८ १८	१८ १८	१८	१७१५१७
सरगम	म म	म म	म	ग रे ग
बोल	तु म्ही	क हो	कि	त जा

स्वर नं०	१७	१५	१५ १३	१२ १२ १३	१५ १३
सरगम	ग	रे	रे स	नी नी स	रे स
बोल	ये न	सी ब		ह मा	रा दु
स्वर नं०	१२	१२	१३ १५ १६	१५ १३	१३ १३
सरगम	नी नो		स रे ग	रे स	स स
बोल	नि यां	में कौ		न ह	मा रा

किर इथाई बजायें

गाना नं० १०४ स्थाई

बहे अंखियों से धार जिया मेरा बेकरार ।

सुनो २ दिलदार जाओगे कहां दिल तोड़ के

अन्तरा

ओ साथो मेरी तकदीर के  
तुम्हें कैसे दिखाऊँ दिल चीर के  
मेरा पहला २ प्यार  
मेरी पहली २ हार, सुनो सुनो दिलदार  
जाओगे कहां दिल तोड़के.....

मेरी दुनियां तो है बरबाद ही  
लेते जाओ तुम अपनी याद भी  
लिए आंसुओं के हार करूँ तुमसे पुकार  
सुनो २ दिलदार.....

जाओगे कहां दिल तोड़के  
जब नजरें किसी को न पायेंगी  
मोसे रनियां गुजारी न जायेंगी

लिये दिल पे इन्तजार

कैसे बीतेगी बहार... सुनो सुनो दिलदार...

जाओगे कहाँ दिल तोड़ के...

( फिल्म हम लोग से )

ताल कहरवा स्थाई

कोपन स्वर—म

स्वर नं	१३ १३	१३ १७	१७ १८	२० २०
सरगम	स स	स ग	ग म	प प
बोल	ब हे	आ खि	यों से	धा र
स्वर नं०	२० २०	२० २२	२०	१८ १७ १५
सरगम	प प	प ध	प	म ग रे
बोल	जि या	मे रा	वे	क रा
स्वर नं०	१७ १७	१८ २०	२२ २०	१८ १७ १५
सरगम	ग ग	म प	ध प	म ग रे
बोल	र सु	नों सु	नों दि	ल दा
स्वर नं०	१७ १८	२० २०	१८ १७	१९ १.
सरगम	ग म	प प	म ग	रे स
बोल	र जा	ओ गे	क हाँ	दि ल
स्वर नं०	१५	१३ १३	१७ १८	२० २०
सरगम	रे	स स	ग म	प प
बोल	तो	इ के	हो जा	ओ गे

स्वर नं०	१८ १७	१५ १३	१५ १३	१३
सरगम	म ग	रे स	रे स	स
बोल	क हां	दि ल	तो ड़	के
को० स्वर—म		अन्तरा		तार स्वर—स
स्वर नं०	१७ १८ १७	१७ २०	२० २२ २४	२५ २४
सरगम	ग म ग	ग प	प ध नी	स नी
बोल	ओ	सा थी	मे री	त क
स्वर नं०	२२ २२	२० १७	१७	१७ १८ २०
सरगम	ध ध	प ग	ग	ग म प
बोल	दी र	के तु	म्हें	कै से
स्वर नं०	२० २२	२४ २५	२४	२२
सरगम	प ध	नी स	नी	ध
बोल	दि खा	ऊं दि	ल	ची र
स्वर नं०	२० १३	१३ १३ १३	१७ १७	१८ १८
सरगम	प स	स स स	ग ग	म म
बोल	के मे	रा प ह	ला प	ह ला
स्वर नं०	२० २०	२० २०	२० २० २२	२० २०
सरगम	प प	प प	प प ध	प प
बोल	प्या र	मे री	प ह ली	प ह

अथवाल बुकडिपो खारीबावली देहली

२५८

स्वर नं०	१८	१७ १५ १७	१७ २०	२० २२ २०
सरगम	म	ग रे ग	ग प	प ध प
बोल	ली	हा र	सु नो	सु नो दि
स्वर नं०	१८ १७	१५ १७ १७	२० १८	१८ १७
सरगम	म ग	रे ग ग	प म	म ग
बोल	ल दा	र जा	ओ गे	क हां
स्वर नं०	१५ १३	१५ १५	१३ १३	
सरगम	रे स	रे रे	स स	
बोल	दि ल	तो ड़	के	

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० १०५ स्थाई

तेरा काम है जलना परवाने  
 चाहे शमा जले या ना जले  
 तू पंख जला दे दीवाने  
 चाहे शमा जले या ना जले

अन्तरा

ये दर्द मोहब्बत का सहजा  
 तू आग के दरिया में बहजा  
 कहती है जो दुनियां कहने दे  
 तू जलते जलते ये कहजा  
 यूं जल मरते हैं दीवाने

चाहे शमा जले या ना जले  
तेरा काम है जलना.....

तेरा प्यार नहीं है हरजाई  
तू सौदाई है सौदाई  
मरने में है शान मुहब्बत की  
जीते में है तेरी रुसवाई

मरते नहीं जल कर प्रवाने  
चाहे शमा जले या ना जले  
तेरा काम है जलना... ...

( किल्म पापी से )

ताल दादरा स्थाई

### कोमल स्वर—म

स्वरन०	१७ १७	१७ १८	२० १८	१८ १८
सरगम	ग ग	ग म	प म	म म
बोल	ते रा	का म	है ज	ल ना
स्वरन०	१७ १७ १५	१८ १३ १३	१५ १७	१८ २०
सरगम	ग ग रे	स स स	रे ग	म य
बोल	प र वा	ने चा है	श मा	ज ले
स्वरन०	१८ १७	१५ १७	१७ १७	१७ १८
सरगम	म ग	रे ग	ग ग	ग म
बोल	या ना	ज ले	तू पं	ख ज

अग्रवाल बुकडिपो खारीबावली देहली

२६१

स्वर नं०	२० १८	१८ १८ १७	१७ १५	१३ १३ १५ १७
सरगम	प म	म म ग	ग रे	स स रे ग
बोल	ला दे	दी वा ने	चा हे	श मा
स्वर नं०	१८ २०	१८ १७	१५ १७	
सरगम	म प	म ग	रे ग	
बोल	ज ले	या ना	ज ले	

तार स्वर—	अन्तरा	कोमल स्वर—म
स्वरनं०	२० २२	२४ २५ २५
सरगम	प ध	नी स स
बोल	ये द्	द्वि मो ह
स्वर नं०	२० २२	२३ २२
सरगम	प ध	नी ध
बोल	तू आ	ग के
स्वर नं०	१५ १५	१३ १७
सरगम	रे रे	स ग
बोल	ब ह	जा क
स्वर नं०	१८ १८	१७ १५
सरगम	म म	ग रे
बोल	नि यां	क ह
		ने दे
		तू ज ल ते
		१७१८२०२०

स्वर नं०	१८ १८	१८ १७ १७	१५ १५	१३ १७
सरगम	म म	म ग ग	रे रे	स ग
बोल	ज ल	ते य ह	क ह	जा यूं
स्वर नं०	१८ १८	२० २०	१८ १७	१७ १५
सरगम	म म	प प	म ग	ग रे
बोल	ज ल	म र	ते हैं	दी वा
स्वर नं०	१३ १७	१७ १८	२० २० १८	१७ १५
सरगम	स ग	ग म	प प म	ग रे
बोल	ने चा	हे श	मा ज	ले या
स्वर नं०	१७ १५	१३		
सरगम	ग रे	स		
बोल	ना ज	ले		

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० १०६ स्थाई

कौन कहे उनसे जाके अय हुजूर

हमारा क्या कसूर रहो जो दूर दूर

अन्तरा

कोई पूछे तो खामोश रहना

दिल की बातें किसी से न कहना

प्यार वालों का है यही दस्तूर...

हमारा क्या कसूर.....

कोई कितना ही दिल को संभाले

लाख आँखों से आसू छुपाले

चोट खाने वाला रोवेगा जरूर

हमारा क्या कसूर....

दिल चुराके निगाहे चुराना

किस से सीखा है दिल को सताना

हम तो मरते हैं तुम पै जरूर

हमारा क्या कसूर.....

(फिल्म पापी से)

ताल दादरा स्थाई

कोमल स्वर—म

मन्द्र स्वर—ध

स्वर नं०			१० १३	१५ १७
सरगम			ध स	रे ग
बोल			कौ न	क हे
स्वर नं०	१७१७१७	१७ १८	१७ १७	१५ १७
सरगम	ग ग ग	ग म	ग ग	रे ग
बोल	उ न से	जा के	अ य	हु जूर
स्वर नं०	१७ १७	१८ १७	१५ १७	१७ १७ १७
सरगम	ग ग	म ग	रे ग	ग ग ग
बोल	ह मा	रा क्या	क सू	र र हो
स्वर नं०	१८ १७	१५ १७	१७ १०	१३ १५ १७
सरगम	म ग	रे ग	ग ध	स रे ग
बोल	जो दू	दूर	र कौ	न क हे

कोमल स्वर— म

अन्तरा

मन्द्र स्वर— ध

स्वर नं०			१७ १८	२० २२
सरगम			ग म	प ध
बोल		.	को ई	पूँछे
स्वर नं०	२२ २०	२० १८	२० १८ १७	१७ १८
सरगम	ध प	प अ	प म ग	ग म
बोल	तो खा	मो श	र ह ना	दि ल
स्वर नं	२०२२२२	२० २० २०	१८ २०	१८ १७
सरगम	प ध ध	प प प	म प	म ग
बोल	की बा तें	कि सी से	न क	ह ना
स्वर नं०	१० १०	१३ १३ १७	१७ १८	१७ १७
सरगम	ध ध	स स ग	ग म	ग ग
बोल	प्यार	वा लों	का है	य ही
स्वर नं०	१५ १३	१७ १० १३	१५ १७ १७	१७ १७
सरगम	रे स	ग ध स	रे ग ग	ग ग
बोल	द स्त्र	र कौ न	क है उ	न से
स्वर नं०	१७ १८	१७ १७	१५ १७	१७ १७
सरगम	ग म	ग ग	रे ग	ग ग
बोल	जा के	अ य	ह जू र	ह मा

ख्वर नं०	१८ १७	१५ १७	१७१७१७१८	१७१५१७१७
सरगम	म ग	रे ग	ग ग ग म	ग रे ग ग
बोल	रा क्या	क सू	र २ हो जो	दू र दू र

गाना नं० १०७ स्थाई

दुनियां का मजा लेलो दुनियां तुम्हारी है  
ये दुनियां तुम्हारी है ये दुनियां तुम्हारी है

अन्तरा

दुनियां को लात मारो दुनियां सलाम करे  
मुङ मुङ सलाम करे भुक भुक सलाम करे  
बिछू बिछू सलाम करे... दुनियां के.....  
कभी नमस्ते जी तो कभी राम राम करे  
दुनियां के बाप हो ये दुनियां तुम्हारी है  
दुनियां से डरोगे तो दुनियां दबाएगी  
रोब जमाएगी हँसी उड़ायेगी  
चैन न लेने देगी जान जलायेगी दुनियां के.....  
जान के सीना चलो दुनियां तुम्हारी है  
ये दुनियां तुम्हारी है— दुनियां का मजा.....  
दुनियां के जितने नजारे हैं तुम्हारे हैं  
ये फूल तुम्हारे ये सितारे तुम्हारे हैं  
चन्दा तुम्हारा है ये चान्दनी तुम्हारी है  
दुनियां का मजा लेलो .....

दुनियां तुम्हारी है ये दुनियां तुम्हारी है  
( फिल्म बहार से )

२६६

## हारमोनियम गाईड

कोमल स्वर—ग

स्थाई

मद्र स्वर—नी

स्वर नं०	५ १३	१३ १३	१३ १३	१३ १३
सरगम	प स	स स	स स	सं स
बोल	दु नि	यां का	म जा	ले लो
स्वर नं०	१३ १३	१३ १५	१३ ११ ११	१३
सरगम	स स	स रे	स नी नी	स
बोल	दु नि	यां तु	म्हा री है	ये
स्वर नं०	१५ १६	१६ १६	१५ १३	१३
सरगम	रे ग	ग ग	रे स	स
बोल	दु नि	यां तु	म्हा री	है
स्वर नं०	११ १३	१५ १६ १६	१५ १३	१३
सरगम	नी स	रे ग ग	रे स	स
बोल	ये दु	नि यां तु	म्हा री	है

को० स्वर—म

अन्तरा

मद्र स्वर—प

स्वर नं०	१७ १७	१७ १८	२० २०	२० २०
सरगम	ग ग	ग म	प प	प प
बोल	दु नि	यां के	ला त	मा रो
स्वर नं०	१८ २०	१८ १७	१८ २०	२० २०
सरगम	म प	म ग	म प	प प
बोल	दु नि	यां स	ला म	क रे

स्वर नं०	१८ २०	१८ १८ १७	१८ २०	२० २०
सरगम	म प	म म ग	म प	प प
बोल	मु ड़	मु ड़ स	ला म	क रे
स्वर नं०	१८ २०	१८ १८	१७ १८ २०	२०
सरगम	म प	म म	ग म प	प
बोल	मु क	मु क	स ल म	क रे
स्वर नं०	१८ २०	२०	१७ १८ २०	२०
सरगम	म प	म	ग म प	प
बोल	वि छ	वि छ	स ला म	क रे
स्वर नं०	द १३	१३ १३	१३ १३	१३ १३
सरगम	प स	स स	स स	स स
बोल	दुनि	यां का	म जा	ले लो

फिर स्थाई बजायें  
गाना नं० १०८ स्थाई

छोड़ो जी छोड़ो जी छोड़ो जी कहैया कलहिया हमार  
दौड़ो जी दौड़ो जी दौड़ो जी देखे हैं सैया सैया हमार

अन्तरा

नट खट हठीले छैल छबीले पकड़ो न हमारी बैया  
जाओ जी जाओ जी जाओ जी लो न बतैया हमार

छोड़ो जी छोड़ो जी .....

अच्छी नहीं ये बतियां छिछोरी काहे करो जोरा जोरी

छोटी ननांदया देवेगी ताना खैंचा चुनारया न मोरी  
तोड़ो ना तोड़ो ना तोड़ा ना पतली कलईया हमार

छोड़ो जी छोड़ो जी छोड़ो जी.....

चलती डगरिया बीच बजरिया छेड़ों न सावरियां  
आना जी आना जी आना जी आना कन्हैया हमार

छोड़ो जी छोड़ो जी छोड़ो जी.....

( किलम बहार से )

ताल कहरवा स्थाई

### कोमल स्वर—ध म ग

स्वर नं०	२० २१	२० १८	२० १८	१६१५१३
सरगम	प ध	प म	प म	ग रे स
बोल	छो डो	जी छो	डो जी	छो डो
स्वर नं०	१६ १६	१८ २० २०	१८ १७ १८	१७ १५
सरगम	ग ग	म प प	म ग म	ग रे
बोल	जी क	न्है या	क न्है	या ह
स्वर न०	१३ १३	२० २१	२० १८	२०१८१६
सरगम	स स	प ध	प म	प म ग
बोल	मा र	दौ डो	जी दौ	डो जी दौ
स्वर नं०	१५१२१६	२० २०	१८ १६	१५ १८
सरगम	रे स ग	प प	म ग	रे म
बोल	डो जी	दे खे	हैं सै	यां सै
स्वर नं०	१६ १५	१३ १३		
सरगम	ग रे	स स		
बोल	यां ह	मा र		

अन्तरा

तारस्वर—स रे

कोमल स्वर—नी ध ग म

स्वर न०	२० २२	२३ २३ २३	२५ २७	२५ २३
सरगम	प ध	नी नी नी	स रे	स नी
बोल	न ट	ख ट. ह	ठी ले	छै ल
स्वर न०	२३ २५	२७ २५	२३ २१	२० १८
सरगम	नी स	रे स	नी ध	प म
बोल	छ वी	ले प	क डो न	वै या
स्वर नं०	१६ १८	२० २०	२१ २०	१८२०१८
सरगम	ग म	प प	ध प	म प म
बोल	ह मा	री जा	ओ जी	जा ओ जी
स्वर न०	१६१५१३	१६ २०	२० १८	१६ १५
सरगम	ग रे स	ग प	प म	ग रे
बोल	जा ओ	जी लो	न ब	तै यां
स्वर न०	१२ १३	१३		
सरगम	स स	स	दूसरी लाईन	भी पहली
बो	ह मा	र	लाईन की तरह	से बजायें

फिर स्थाई बजायें

गाना नं १०६ स्थाई

भगवान दो घड़ी जरा इन्सान बन के देख  
धरती पै चार दिन कभी मेहमान बन के देख

अन्तरा

हे जिनको तेरी यांज कभी उसकी ले खबर

ओ आसमान वाले गरीबों पे कर नजर  
दिल में किसी गरीब के अरमान बन के देख  
धरती पै चार दिन .....

जो कुछ भी हो रहा है ओ तेरी नजर में है  
आ देख मेरी लाज की नैया भंवर में है  
सब जानते हुए भी न अनजान बनके देख  
धरती पै चार दिन .....

तुम्ह को खबर नहीं कोई कितना निराश है  
निनके की छूटते को ओ मलिक तलाश है  
इन्सान बन सके तो भगवान बन के देख  
धरती पै चार दिन .....

(फ़िल्म बहार से )

## ताल कहरवा स्थाई

## कोमल स्वर—म ग रे

## मन्द्र स्वर—नी

स्वर नं०	१३ १६	२०	२० २०	२० २१
सरगम	स ग	प	प प	प ध
बोल	भ ग	वा न	दो घ	झी ज
स्वर नं०	२० १८	२० १८	१६ १६	१५ १६
सरगम	प म	प म	ग ग	रे ग
बोल	रा इ	न्सा न	ब न	के दे ख
स्वर नं०	१४ १३	१८१८१८	१८१६१६	१४ १३
सरगम	रे स	म म म	म ग ग	रे स
बोल	ध र	ती पै चा	र दि न	क भी

अग्रवाल बुकडिपो खारीबावली देहली २७१

स्वर नं०	११	१३ १५	१६ १६	१४ १३
सरगम	नी	स रे	ग ग	रे स
बोल	मे ह	मा न	ब न	के दे ख

स्वर नं०	११	१३१५१६	१६ १५	१३
सरगम	नी	स रे ग	ग रे	स
बोल	मे ह	मा न ब	न के	दे ख

कोमल स्वर—ग म ध नी अन्तरा तार स्वर-स

स्वर नं०	२० २०	२०२०२०	२० २१	२३ २५
सरगम	प प	प प प	प ध	नी स
बोल	है जि	स को ते	री यां	ज क

स्वर नं०	२५ २३	२१ २१	२३ २१	२०
सरगम	स नी	ध ध	नी ध	प
बोल	भी उ	स की	ले ख	ब र

स्वर नं०	२० २०	२०२०२१	२३ २५	२५ २५
सरगम	प प	प प ध	नी स	स स
बोल	ओ आ	स मा न	वा ले	ग री

स्वर नं०	२३२१	२३ २१	२१ २०	२०
सरगम	नी ध	नी ध	ध प	प
बोल	बो पे	क र	ने ज	र

स्वर नं०	१३	१३ २०	२० २०	२० २०
सरगम	स	स प	प प	प प
बोल	दि	ल में	कि सी	ग री

स्वर नं०	२१२०१८	१८ १८ २०	१८ १६ १६	१५ १६
सरगम	ध प म	म म प	म ग ग	रे ग
बोल	ब के	अ र मा	न ब न	के दे ख
स्वर नं०	१४ १३	१३ १८ १८	१६ १६	१६ १४ १३
सरगम	रे स	स म म	ग ग	ग रे स
बोल	ध र	ती पै चा	र दि	न क भी

गाना नं० ११० स्थाई

सैयां दिल में आना रे आके फिर न जाना रे  
 छम छमा छम छम .....  
 राजा बन के आना रे मोहे लेके जाना रे  
 छम छमा छम छम.....

### अन्तरा

चांदनी रात होगी तारों की बरात होगी  
 पहले पहले प्यार की पहली पहली बात होगी  
 खुशी खुशी गायेगे हम गीत सुहानारे  
 सैयां दिल में आना रे.....

थोड़ी थोड़ी छेइ होगी थोड़ा प्यार होगा  
 कभी इकरार होगा कभी इनकार होगा  
 तेरा मनाना मेरा रुठ जाना रे  
 सैयां दिल में आना रे ... ...

उम मेरे पास होगे गम बड़ी दूर होगा  
 कहता है जीया मेरा होगा जरूर होगा  
 लाना रे लाना तशरीफ लाना रे  
 सैयां दिल में आ ना रे .....

(फ्लम बहार से )

अग्रवाल बुकडिपो स्तारीबावली देहली  
ताल कहरवा स्थाई

२७३

कोमल स्वर—मध्य

स्वर नं	१३ २०	२० २० २१	२० १८	२०
सरगम	स प	प प ध	म प	प
बोल	सैं यां	दि ल मे	आ ना	रे
स्वर नं०	१३ २०	२० २० २१	२० १८	२०
सरगम	स प	प प ध	प म	प
बोल	आ के	फि र न	जा ना	रे
स्वर नं०	१३ १३	१३ १३	१३ १३	१३ १३
सरगम	स स	स स	स स	स स
बोल	छ म	छ मा	छ म	छ म
स्वर नं०	१३ २०	२० २० २१	२० १८	२०
सरगम	स प	प प ध	प म	प
बोल	रा जा	ब न के	आ ना	रे
स्वर नं०	१२ २०	२० २० २१	२० १८	२०
सरगम	स प	प प ध	प म	प
बोल	मो हे	ले के	जा ना	रे॥
स्वर नं०	१३ १३	१३ १३	१३ १३	१३ १३
सरगम	स म	स स	स स	स स
बोल	छ म	छ मा	छ म	छ म

कोमल स्वर—नी ध

अन्तरा

तार स्वर—स रे

स्वर नं०	२० २०	२२ २३	२५ २५	२५
सरगम	प प	ध नी	स स	स
बोल	चां द	नी रा	र हो	गी
स्वर नं०	२३ २२	२३ २५	२३ २२	२० २०
सरगम	नी ध	नी स	नी ध	प प
बोल	ता रों	की ब	रा त	हो गी
स्वर नं	२७ २७	२७ २७ २७	२७ २८	२७ २५
सरगम	रे रे	रे रे रे	रे ग	रे स
बोल	प ह	ले प ह	ले प्या	र की
स्वर नं०	२३ २२	२३ २५	२३ २२	२०
सरगम	नी ध	नी स	नी ध	प
बोल	प ह ली	प ह ली	बा त	हो गी
स्वर नं०	२५ २५	२५ २५	२३ २१	२० २०
सरगम	स स	स स	नी ध	प प
बोल	खु शी	खु शी	जा यें	गे ह म
स्वर नं०	२१ २०	१८ १६	१५ १३	१३
सरगम	ध प	म ग	रे स	स
बोल	गी त	सु हा	ना	रे

खर नं०	१३ २०	२० २०	२१ २०	१८ २०
सरगम	स प	प प	ध प	म प
बोल	सैं यां	दि ल	में आ	ना रे

फिर स्थाई बजायें

गाना च० १११

### स्थाई

प्यार की बहार लेके दिल का करार लेके  
आजा रे आजा परदेशिया  
हो परदेशिया

### अन्तरा

कोई मेरा दोष है न कोई कसूर है  
क्यों मेरे साजना नजरों से दूर है, नजरों से दूर है  
नजरों में प्यार लेके सपनों के हार लेके  
आजा रे आजा परदेशिया .....  
हो परदेशिया .....

कहां गये जालिम मुझ को बिसार के  
याद करो बालमा बायदे वो प्यार के बायदे वो प्यार के  
गुलो गुल जार लेके बागो बहार लेके  
आजा रे आजा परदेशिया  
हो परदेशिया.....प्यार की बहार लेके.....  
( फ़िल्म बहार से )

४७६

## हारमोनियम गाईड

को० स्वर—रे ग म

स्थाई

तार कोमल स्वर—रे

स्वर नं०		१३	१४ १३	११ १३
सरगम		स	रे स	नी स
बोल		प्या	र की	ब हा
स्वर नं०	१४ २०	२० १३ १४	१३ ११	१३
सरगम	रे प	प स रे	स नी	स
बोल	र ले	के दि ल	का क	रा
स्वर नं०	१४ २०	२० १८ १८	१६ १४	१४ १३
सरगम	रे प	प म म	ग रे	रे स
बोल	रे ले	के आ जा	रे आ	जा प
स्वर नं०	११ ११	१३ १३	१३ १४	१६ १४
सरगम	नी नी	स स	स रे	ग रे
बोल	र दे	शि या	हो	प र
स्वर नं०	१३ १३	१३		
सरगम	स स	स		
बोल	दे शि	या		
कोमल स्वर—म ग रे नी		अन्तरा	तार स्वर—स	
स्वर नं०	२० २०	२०	२२	२३ २५
सरगम	प प	प	ध	नी स
बोज्ज	को ई	मे	रा	दो घ

स्वर नं०	२५ २५	२३ २३	२२ २२	२३
सरगम	स स	नी नी	ध ध	नी
बोल	है न	को ई	क सू	र
स्वर नं०	२३ २१	२१ २१	२० २०	२० १८
सरगम	नी ध	ध ध	प प	प म
बोल	है क्यों	मे रे	सा ज	ना न
स्वर नं०	२० १८	१७ १४	१३ १८	२० १८ १७
सरगम	प म	ग रे	स म	प म ग
बोल	ज रों	से दू र	है न	ज रों से
स्वर नं०	१४	१३ १३	१४ १३ ११	१३ १४
सरगम	रे	स स	रे स नी	स रे
बोल	दू र	है न	ज रों में	प्या र
स्वर नं०	२० २०	१३१५१३	११ १३ १५	२० २०
सरगम	प प	स रे स	नी स रे	प प
बोल	ले के	स प नों	के हा र	ले के
स्वर नं०	१८ १८	१६ १५	१५ १३ ११	११ १३ १३
सरगम	म म	ग रे	रे स नी	नी स स
बोल	आ जा	रे आ	जा प र	दे शि या

स्वर नं०	१३ १४	१६ १४	१३ १३	१३
सरगम	स रे	ग रे	स स	स
बोल	हो	प र	दे शि	या

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० ११२ स्थाई

अय दिल तुम्हे कसम है तू हिम्मत न हारना ।

दिन जिन्दगी के जैसे गुजरें गुजारना

अन्तरा

उल्फत के रास्ते में मिलेंगे हजारों गम, मिलेंगे हजारों गम  
आ जाये अगर जान पै तो गम से न हारना

अय दिल तुम्हे कसम है...

दुनियां तुम्हे पुकारे न करना गिला कोई,

न करना गिला कोई

जो तेरे हो चुके हैं तू उनको पुकारना

अय दिल तुम्हे कसम है...

( फ़िल्म दुलारी से )

ताल कदरवा स्थाई

कोमल स्वर—रे ग म

मन्द्र कोमल स्वर—ध नी

स्वर नं०	६ ११	१३	१४ १६	१५ १४
सरगम	ध नी	स	रे ग	रे रे
बोल	अ य	दि ल	तु म्हे	क स म

अग्रवाल बुकडिपो खारीबावली देहली

२७६

स्वर नं०	१३ १३ १४	२० २०	२१ २०	१८ १६
सरगम	स स रे	प प	ध प	म ग
बोल	है तू	हि म्म	त न	हा र
स्वर नं०	१८ २० १८ १६	१८ २०	१८ १६ १५	१८ १८ १६
सरगम	म प म ग	म प	म ग रे	ग म ग
बोल	ना दि न	जि न्द	गी के	जै से
स्वर नं०	१४ १३ ६ ११	१३ १६	१४ १३	६ ११
सरगम	रे स ध नी	स ग	रे स	ध नी
बोल	गु ज रे	गु जा	र ना	अ य
स्वर नं०	१३ १३	१३ १६	१४ १४	१३ १३
सरगम	स स	स ग	रे रे	स स
बोल	दि ल	तु फे	क स	म है

अन्तरा म० को०—ध नी तार स्वर—स को० स्वर—म ध रे ग

स्वर नं०	२० २०	२० २०	१६ १८ २०	२० २०
सरगम	प प	प प	ग म प	प प
बोल	उ ल्फ	त के	रा स्ते	में मि
स्वर नं०	२१ २५	२३ २३	२१ २०	२० २० २०
सरगम	ध स	नी नी	ध प	प प प
बोल	लौं गे	ह जा	रौं ग	म मि ले

स्वर नं०	२० २०	२३ २१	२० २०	२१ २१ २१
सरगम	प प	नी ध	प प	ध ध ध
बोल	गे ह	जा रों	ग म	आ जा यें
स्वर नं०	११ २१	२१ २०	२० १८	१८ १६
सरगम	ध ध	ध प	प म	म ग
बोल	अ ग	र जा	न प र	तो ग
स्वर नं०	१६ १८ १६	१४ १६ १४	१३ ६	११ १३
सरगम	ग म ग	रे ग रे	स ध	नी स
बोल	म से न	हा र	ना अ	य दि ल
स्वर नं०	१३ १६	१४ १४	१४ १३	
सरगम	स ग	रे रे	रे स	
बोल	तु मे	क स	म है	

फिर स्थाई बजायें

भजन नं० ११३ स्थाई

प्रभु जी कहां लगाई देर

### अन्तरा

तुम वियोग में वहु दिन बीते पायो हेर न फेर  
 करो कृषा तब चरणन चित हो मम दिन होंवें तेर  
 माया तुम्हरी मोहे दबावे नहिं ज्यों गज को शेर  
 या जग में सब सहन पड़त हैं राग द्वेष मुठ भेर

गोपिन गर्व दूर करने तुम अन्तर्दित हुये फेर  
कृष्ण २ जब गोपी टेरें आये नहीं की बेर

स्थाई

मन्द्र स्वर—ध म नी

स्वर नं०	१५ १३	११ ६ ६	११ ११	११ १३
सरगम	रे स	नी ध म	नी नी	नी स
बोल	प्र भू	ऊ जी ई	क हां	ल गा
स्वर नं०	१६ १४	१३		
सरगम	ग रे	स प		
बोल	ई ई	दे र		

अन्तरा

कोमल स्वर—ग म रे

मन्द्र कोमल स्वर—नी

स्वर नं०	१८ १८	१८१८१८	१८ १६ १६	१६ १६
सरगम	म म	म म म	म ग ग	ग ग
बोल	तु म	वि यो ग	में ब हु	त दि
स्वर नं०	१६१४१३	११ ११	१३	१६
सरगम	ग रे स	नी नी	स	ग
बोल	न बी ते	पा यो	हे	र
स्वर नं०	१४ १३	१३		
सरगम	रे स	स		
बोल	न फे	र		

फिर स्थाई बजायें

भजन नं० ११४ ( धुरुव पद )

स्थाई

अंखियां हरि दर्शन की प्यासी  
देखन चाहत कमल नयनन को निशदिन रहत उदासी

अन्तरा

आप जाये द्वारका छाये डाल गये गल फांसी  
काहू के मन की को जानत लोगन के मन हांसी  
सूर श्याम ललिता उठ बोली लेगये करबट कांसी  
अंखियां हरि दर्शन की प्यासी

स्थाई

कोमल स्वर—ध रे

मन्द्र स्वर—स

स्वर नं०	१७ १६	२० २१ २०	१६ १७ १४	१७
सरगम	ग म	प ध प	म ग रे	ग
बोल	अं खि	यां ह	रि द र	श न
स्वर नं०	१६ १७	१४ १३	१३ १७	१७ १६
सरगम	म न	रे स	स ग	ग म
बोल	की	प्या सी	दे ख	न चा

स्वर नं०	१६ १६ १७	१४ १७ १६	१३ १४	१३ १७
सरगम	म म ग	रे ग म	स रे	स ग
बोल	ह त क	म ल न	य न	को नि

स्वर नं०	१७ १६	१६ २०	२१	२५ २० २५
सरगम	ग म	म प	ध	स प स
बोल	श दि	न र ह	त उ	दा सी

मन्द्र स्वर—स रे ग	अन्तरा	कोमज स्वर—ध
स्वर नं० १६ १६	२० २०	२२
सरगम म म	प प	ध नी
बोल आ प	जा ये	द्वा र का
स्वर नं० २५ २७	२५ २६	२६ २६ २५
सरगम स रे	स ग	ग रे रे स स
बोल छा ये	डा ल	ग ये ग ल
स्वर नं० २४ २१ २४	२५ २४ २१	२०
सरगम नी ध नी	स नी ध	प
बोल फां	सी	

भजन नं० ११५ स्थाई  
में उनके दरश की प्यासी  
जिनका ऋषि मुनि ध्यान धरत हैं योगी योगाभ्यासी  
अन्तरा

जिनको कहत हैं अजर अशोकी आश्रय है जिनके त्रिलोकी  
न वह जन्मे न वह मरे अकाल पुरुष अविनाशी  
अभेद अछेद अनन्त अनुपम है अक्षर और अनादि  
अतुल बल और अटल राज सकल सृष्टि है दासी  
स्थाई (ताल तीन) तार—ग ध नी, को०—ग, म० को०—ध नी

स्वर नं०	१६ १६	१६ १६ १६	१३ ११ १३
सरगम	म म	ग म ग	स नी स
बोल	मैं	उ न के	द र स

स्वर नं०	१० ११	१३ १६	१६	१६ १६
सरगम	ध नी	स म	म	ग म
बोल	की	त्या सी		जि नं का
स्वर नं०	२१	२३	२५ २५	२५
सरगम	ध	नी	स स	स
बोल	ऋषि	मु. नी	ध्या न	ध र त
स्वर नं०	२५	२३ २३	२३२३२३	२१२३२५२३२२
सरगम	स	नी नी	नी नी नी	धनीसनीधम
बोल	हैं	यो गी	यो गा	भ्या सी

को० स्वर-ध नी ग अन्तरा तार स्वर-समग मंद्र स्मर-नी ध

स्वर नं०	१६ १६	२१ २३	२५	२५ २५
सरगम	ग म	ध नी	स	स स
बोल	जि न को	क ह ते	हैं अ ज	र अ शो
स्वर नं०	२५ २३	२३ २३	२३ २३	२१ २३
सरगम	स नी	नी नी	न नी	ध नी
बोल	की आ	श्र य	जि न के	है
स्वर नं०	२५२३२१	१६ ३१	३१ ३१	३१ २८ २५
सरगम	स नी ध	म म	म म	म ग स
बोल	च लो	की ना	व ह ज	न हैं

स्वर नं०	२१२३२५	२३२११६	१६१६१६१६	१६ १३
सरगम	ध नी स	नी ध म	म म ग म	ग स
बोल	न व ह	म रे	अ का	ल पु
स्वर नं०	११ १३	१६ ११	१३ १६	१६
सरगम	नी स	ध नी	स म	म
बोल	रु प	अ वि	ना शी	

गाना नं० ११६ स्थाई

अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें क्यों कर रिभाऊं मैं !  
कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं !!

अन्तरा

करुं किस तरह आवाहन की तुम मौजूद हो हर जां  
निरादर है बुलाने में अगर घण्टी बजाऊं मैं  
तुम्हीं हो मूर्ति में भी तुम्हीं व्यापक हो फूलों में  
भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं  
लगाना भोग कुछ तुमको यह इक अपमान करना है  
खिलाता है जो सब जग को उसे कैसे खिलाऊं मैं  
तुम्हारी ज्योति से रोशन हैं सूरज चांद और तारे  
महा अन्धेर है भगवन अगर दीपक जलाऊं मैं  
भुजायें हैं न सीना है न गर्दन है न पेशानी  
तू है निर्लेप नारायन कहां चन्दन लगाऊं मैं  
अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें क्यों कर रिभाऊं मैं  
कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं  
ताल कहरवा स्थाई

स्वर नं०	१३ १३	१३ १५ १७	१५ १७ १७	२०२०१६
सरगम	स स	स रे ग	रे ग ग	प प म
बोल	अ ज ब	है रा न	हूँ भ ग	व न तु

स्वरनं०	१६ १७	१५ १३	१५ १७	१३
सरगम	म ग	रे स	रे ग	स
बोल	म्हें क्यों	क र	रि झा	ऊं मैं
स्वरनं०	१३ १३	१३ १५	१७ १५	१७
सरगम	स स	स रे	ग रे	ग
बोल	को ई	व स्तु	न हीं	ऐ सी
स्वरनं०	१६ २० २० १६	१६ १७ १५	१३ १५	१७ १३
सरगम	म प प म	म ग रे	स रे	ग स
बोल	जि से	से वा मैं	ला ऊं	मैं

## आँतरा

स्वरनं०	२० २०	२० २०	१६	१७ १६
सरगम	प प	प प	म	ग म
बोल	क रुं	कि स त	रह	आ वा
स्वरनं०	१६ २०	२० २० २०	२० १६	२० २२ २०
सरगम	म प	प प प	प म	प ध प
बोल	ह न	कि तु म	मौ जू	द हो
स्वरनं०	१६ १७	१७	१३ १३	१३ १५
सरगम	म ग	ग	स स	स रे
बोल	ह र	जा	नि रा	द र है

स्वर नं०	१७ १५	१७ १७	२० २० १६	१६ १७
सरगम	ग रे	ग ग	प प म	म ग
बोल	बु ला	ने मैं	अ ग र	घ न्टी
स्वर नं०	१५ १३	१५ १७	१३	
सरगम	रे स	रे ग	स	
बोल	ब जा	ऊं मैं		

फिर स्थाई बजायें

भजन नं ११७ ( धुरुव पद )

स्थाई

लाज को लाज लगे प्रभु जी

अपनी देख कहानी मुझ से अपना आप भगे

अन्तरा

मैं कहानी कोई नहीं कीन्हीं तुम जिससे हो सगे ।

न जाने मेरी कुटिया के कैसे भाग जगे

दया धनी तुम मेरे स्वामी आप रहे उमगे

पतित जान मोहे आए उभारन नित हो प्रे म पगे

ताल तीन

स्थाई

कोमल स्वर—ग

स्वर नं०			२० १६ २२ २०	१६ १५ १६
सरगम			प म ध प	ग रे म
बोल			ला ज ल	ला ज ल

स्वर न०	२० १६	२२२०१६१६१५	१६ १६	१६ १६
सरगम	प म	ध प म ग रे	ग ग	ग ग
बोल	गे प्र	भू जी	अ प नी	दे ख
स्वर न०	१६१५१६	१५ १३	१५ १६	१६२२२०१६
सरगम	ग रे ग	रे स	रे म	म ध प म
बोल	क हा	नी	मु झ से	अ प ना
स्वर न०	१६	१५	१६	२०
सरगम	ग	रे	म	प
बोल	आ	प	भ	गे
स्वर न०	१६	२२	२०१६१६१५	
सरगम	भ	ध	प म ग रे	
बोल	प्र	भू	जी	

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० ११८ धुरव पद स्थाई  
मैं न जानूं मोरो

नाव लगी कैसे छोर  
अन्तरा

मैं तो पत्थर भर भर लादी

घटा घिरी घन घोर  
मैं न जानूं मोरी

नाव लगी कैसे छोर

कोमल स्वर—ग

ताल कहरवा स्थाई

स्वर न०			१३	१३ २०
सरगम			स	स प
बो.			मैं	ना

स्वर नं०	२० १६	१६ १५	१३ १३	१३ १५
सरगम	प म	ग रे	स स	स रे
बोल	जा नूं	मो	री ना	व ल
स्वर नं०	१६ १६	१५ १६	१५ १३	
सरगम	ग म	रे ग	रे स	
बोल	गी	कै से	छो र	

को० स्वर-ग नी	अन्तरा	तार स्वर-स
स्वर नं०		१३ २०
सरगम		स प
बोल		मैं तो
स्वर नं० २०	२० १५ १६	१६ १६
सरगम	प	म ग
बोल	प त्थ	भ र
स्वर नं० २० २०	२३ २२	२०
सरगम	प प	प
बोल	घ टा	घ
स्वर नं० २३	२५	२५ २३
सरगम	नी	स नी
बोल	घो	घ प
	र	

स्वर नं०	१६ १६	१५ १३		
सरगम	म ग	रे स		
बोल				

गाना नं० ११६ (राग भैरवी) स्थाई

ईश्वर प्रेम का भर कर प्याला।

पीकर बन्दे हो मतवाला

अन्तरा

पंच तत्व की सुन्दर काया माटी में क्यों रोले  
जहर का प्याला लेकर मूर्ख अमृत रस धोले  
मन मन्दिर में ध्यान लगा कर जपते ओ३म की माला

ईश्वर प्रेम का भर कर प्याला.....

इक दिन तुझ को छोड़ कर मूर्ख खाली यहां से जाना होगा  
भला बुरा कर जा जगत में नहीं वापिस आना होगा  
सोच समझ कर चल इस जग में दिन दिन होय उजाला

ईश्वर प्रेम का भर कर प्याला.....

वीर वही है अन्तर्यामी घट घट में है सब का स्वामी  
पथ से मत डिग मूर्ख रह सच्चा पथ का अनुगामी  
लिख हारे ऋषि मुनी ज्ञानी वही करे तेरी प्रति पाला

ईश्वर प्रेम का भर कर प्याला.....

तालं कहरवा स्थाई

कोमल स्वर—रे गध नी

स्वर नं०		१३ १६ २०	२०
सरगम		स म प	प
बोल		ई श्वर	प्रे

अग्रवाल बुकडिपो खारीबावली देहली २६१

स्वर नं०	२०	२० २१	२३ २१	२० १६ २०
सरगम	प	प ध	नी ध	प ग प
बोल	म का	भ र	क र	प्या ला
स्वर नं०	२० २१	२० १६	१७१४१४	१५ १७
सरगम	प ध	प म	ग रे रे	रे ग
बोल	पी	क र	ब न्दे	हो
स्वर नं०	१६ १६	१४ १३		
सरगम	म ग	रे स		
बोल	म त	वा ला		

को० स्वर— नी ध	अन्तरा	तार स्वर— स
स्वर नं०		२५
सरगम		स
बोल		पं च
स्वर नं०	२५	२३ २५
सरगम	स	नी स
बोल	की	सु न्द
स्वर नं०	२० २१	२३ २१
सरगम	प ध	नी ध
बोल	मा	टी

स्वर नं०	२० २०	२५	१५ २५	२५
सरगम	प प	स	स स	स
बोल	रो ले	ज ह	र प्या	ला
स्वर नं०	२३	२५२३२१	२०	२०
सरगम	नी	स नी ध	प	प
बोल	ले	क र	मू	ख
स्वर नं०	२०२१२३२१	२०१६१६१६	१६	२०
सरगम	प ध नी ध	प म गम	म	प
बोल	अ मृ	त र	स	धा
स्वर नं०	२०१३१६२०	२० २०	२० २१	२३ २१
सरगम	प स म प	प प	प ध	नी ध
बोल	ले म न	म न्दि र	में ध्या	न ल
स्वर नं०	२०१६२०	२०२१२०	१६१७१५१५	१५ १७ १६
सरगम	प म प	प ध प	म ग रे रे	रे ग म
बोल	ग क र	ज प	ले	ओ झ म
स्वर नं०	१६	१५	१३	
सरगम	ग	रे	स	
बोल	की	मा	ला	

गाना नं० १२० ( धुरुव पद )

स्थाई (राग कल्याण)

सुर की गति मैं क्या जानूँ ।

एक भजन करना जानूँ ॥

अन्तरा

मर्म भजन का भी अति गहरा

उसको भी मैं क्या जानूँ

प्रभु प्रभु प्रभु करना जानूँ

नयनों से जल भरना जानूँ

फुलवारी लख लोग जगत में भूम भूम कर गाते हैं

जब पूछा क्या कुछ पाते हो बोल उठे मैं क्या जानूँ ॥ १ ॥

फुलवारी के फूल भूल कर जिसके गुण नित गाते हैं

उसके गुण गाऊं तो पूछे क्यों क्यों क्यों मैं क्या जानूँ ॥ २ ॥

गुण गाये प्रभु न्याय न छोड़े फिर तुम क्यों गुण गाते हो

मैं बोला मैं प्रेम दीवाना इतनी बातें क्या जानूँ ॥ ३ ॥

अधम शिरोमणि कौन जगत में, जब यह खोज चलाई है

मो तज जो यह पदवी पावे और कौन है क्या जानूँ ॥ ४ ॥

तू निवेड़ अपनी तूने क्यों औरों की अपनाई है ।

मैं बोला मैं प्रेम दीवाना इतनी बातें क्या जानूँ ॥ ५ ॥

ताल तीन स्थाई

मन्द्र स्वर—नी प ध

स्वर नं०			१३	१५
सरगम			स	रे
बोल			सु	र

स्वर नं०	१६ १७	१५ १३	१२	८ १०
सरगम	म ग	रे स	नी	प ध
बोल	की	ग ति	मैं	क्या जा
स्वर नं०	१३	१७ १७	२०	२० २२
सरगम	स	ग ग	प	प ध
बोल	नूं	ए क	भ ज	न क
स्वर नं०	२० २४	२२ २०	१६ १७	
सरगम	प नी	ध प	म ग	
बोल	र ना	जा	नूं	

मन्त्र स्वर—नी	अन्तरा	तार स्वर—स रे ग	
स्वर नं०		१७	१७
सरगम		ग	ग
बोल		म मैं	भ
स्वर नं०	१६	२२ २०	२५
सरगम	म	ध प	स
बोल	ज न	का	भी
स्वर नं०	२४ २५ २७	२६ २५	२५
सरगम	नी रे स	ग ग	ग रे
बोल	ग ह रा	उ स	को भी

स्वर न०	२४ २२ २०	१६ १६ १७	१७ २०	१७ २०
सरगम बोल	नी ध प क्या जा	म म ग नूं	ग प प्र भु	ग प प्र भु
स्वर नं०	१७ २०	२२ २०	२४	२२ २२
सरगम बोल	ग प प्र भु	ध प क र	नी ना	ध ध जा
स्वर नं०	२० १६ १७	२०	२० १७	१५ १५
सरगम बोल	प म ग नूं	प नै	प ग नों	रे रे ज ल
स्वर नं०	१२ १५	१७ १२ १२	१५ १३	
सरगम बोल	नी रे झ र	ग रे नी ना जा	रे स नूं	

फिर स्थाई बजायें

भजन नं १२१ (राग बागेश्वरी)

स्थाई

दरस बिन तरसत नैन हमारे

अन्तरा

बीतत रैन बेचैन शयन बिन रे प्रिय गिन गिन तारे  
 पलक पलक नहीं लगे पतक से, जीवन नाम सहारे ॥ १ ॥  
 भव भय भंजन मुनिमन रंजन प्राणन से भी प्यारे  
 तू जग त्राता अरु पितु माता ठाड़े द्वार तिहारे ॥ २ ॥  
 अजर अविनाशी सब घट बासों तीन लोक से न्यारे  
 धेर विरश्या पड़ी मोरी नैया कीजै नाथ किनारे ॥ ३ ॥

दीन बन्धु हे कृपा सिन्धु जीवन प्राण अधारे  
 'प्रह्लाद' शरणागत तुमरी बार बार बलिहारे ॥ ४ ॥

ताल तीन स्थाई

कोमल स्वर—ग नी

मन्द्र स्वर—नी

स्वर नं०			१६	१६ १५
सरगम			म	ग रे
बोल			त र	स त
स्वर नं०	१३ १५ १०	११ १३	१३	१६
सरगम	स रे ध	नी स	स	म
बोल	नै न	ह मा	रे	द र
स्वर नं०	२२ २३	२२		
सरगम	ध नी	ध		
बोल	स वि	न		

अन्तरा को० स्वर—ग नी तार—स रे मन्द्र को०—नी

स्वर न०		११	१० ११	१३ १३
सरगम		नी	ध नी	स स
बोल		बी	त त	रे न
स्वर नं०	१६ १६	१६	१६ १५	१३ १६
सरगम	म म	ग	ग रे	स म
बोल	वे चै	न श	य न वि	न रे

स्वर नं	१६ १६	२२	२३	२५ २५
सरगम	म म	ध	नी	स स
बोल	प्रि य	गि न	गि न	ता रे
स्वर नं०	२३२२२३२५	२५ २५	२५	२८ २७
सरगम	नी ध नी स	स स	स	ग रे
बोल	ए	प ल	क प	ल क
स्वर नं०	२५	२५ २३	२२ २२	२३
सरगम	स	स नी	ध ध	नी
बोल	न	हीं ला	गे प	ल क
स्वर न०	२२	१६ १६	१६ २२	२३
सरगम	ध	म म	म ध	नी
बोल	से	जी व	न ना	म
स्वर नं०	२३ २५	२३ २१	१६ १६ १५	१३
सरगम	नी स	नी ध	म ग रे	स
बोल	स हा	रे	ए	—

फिर स्थाई बजायें

गाना न० १२२

स्थाई

तेरे पूजन को भगवान्

बना मन मन्दिर आलीशान

## अन्तरा

किसने देखी तेरी माया  
 किसने भेद है तेरा पाया  
 ऋषि मुनि हारे कर ध्यान बना मन...

किसने देखी तेरी सूरत  
 कौन बनावे तेरी मूरत  
 तू है निराकार भगवान, बना मन...

यह संसार है तेरा मन्दर  
 तू रमा है इसके अन्दर  
 करते ऋषि मुनी सब ध्यान, बना मन...

तू हर गुल में तू गुलशन में  
 तू हर फूल में हर पातन में  
 तू है सब में मूर्तिमान, बना मन...

तू ही मन में तू ही बन में  
 तू ही बन में तू ही धन में  
 तेरा रूप अनूप महान<sup>१</sup> बना मन...

तू ने राजा रंक चनाये  
 तू ने भिन्नुक राज बिठाये  
 तेरी लीला ईश महान, बना मन...

भूठे जग की भूठी माया  
 भूख इसमें क्यों भरमाया  
 कर कुछ जीवन का कल्याण, बना मन...

ताल कहरवा स्थाई

कोमल स्वर—ग

मन्द्र स्वर—नी

स्वर नं०	१६ १५	१३ १२	१३ १५
सरगम	ग रे	स नी	स रे
बोल	ते	रे	पू ज न

अग्रवाल बृक्षदिपो खारीबावली देहली

२६६

स्वरनं०	१५ १३	१५१६	१६	१६ १५ १६
सरगम	रे स	रे म	ग	ग रे ग
बोल	को	भ ग	बा न	ब ना
स्वरनं०	१६ २०	१५	१५	१६ १५
सरगम	म प	रे	रे	ग रे
बोल	म न	म	न्दि र	आ
स्वरनं०	१३ १२	१३ १३		
सरगम	स नी	स स		
बोल	ली	शा न		

कोमल स्वर—ग

अन्तरा

मन्त्र स्वर—नी

स्वरनं०		१३	१३
सरगम		स	स
बोल		कि स	ने
स्वरनं०	१५ १५	१६ १६	२०
सरगम	रे रे	म म	प
बोल	दे खी	ते री	मा
स्वरनं०	२०	२० १६	२० २२
सरगम	प	म प	म म
बोल	कि स	ने भे	द ते

स्वर नं०	२० १६	१६१५१६	१६ २०	१५
सरगम	प ग	ग रे ग	प म	रे
बोल	है पा	या हा	रे	ऋषि
स्वर नं०	१५१७१५	१३ १२	१३	
सरगम	रे ग रे	स नी	स	
बोल	मु नि	क र	ध्या न	

गाना नं० १२३ स्थाइ

आनन्द रूप भगवन किस भाँति तुमको पाऊँ ।

तेरे समीप स्वामी, मैं किस तरह से आऊँ

### अन्तरा

सुख मूल भक्ति रूपम, मंगल कुशल स्वरूपम्  
 घड़ियाल शंख को क्या, सम्मुख तेरे बजाऊँ ॥ १ ॥  
 अनुपम परम छबीले, बिन रंग रस रसीले  
 कण्टक सखा है फुलवा, क्या सिर तेरे चढ़ाऊँ ॥ २ ॥  
 कोटानुकोटि भूमि उस पर असंख्य प्राणी  
 जगदीश अपना नम्बर मैं कौन सा गिनाऊँ ॥ ३ ॥  
 श्रीलक्ष्मी है तेरी निश दिन चरण की चेरी  
 ताम्बे का एक पैसा मैं नाथ क्या चढ़ाऊँ ॥ ४ ॥  
 गंगा है तेरी दासी सेवक है इन्द्र तेरा  
 तेरे शरीर पर क्या एक लोटा जल चढ़ाऊँ ॥ ५ ॥  
 छोटे से दास तेरे रवि चन्द्र है उपस्थित  
 करते हैं निन उजाला धृत दीप क्या जलाऊँ ॥ ६ ॥  
 बिनतो है नेक स्वामी निरादिन यही दयामय  
 हो हृदय में ध्यान तेरा आंखों मैं मैं समाऊँ ॥ ७ ॥

आनन्द रूप भगवन किस भाँति तुम को पाऊँ  
तेरे समीप स्वामी मैं किस तरह से आऊँ।  
ताल दादरा स्थाई

कोमल स्वर—ध नी

मन्त्र स्वर—स

स्वर नं०			२०	२०
सरगम			प	प
बोल			आ न	द
स्वर नं०	२० २२	२० १६	२०	१६
सरगम	प ध	प म	प	मा
बोल	रू प	भ ग व	न कि	स भाँ
स्वर नं०	१६	१६ २०	२२	२०
सरगम	ग	म प	ध	प
बोल	ति तु	म को	पा ऊँ	ते रे
स्वर नं०	२३	२३	२२ २३	२५
सरगम	नी	नी	ध नी	स
बोल	स मी	प स्वा	मी	मैं कि
स्वर नं०	२३ २०	२१ २०	१६ २०	२१
सरगम	नी प	ध प	म प	ध
बोल	स त	र ह	से आ	ऊँ

कोमल स्वर—ध नी		अन्तरा		मन्त्र स्वर—स	
स्वर नं०	२०	२३	२३	२३	२२
सरगम	प	नी	ना	ध नी	
बोल	सु ख	मू ल	भ कि	रु प म	
स्वर नं०	२५	२३	२१	२०	
सरगम	स	नी	ध	प	
बोल	मं ग	ल कु	श ल	स्व.	
स्वर नं०	१६ २०	२१	२०	२०	
सरगम	म प	ध	प	प	
बोल	रु प म	ध डि या	ल शं	ख	
स्वर नं०	२० २०	२२२०१६१६	२०१६१६	१६ २० २२	
सरगम	प प	ध प म म	प म ग	म प ध	
बोल	को क्या	स मु ख	ते रे	ब जा ऊं	

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० १२४ स्थाई

भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना ।

अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना ।

### अन्तरा

दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर !

तो देखते न रहना झट आके बचा लेना ॥

सम्भव है कंभटों में, मैं तुम को भूल जाऊं ।

पर नाथ कहीं तुम भी मुझको भुला न देना  
 तुम देव मैं पुजारी तुम इष्ट मैं उपासक  
 यह बात अगर सच है, तो सच करके दिखा देना  
 ताल दादरा स्थाई

कोमल स्वर—ग नी ध

तार स्वर—स

स्वर नं०	२० २०	२०	२२	२०
सरगम	प प	प	ध	प
बोल	भ ग	वा न	मो री	नै
स्वर नं०	२० १६	१० १६	१६ १६	२०
सरगम	प म	प म	ग म	प
बोल	या उ	स पा	र ल	गा
स्वर नं०	२२ २०	२३ २३ २२	२३ २५	२३ २०
सरगम	ध प	नी नी ध	नी स	नी प
बोल	दे ना	आ ब त	क जो	नि भा
स्वर नं०	२० २१	२१ २०	१६ २०	२० २१ २१
सरगम	प ध	ध प	म प	प ध ध
बोल	या है	आ गे	भी नि	भा दे ना

अन्तरा

कोमल स्वर—नी ध

तार स्वर—स

स्वर नं०	२० २३	२३	२२	२३
सरगम	प नी	नी	ध	नी
बो	द ल	ब ल	के सा	थ मा

स्वर नं०	२५	२३ २१	२० १६	२०
सरगम	स	नी ध	प म	प
बोल	या धे	रे जो	मु के	आ
स्वर नं०	२१ २०	२० २०	२२ २०	२०
सरगम	ध प	प प	ध प	प
बोल	क र	तो दे	ख ते	न
स्वर नं०	१६ १६	२०	१६	१६
सरगम	म म	प	म	ग
बोल	र ह	ना झ	ट आ	के
स्वर नं०	१६ २०	२२		
सरगम	म प	ध		
बोल	ब चा	ले ना		

गाना नं० १२५ स्थ ई

दो घड़ी भगवान का ले नाम तू

छोड़ कर दुनियां के सारे काम तू

अन्तरा

दो घड़ी का ध्यान ही रंग लायेगा

दे समय थोड़ा सुबह और शाम तू ॥ दो घड़ी...

शीशये दिल साफ कर आसन जमा

मन की चंचलता को प्यारे थाम तू ॥ दो घड़ी...

त्याग कर आलस्य जा सत्संग में

प्रेम रस का ये भक्त पी जाम तू ॥ दो घड़ी...

देख तेरे काम की यह बात है  
पायेगा दुनियां में फिर आराम तू ॥ दो घड़ी...

ताल—ढाई

स्थाई

तार स्वर—स रे

कोमल स्वर—नी ग ध

स्वर नं०	२५	२३	२७	२७	२५	२५	२३	२५	२३	२२
सरगम	स नी		रे	रे	स		स	नी		ध
बोल	दो घ		ड़ी भ			ग	वा		न	
स्वर नं०	२०	२२	१६	२०	२३		२२		२०	
सरगम	प ध म		प नी			ध		प		
बोल	का ले		ना म			तू		—		
स्वर नं०	१३	१५		१६	१६		१६	२०		२१
सरगम	स रे		ग ग			म	प		ध	
बोल	छो ड़		क र			दु	नि		यां	
स्वर नं०	२०	१६	२०	१६	१७	१५	१६		२०	
सरगम	प म प		म ग रे			ग		प		
बोल	के सा		रे का			म		तू		

आगे अन्तरा भी इसी प्रकार बजायें

\* समाप्त \*

# वायलन अथवा बेला शिक्षा

वायलन—यह एक अंग्रेजी शब्द है इसे हिन्दी में हम लोग बेला कहते हैं। यह साज विदेशी होते हुये भी देशी साज में महत्व रखता है। यह साज वैसे तो बंगाल प्रांत का प्रिय साज है लेकिन हलका सुरीला और नगमें इस पर अच्छे बजने की वजह से सारे देश का भी प्रिय साज अगर है तो आज कल यह ही है, क्योंकि यह सब साजों से हलका है और बोल भी मधुर देता है।

वायलन के मुख्य २ भाग—

(१) कुम्भा (२) गल्लू या रीड बोर्ड (३) तार दान (४) त्रिज  
 (५) खूंटियां (६) बो या गज जिससे वायलन बजाया जाता है।

१—कुम्भ—यह बारीक लकड़ी का डब्बा सा होता है इसी के ऊपर त्रिज लगा रहता है

२—गल्लू—इसी पर स्वर निकाले जाते हैं; इसे रीड बोर्ड भी कहते हैं।

३—तारदान यह कुम्भ के निचले सिरे पर लगा रहता है, इसी में सब तार लगे होते हैं।

४—त्रिज—कुम्भ के ऊपर जो घोड़ी सी होती है लकड़ी की सब तार इसी के ऊपर से होकर जाते हैं।

५—खूंटियां—ये चार होती हैं और तार इन्हीं चार खूंटियों

में लगाये जाते हैं। स्वर करते समय खूंटी द्वारा ही तार ढीले और सख्त किये जाते हैं।

(६) वो या गज—इसी से यह साज बजाया जाता है। इस गज में एक तांत का तार लगा रहता है जिसकी रगड़ से ही आवाज पैदा होती है।

वायलन बेला की तारें—

बेला में चार तारें होती हैं। दो तारें ताम्बे की और दो तारें फौलाद की होती हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं—

१—ए A तार २—ई E तार, ३—जी G तार और ४—डी D तार हैं।

या इस तरह कहिए कि जो 'ए' तार है उसे 'प' स्वर 'ई' तार को 'रे' स्वर, 'डी' तार को 'स' स्वर और 'जी' तार को 'म' स्वर कहते हैं।

वायलन का स्वर करना—

वायलन को वास्तव में दो प्रकार से स्वर किया जाता है परन्तु जो पहला तरीका है वो ही आसान और सीधा है और सीखने के लिए पहला तरीका ही काम में लाया जाना अच्छा है।

पहला तरीका—'ए' तार को मध्य सप्तक के 'स' से स्वर करना चाहिये।

ई तार—को मध्य सप्तक के प स्वर के साथ आवाज मिला कर स्वर कर लेना चाहिए।

जी तार—को मन्द्र सप्तक के स स्वर के साथ आवाज मिला कर स्वर कर लेना चाहिये।

‘डी’ तार—को मन्द्र सप्तक के ‘प’ स्वर के साथ आवाज मिलाकर स्वर कर लेना चाहिए।

तार और खूंटी—

नं० १ खूंटी पर डी का तार नं० २ खूंटी पर जी को तार, नं० ३ खूंटी पर ए की तार और नं० ४ खूंटी पर ई की तार बांधनी चाहिए। इन्हीं खूंटियों की तारों को कस कर या ढीला करने से ही वायलन का मिलान होता है।

वायलन का बजाना—

सितार, सारंगी इत्यादि कई साजों में तूम्बा या कुम्भ नीचे की तरफ को ही रहता है मगर इसका ढंग तो कुछ अजीब ही है। इसका कुम्भ वाला भाग ऊपर को रहता है। इसके तार दान वाले भाग को बाँई तरफ खऊवे वाले भाग की हड्डी और ठोड़ी के बीच में दबाया जाता है और बायांहाथ खूंटी के साथ वाले गल्लू पर इस ढंग से रखा जाता है कि अंगुलियां खाली रहती हैं और इन ही अंगुलियों से वायलन के तार जिस समय गज या दो चलता है तो दबाए जाते हैं और उसी से बोल पैदा होता है। परन्तु ध्यान यह रखा जाता है कि अंगुली एक ही जगह से एक ही तार को दबाए दूसरे तार को नहीं।

वायलन में स्वर निकालना—

वायलन में स्वर निकालने के दो तरीके हैं, जो निम्न प्रकार हैं—

पहला तरीका—तार नं० १ पर प ध नी सॉ रेॉ गॉ और पॉ तक स्वर निकलते हैं।

तार नं० २ पर स रे ग म चार स्वर निकलते हैं।

तार नं० ३ पर प ध नी स चार स्वर निकलते हैं।  
००००

तार नं० ४ पर स रे ग म चार स्वर निकलते हैं।  
००००

दूसरा तरीका—तार नं० १ पर रे० ग० म० प० ध० नी० स० ये सब  
तार सातक की स्वरों निकलती हैं ।

तार नं० २ पर प० ध० नी० स० चार स्वर निकलते हैं ।

तार नं० ३ पर “स रे ग म” चार स्वर निकलते हैं ।

तार नं० ४ पर “म प ध नी” चार स्वर निकलते हैं ।

○○○○

### वायलन पर गज का चलाना:—

वायलन पर गज चलाते समय यह खास ध्यान रखा जाता है कि गज के ऊपर की तरफ चारों अंगुलियां हों और अंगुठा गज के नीचे की तरफ रहे ध्यान रहे जिस तार पर गज चलता है उसी तार पर अंगुली भी चलानी चाहिए । गज को तारों पर सीधा और एक समय एक ही तार पर चलाना चाहिए दूसरे तार पर लगने से बोल दुहरी देगा ।

### वायलन पर अंगुलियां चलाना—

यह साज उल्टा रखा जाने के कारण हथेली से तो इसकी ढांड और ठोड़ी से कुम्भ दबाया जाता है अंगुलियां सिरक तीन ही काम में आती हैं । “स” का स्वर वायलन पर खाली बिना कोई अंगुली धरे ही गज फेरने से बजता है “रे” स्वर बजाने के लिए पहली अंगुली “ग” स्वर बजाने के लिए दूसरी और “म” स्वर बजाने के लिए तीसरी अंगुली तार पर रखी जाती है इसी तरह चारों तारों पर अंगुलियां बारी बारी से रख कर अभ्यास करना चाहिए ।

## वायलन पर संगमे—

सरगम नं० १

आरोही—सा रे ग म प ध नी सां ।

अवरोही—सां नी ध प म ग रे सा ।

सरगम नं० २

आरोही—सा ग, रे म, ग प, म ध, प नी, ध सां ।

अवरोही—सां ध, नी प, ध म, प ग, म रे, ग सा ।

सरगम नं० ३

आरोही—सारे गम, रेग मप, गम पध, मप धनी, पध नी सां

अवरोही—सां नी धप, नी ध पम, धप मग, पमगरे, मग रेसा

सरगम नं० ४

आरोही—सा म, रे प, ग ध, म नी, प सा ।

अवरोही—सां प, नी मा, ध ग, परे, म सा ।

सरगम नं० ५

आरोही—सासारे, रेरेग, गगम, ममप, पपध, धधनी, नीनी सां

अवरोही—सां सां नी, नीनी ध, धधप, पपम, ममग, गगरे, रेरेसा ।

वायलन में बाकी सब हिसाब बाजे जैसा ही है किर्क भेद  
इतना है कि इसमें तारों पर उल्टे हाथ की अंगुलियां चलती हैं  
और उसके परदों पर सीधे हाथ की ।

## गाना नं० १ स्थाई

दुआ कर गमे दिल खुदा से दुआ कर ।

वफाओं का मजबूर दामन विछा कर ! दुआ कर...

## अन्तरा

जो विजली चमकती है उनके महल पर

वो करले तसल्ली मेरा घर जला कर

सलामत रहे तू मेरी जान जाये  
 मुझे इस बहाने से ही मौत आये  
 करूँगी मैं क्या चन्द सोसें बचाकर दुआ कर...  
 मैं क्या दूँ तुझे मेरा सब लुट चुका है  
 दुआ के सिवा मेरे पास और क्या है  
 गरीबों का एक आसरा ही खुदा है  
 मगर मेरी तुझ से यही इल्तजा है  
 ना दिल तोड़ना दिल की दुनियां बसा कर दुआ...  
 ( फिल्म अनारकली से )  
 ताल दादरा स्थाई

कोशल स्वर—म ग नी

सरगम	स रे	रे	स रे	ध प प
बोल	दु आ	क र	ग मे	दि ल
सरगम	म म	ग रे	रे	रे
बोल	खु दा	से दु	आ	क र
सरगम	प ध	नी नी	नी नी	ध प
बोल	व फा	ओं का	म ज	वू र
सरगम	म प	म ग	रे	
बोल	दा म	न ब चा	क र	

## अन्तरा

कोमल स्वर—नी ग

तार स्वर—स रे

सरगम			ध	नी नी
बोल			जो	बि ज
सरगम	नी नी	नी नी नी नी	ध ध नी	ध प
बोल	ली च	म क ती है	उ न के	म ह
सरगम	ग रे	ध ध नी	ध प	प म
बोल	ल प र	बो क र	ले त	स ल्ली
सरगम	ग ग	रे रे रे	रे	रे रे
बोल	मे रा	घ र ज	ला	क र
सरगम	ध ध नी	नी रे रे रे	स स	नी नी
बोल	स ला म	त र हे तृ	मे री	जा न
सरगम	नी ध	ध ध नी नी	ध प म	ग ग
बोल	जा ये	मु मे इ स	ब हा ने	भी मौ
सरगम	रे रे रे	रे रे ग स	रे ध	प म
बोल	त आये	क रुं गी मैं	क्या च	न्द साँ
सरगम	प म	ग रे	रे	
बोल	सें ब	चा क	र	

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० २ स्थाई

जाग दर्दे इश्क जाग दिल को बेकरार कर ।  
छेड़ के आंसुओं का राग जाग दर्दे इश्क जाग ।

अन्तरा

आंख जरा लगी तेरी सारा जहान सो गया  
ये जमीन सो गई आसमान सो गया  
सो गया प्यार का चिराग—जाग दर्दे इश्क जाग...  
आ आ आ आ  
किसको सुनाऊं दास्तान किसको दिखाऊं दिल के दाग  
जाऊं कहां कितनी दूर तक जलता नहीं कोई चिराग  
राख बन चुकी है आग दिल को बेकरार कर  
छेड़ के आंसुओं का राग—जाग दर्दे इश्क जाग

( फ़िल्म अनारकली से )

ताल दादरा स्थाई

मन्द्र स्वर—ध नी प

सरगम	ग रे	ग म	प म ग	रे स
बोज	जा ग	द दे	इ श्क	जा ग
सरगम	ध नी	प प	स रे ग	रे ग
बोल	दि ल	को बे	क रा र	क र
सरगम	ग म	प ध	ध प	म ग रे
बोल	छे डे के	आं सु	ओं का	रा ग

सरगम	स ग	रे ग	म प म	ग रे स
बोल	जा ग	द दे	इ श्क	जा ग

## अन्तरा

सरगम	म प	ध नी स	स स	स
बोल	आ आ	आ आ	कि स	को
सरगम	स स	म नी स	ध प नी	नी नी
बोल	सु ना	ऊं दा रता	न कि	स को
सरगम	स ध प	ग ग स	ग ग	ग ग
बोल	दि खा ऊं	दि ल का	दा ग	जा ऊं
सरगम	म ग	रे रे ग	स रे	ग
बोल	क हां	क्रि त नी	दूर	त क
सरगम	प ५ प	म ग रे	स रे	ग ग
बोल	ज ल ता	न ही को	ई चि	रा ग
सरगम	ग रे	म प	म रे	स स
बोल	रा ख	ब न चु	की है	आ ग
सरगम	ध ध नी	प ध स	रे ग ग	
बोल	दि ल को	बे क रा	र क र	

गाना नं० ३ स्थाई  
 दूर कोई गाये धुन ये सुनाये ।  
 तेरे बिन छलिया रे बाजे न मुरलिया रे ।

अन्तरा

मन के अन्दर प्यार की अग्नि नैना खोये खोये  
 अभी से है ये हाल तो आगे न जाने क्या होये  
 नीद नहीं आये बिरहा सताये तेरे बिन छलियारे  
 बाजे न मुरलिया रे……  
 मोरे अंगना लाज का पहरा पांव पड़ी जंजीर  
 याद किसी की जब जब आये लागे दिल पे तीर  
 आंख भर आये जल बरसाये तेरे बिन छलियारे  
 बाजे न मुरलियारे ।

(फिल्म बैजू बावरा से )

ताल कहरवा स्थाई

मन्द्र स्वर—नी प ध

सरगम	रे स रे	स नी	स रे	स रे
बोल	दूर को	ई गा	ये धु	न ये
सरगम	स रे स	प ध स	स रे	ग म
बोल	सु ना ये	ते रे बि	न छ	लि या
सरगम	ग ग ग	रे स रे	ग रे	स
बोल	रे बाजे	न मु र	लि या	रे
सरगम	ग म म	प प प	ध नी	नी
बोल	म न के	अ न्द र	प्या र	की

सरगम	ध प	ग म म	ग रे	स
बोल	अ ग नी	न य ना	खो ये	खो ये
सरगम	ग म म	प प	प ध	नी नी
बोल	अ भी से	हँ ये	हा ल	तो आ
सरगम	ध प ग	म म	ग रे स	रे स
बोल	गे न जा	ने क्या	हो ये	नी द
सरगम	रे स नी	स रे	स रे	स रे स
बोल	न हीं आ	ये बि	रहा	स ता ये
सरगम	प ध स स	रे ग म	ग ग	ग रे
बोल	ते रे बि न	छ लि या	रे बा	जे न
सरगम	स रे ग	रे स		
बोल	मु र लि	या रे		

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० ४ स्थाई

बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना ।

जब याद मेरी आये मिलने की दुआ करना ॥

अन्तरा

घर मेरी उम्मीदों का सूना किए जाते हो ।

दुनियां की मोहब्बत को लूटे लिए जाते हो

जो गम दिए जाते हो उस गम की दुआ करना...बचपन

सावन में पपीहे का सांगीत चुराऊंगी  
 फरियाद तुम्हें अपनी गा गा के सुनाऊंगी  
 आवाज मेरी सुनके दिल थाम लिया करना...चचपन  
 ( फिल्म बैजू बावरा से )  
 ताल दादरा स्थाई

मन्त्र स्वर—ध नी

सरगम	स स ध	स स	स रे	स रे
बोल	ब च प	न की	मो ह	ब्ब त
सरगम	म म	म ग म	प म	ग रे
बोल	को दि	ल से न	जु दा	क र
सरगम	स रे ग ग स	स रे स	स रे	स नी ध
बोल	ना ज ब	या त्	मे री	आ ये
सरगम	नी स रे	ध स रे	स स	स
बोल	मि ल ने	की दु आ	क र	ना

अन्तरा

तार स्वर—रे स

मन्त्र स्वर—नी

सरगम	प प	ग प	प प	ध रे स
बोल	घ र	मे री	उ झ्मी	दों का
सरगम	नी ध प म प	ध नी	ध	प
बोल	सू ना	कि ये	जा ते	हो

सरगम	प प	ग प प	प ध रे	स नी ध
बोल	दु नि	यां की मो	ह ब्ब त	को
सरगम	प ग	प ध	नी ध	प
बोल	लू टे	लि ए	जा ते	हो
सरगम	प ध	स नी		
बोल	ओ जी	ओ ओ		

फिर स्थाई बजायें

गाना नं० ५ स्थाई

घर आया मेरा परदेशी

प्यास बुझी मेरी अंखियन की ।

अन्तरा

तू मेरे मन का मोती है

इन नयनन की ज्योती है

याद है मेरे वचपन की, घर आया मेरा...

अब दिल तोड़ के मत जाना

रोती छोड़ के मत जाना

कसम तुम्हे इन अंसुवन की, घर आया मेरा...

( फिल्म आचारा से )

ताल दादरा स्थाई

सरगम	स रे	ग प	म ग	ग म रे म
बोल	घ र	आ या	मे रा	पर देशी

सरगम	स रे ग	रे म ग	रे रे ग	रे रे स
बोल	प्या स	बु भी मे	री अं खि	य न की
कोमल स्वर—ध नी ग म		अन्तरा		तार स्वर—स
सरगम	ध नी	ध स स	नी ध	नी ध प
बोल	तू मे	रे म न	का मो	ती है
सरगम	प ध नी	स स नी	ध नी	ध प
बोल	इ न नै	न न की	ज्यो	ती है
सरगम	ग म ग	प म	ग म	ग रे म
बोल	या द	है मे	रे व	च प न
सरगम	म स	रे ग रे	म ग रे	रे ग स ग
बोल	की घ	र आ या	मे रा	प र दे शी

जिया बेकरार है छाई बहार है आजा मोरे बालमा तेरा इन्तजार है  
अन्तरा

सूरज देखे चन्दा देखे सब देखे हम तरसें हो, सब देखे हम तरसे  
जैसे बरसे कोई बदरियां ऐसे अंखियां बरसे, ऐसे अंखियां बरसे  
जिया बेकरार है छाई बहार है...

नैनों से एक तारा टूटे मिट्ठी में मिल जाये हो मिट्ठी में मिल जाये  
भादों की बरसात सजनवा दिल में आग लगाये, दिल में आग—

जिया बेकरार है, छाई बहार है...

नजरें तुझको ढूँढ रही हैं मुखड़ा तो दिखला जा रे, मुखड़ा तो—  
रस्ते पर हूँ आस लगाये आने वाले आजा हो आने वाले आजा  
जिया बेकरार है... (फिल्म बरसात से)

ताल कहरवा स्थाई			मन्त्र स्वर—नी	
सरगम	स नी	स रे	म म म	प म ग
बोल	जि या	वे क	रा र है	छा ई ब
सरगम	ग ग ग ग	म ग रे	स रे रे रे	मग रे ससस
बोल	हा र है आ	जा मो रे	बाल मा ते	राइन्तजार है
अन्तरा			मन्त्र स्वर—नी प	
सरगम	प म	ग म प	प ध नी	ध प प
बोल	ओ ओ		सु र ज	दे खे चं
सरगम	म ग रे	रे ग म	ग रे रे	स स स नी
बोल	दा दे खे	स व दे	खे ह म	त र से हो
सरगम	रे ग म	ग रे स	स स ध	ध ध ध
बोल	स व दे	खें ह म	त र से	जै से ब र
सरगम	ध नी स	नी ध प	प म म	प म ग म
बोल	से को ई	ब द रि	या ए से	अं खि यां
सरगम	म म प ग	रे रे ग म	म ग	ग रे
बोल	ब र से	हो ए	से अं	खि यां
सरगम	स स स	नी प	नी स	
बोल	ब र से	जि या	वे क रा र है	

# सितार—शिक्षा

## सितार क्या है

( सितार भी एक मधुर और मस्त साज है बीणा के बाद इसी का नम्बर आता है । इसे अमीर खुशरो ने बीणा से ही इजाद किया बताते हैं । सितार में एक तूम्बा जरूरी है ! तूम्बे के साथ एक डंडी जिसमें तुर्पे या पर्दे होते हैं जरूरी हैं । किसी किली सितार में बीना की तरह विशेष नाद के लिए दो तूम्बे भी होते हैं । परन्तु यह कोई जरूरी नहीं होते सितार में पर्दों की संख्या १६ से १८ तक होती है । सप्तक सितार में भी बाजे की तरह तीन ही होती हैं बाकी थोड़ा भेद होता है बाजे में तीनों सप्तक सम्पूर्ण होती हैं और इसमें भन्द्र तथा तार सप्तक अधूरी होती है और मध्य सप्तक पूरी होती है । बाजे में आरोही और अवरोही होती है और सितार में उतार और चढ़ाव होता है । सितार में घोड़ी यानी तूम्बे की तरफ चढ़ाव होता है और खूटी यानी डंडी के सिरे की तरफ उतार होता है । इसमें दें सरकाने से कोमल व तीव्र बन जाते हैं इसी तरह अगर नीचे की तरफ यानी तूम्बी की तरफ सरकाने से पर्दा तीव्र और ऊपर की तरफ सरकाने से पर्दा कोमल हो जाता है केवल दो पर्दे पंचम और षष्ठ्य कोमल नहीं होते और नीचे की तरफ सरकाने से तीव्र बोलते हैं । पर्दे पीतल के और तांत से बन्धे होते हैं । )

### सितार का बजाना

सितार सीखने वाले को चाहिए कि वह आलती पालती मार कर बैठे और बाएं हाथ की ओर सितार की खूंटी वाला भाग रखें और दाहिनी ओर तूम्बे वाला भाग और सब से पहले सितार को जमीन पर रख कर उसका मिलान करे फिर बाद में तूम्बे को दाहिनी जांघ के नीचे दबाओ अगर तूम्बा छोटा हो और दबाव में न आए तो बांए पैर को दाहिने पंर के पास मोड़ कर बांए पैर पर तूम्बे को धरे और दाहिनी जांघ से दबाये यह बात जब तक है जब तक सीखने वाले को अभ्यास नहीं हो जाता । इसके पश्चात तो वैसे भी बजाया जा सकता है । तार बजाते समय दाहिने हाथ की अंगुठे के साथ बाली अंगुली में मिजराब पहरी जाती है जो बाज के तार पर लगाने से बाल पैदा करती है बांए हाथ की अंगुलियां पर्दों पर चलती हैं अंगुलियां पर्दों पर चलाते समय यह ध्यान रहे कि अंगुली ठीक तार को उसी पर्दे के ठीक ऊपर दबाए जिस पर्दे का बोल निकालना है । अंगुली अगर पर्दे पर ठीक नहीं पड़े गी तो पर्दे से बोल की आवाज साफ नहीं आयेगी ।

### सितार के तार और उनका मिलान-

(सितार में खूटियां होती हैं और उन खूटियों के साथ तार लगे होते हैं उन्हीं तारों का मिलान ही सितार की आवाज का खास कारण है और आवाज का निर्भर भी इसी पर है । खूंटी नं० १ पर लोहे का तार लगाया जाता है यह तार बाज का तार कहलाता है और इसी पर मिजराब से बोल निकाला जाता है इसी तार को बांए हाथ की अंगुली से दबाया जाता है । खूंटी नं० २ और ३ पर ताम्बे के तार चढ़ाये जाते हैं । ये तार जोड़ के तार या खरज कहलाते हैं । नं० ४ पर एक लोहे का पक्का

तार लगता है जिसे पंचम कहते हैं। नं० ५ खूंटी पर एक तार मोटा पीतल का लगता है जो लरज कहलाता है नं० ६ और ७ पर लोहे के पतले तार लगाये जाते हैं जो चिकारी या पपैया कहलाते हैं। इनकी आवाज बड़ी पैनी और मीठी होती है।

बाज सितारों में तार और खूंटी छः ही होती हैं। उन में दो तार लरज के होते हैं और चिकाड़ी एक होती है। लेकिन आम रिवाज सात खूंटी वाले सात तारों का ही है और यह ही हर जगह दिखाई पड़ते हैं। मिलान के बख्त दूसरे तार को किसी स्वर में कायम कर लेते हैं और तीसरे तार को उसी में मिला लेते हैं, इस तरह दोनों तार एक स्वर में हो जाते हैं और अब चौथा तार दूसरे और तीसरे तार के पंचम में मिलावे और अगर तार ज्यादा न खिंच सकता हो तो उसे मध्यम में ही मिला लेते हैं पर यह रिवाज ठीक नहीं है पंचम में ही मिलाना चाहिये। जब जोड़ के तार ठीक प्रकार मिल जायें तो उन से अपनी आवाज मिलाले और सा स्वर समझे। जब सा रे ग म स्वर गले से बोले और फिर प स्वर जो गले का है उस से तार नं० ४ मिलावे, पांचवाँ लरज तार पंचम तार के स्वर में हलके से मिलानी है ताकि आवाज लहराती हुई सुनाई दे चिकाड़ी जोड़ के स्वरों में मिलाई जाती है और दूसरी चिकाड़ी टीप के सा में मिलानी चाहिए। अगर जहां एक ही चिकाड़ी हो वहां स टीप के स्वर से ही मिलाई जाती है। इनके पांछे बाज का तार जोड़ के तारों के साथ सा से म में मिलाया जाता है। जब तार सब मिल जाते हैं तो बाद में जो ठाठ बजाना है वही ठाठ पर्दे सरका कर कायम किया जाता है। तार की आवाज की जो आंस (जो बाद में निकलती है) वह ही मिलनी चाहिये अगर

आंस मिल गई तो सितार अच्छा मिल गया बरना समझो ठीक नहीं मिला ।

### सितार के बोल

वैसे तो सितार में नाना प्रकार के बोल निकलते हैं । परन्तु इन बड़े चोलों के अलावा माने हुए बोल पांच या छः होते हैं पहला बोल बाज के तार पर मिज रात्र बाहर की तरफ से अन्दर की तरफ लाने से 'दा' बोल बजता है और अन्दर की तरफ से मिजराब बाहर की तरफ बाज के तार पर लगाने से 'रा' बोल बजता है । ये हुए दो बोल अब दोनों बोल 'दा' व 'रा' जल्दी से बजाने से जो आवाज पैदा होगी उसे 'दिर' कहते हैं । यह ही तीन बोल हैं जिन में सितार का संसार बसा है । इसमें चौथा बोल 'दा' बजाकर मिजराब को धीरे से चिकड़ी पर चटकने से बोलता है उसे दाढ़ कहते हैं ।

### सितार के ठाट

१—यमन ठाट—सितार में जो ठाट बन्धा रहता है उसे यमन ठाट कहते हैं । अर्थात् जिस ठाट में रे ग म ध नी स्वर तीव्र हों उसे यमन ठाट कहते हैं । इसी यमन ठाट में कई रागनियां बजाई जा सकती हैं, जैसे-हमीर, छाया, बिलावल, मालेश्री, इलैया इत्यादि । क्योंकि इकमें कोमल मध्यम का भी पर्दा बन्धा है । इसी यमन ठाट को अचल टाट भी कहते हैं ।

२—खम्माच ठाट—जब यमन ठाट में दूसरे सप्तक की 'नी' कोमल करदी जाती है तो खम्माच ठाट बन जाता है क्योंकि पहले सप्तक में कोमल 'नी' का पर्दा बंधा ही रहता है ।

३—काफी ठाट—जब खम्माच ठाट में 'ग' कोमल कर दिए जाते हैं तो काफी ठाट बन जाता है ।

४—भैरवी ठाट—जब काफी ठाट के स्वर 'रे' और 'ध'  
भी कोमल कर दिए जाते हैं तो भैरवी ठाट बन जाता है।

५—भैरवी ठाट—जब 'रे म ध' कोमल और ग तथा 'नी'  
तीव्र हों तो भैरव ठाट बन जाता है।

६—दरबारी ठाट—काफी ठाट में बीच का 'म' वाला पद्दि  
कोमल करने से दरबारी ठाट बन जाता है।

७—मारवा ठाट—भैरव ठाट में बीच का 'ध' तीव्र कर  
दिया तो मारवा ठाट बन जाता है।

८—मुलतानी ठाट—मारवा ठाट के मध्य व तार सप्तक  
के 'ग' स्वर कोमल मध्य सप्तक का 'ध', कोमल कर दिया जाये  
तो मुलतानी ठाट बन जाता है।

९—देशी ठाट—मुलतानी ठाट में दोनों 'रे', तीव्र व मध्य  
'नी', कोमल करने से देशी ठाट बन जाता है। आमतौर से यही  
ठाट बजाये जाते हैं।

### अभ्यास के लिये सरगमें

आरोही

सरगम—स रे ग म प ध नी सॉ

बोल—दा रा दा रा दा रा दा रा

अवरोही

सरगम—सॉ नी ध प म ग रे सा

बोल—दा रा दा रा दा रा दा रा

आरोही

सरगम—स रे ग म प ध नी स

बोल— दा दिर दा रा दा दिर दा रा  
अवरोही

सरगम— सं नी ध प म ग रे स

बोल— दा दिर दा रा दा दिर दा रा  
आरोही

सरगम— सं स रेरे गा मम पप धध नीनी सं स

बोल— दिर दिर दिर दिर दिर दिर दिर  
अवरोही

सरगम— सं स नीनी धध पप मम गग रेरे सं स

बोल— दिर दिर दिर दिर दिर दिर दिर  
बाकी सरगमें हारमोनियम की तरह से ही बजायें

ठाट यमन

गत यमन कल्याण

स्थाई

मन्त्र स्वर—ध नी

कोमल स्वर—ध प

सरगम	ध प	रे नी	सा रे	नी ध
बोल	दि र	दिर दिर	दा रा	दा दिर
सरगम	प म ग	रे ध नी	सा	रे
बोल	दा रा दा	दिर दा रा	दा	दा
सरगम	ग			
बोल	रा			

अन्तस

तार स्वर—स रे ग

मन्द्र स्वर—नी

सरगम		नी सा	रे ग	म
बोल		दा दिर	दा रा	दा
सरगम	प	ध नी	ग म	प
बोल	दि र	दा रा	दा दा	रा
सरगम	ध	नी	सा	रे ग
बोल	दि र	दा	दि र	दा रा
सरगम	ध प	रे नी	सा रे	नी ध
बोल	दि र	दिर दिर	दा रा	दा दिर
सरगम	प म	ग रे	ध नी	सा रे ग
बोल	दा रा	दा दिर	दा रा	दा दा रा

फिर स्थाई बजायें

ठाट यमन

नं० २

गत छाया नट स्थाई

मन्द्र स्वर—नी ।

सरगम	नी	सा नी	ध प	म प
बोल	दि र	दा दिर	दा रा	दा दा

सरगम	प	रे	रे	ग
बोल	रा	दि र	दा	दि र
सरगम	म	प ग	रे	सा
बोल	दा	रा दा	दा	रा

अन्तरा

मन्त्र स्वर-नी

सरगम				नी
बोल			.	दि र
सरगम	सा ग	रे सा	नी	ध प
बोल	दा दि र	दा रा	दा	दि र दा
सरगम	प	रे	ग	म प
बोल	रा	दा	दि र	दा रा
सरगम	ग रे	सा	नी सा	नी ध प
बोल	दा दा	रा	दि र दा	दि र दा रा
सरगम	म प	प	रे रे	ग म
बोल	दा दा	रा	दि र दा	दि र दा
सरगम	प ग	रे सा		
बोल	रा दा	दा रा		

फिर स्थाई बजाये

ठाट काफी  
नं० ३ गत पीलू रथाई

मन्द्र स्वर—प नी कोमल स्वर—ग ग

सरगम	प प	नी नी	सा सा	ग ग
बोल	दा दिर	दा रा	दा दिर	दा रा
सरगम	रे नी	सा	म ग	रे
बोल	दा दा	रा	दिर दा	दिर
सरगम	सा	सा		
बोल	दा	रा		

अन्तरा

कोमल स्वर—रे स

मन्द्र स्वर—नी प

सरगम			प	प
बोल			दा	दिर
सरगम	प	प	गम	प
बोल	दा	रा	दा	दिर
सरगम	गरे	सा	नी नी	सा
बोल	दा	रा	दा दा	रा
सरगम	म	ग रे	सा सा	प प
बोल	दिर	दा दिर	दा रा	दा दिर

३३०

## हारमोनियम गाईड

सरगम	नी नी	सा सा	ग ग	रे नी सा
बोल	दा रा	दा दिर	दा रा	दा दा रा
सरगम	म ग	रे सा	सा	
बोल	दिर दा	दिर दा	रा	

ठाट भैरवी

नं० ४

गत भैरवी

स्थाई

को० स्वर— ग रे नी

सरगम	म म	म म	ग	ग
बोल	दा दिर	दा रा	दा	दिर
सरगम	ग ग	सा सा	सा <u>रे</u>	म
बोल	दा रा	दा दा	रा	दिर
सरगम	ग रे	सा <u>नी</u>	सा	
बोल	दा दिर	दा	रा	

अन्तरा

कोमल स्वर—ग नी ध

तार स्वर—सा रे ग

सरगम				नी
बोल				दा

सरगम	सा ग	म ध	नी	सा सा
बोल	दिर दा	रा दा	दिर	दा रा
सरगम	ग	रे	सा	नी ध
बोल	दिर	दा	दिर	दा रा
सरगम	प	प	प प	ध
बोल	दा	दिर	दा रा	दा
सरगम	प ग	म ध	प ग	
बोल	दिर दा	रा दा	दा रा	

ठाट—यमन

नं० ५ गत—कल्याण स्थाई

मन्त्र स्वर—नी

सरगम			ग ग	रे स स
बोल			दिर	दा दिर
सरगम	नी रे	ग ग	ग प प	म ग ग
बोल	दा रा	दा रा	दा दिर	दा दिर
सरगम	रे स	नी रे	स नी नी	ध प प
बोल	दा दिर	दा रा	दा दिर	दा दिर
सरगम	ध नी	स स	स	
बोल	दा रा	दा रा	दा	

तार स्वर—स रे

अन्तरा

सरगम			ग ग	म प प
बोल			दिर	दा दिर
सरगम	ध नी	स स	स नी नी	ध नी नी
बोल	दा रा	दा दा	दा दिर	दा दिर
सरगम	स रे	ग रे	स स नी	ध प म
बोल	दा रा	दा रा	दा दिर	दा दिर
सरगम	प म	ग रे	स	
बोल	दा रा	दा रा	रा	

ठाट—दरबारी

नं० ६ गत—भीम पलासी स्थाई

कोमल स्वर—नी ग

को० मन्द्र स्वर—नी

सरगम			सा रे	नी स स
बोल			दिर	दा दिर
सरगम	ग	म	नी ध	प
बोल	दा	रा	दा दा	रा
सरगम	प प	म ग ग	म	प
बोल	दिर	दा दिर	दा	रा
सरगम	ग रे	स		
बोल	दा दा	रा		

अग्रवाल बुकडिपो खारीबावली देहली

३३३

को० स्वर—ग नी तार स्वर—स अन्तरा को० मं० स्वर—नी

सरगम			प प	म
बोल			दि॒र	दा॒
सरगम	ग ग	म प	नी॒ स	स
बोल	दि॒र	दा॒ रा॒	दा॒ दा॒	रा॒
सरगम	स नी॒	ध	प प	म प
बोल	दि॒र	दा॒	दि॒र	दा॒ रा॒
सरगम	ग रे॒	स	सा॒ रे॒	नी॒ स स
बोल	दा॒ दा॒	रा॒	दि॒र	दा॒ दि॒र

फिर स्थाई बजायें

ठाट—यमन

नं० ७ गत—हमीर स्थाई

तार स्वर—सा॒

सरगम		प	म ध प	प
बोज		दि॒र	दा॒	दि॒र
सरगम	ग म	ध ध	ध	ध
बोल	दा॒ रा॒	दा॒ दा॒	रा॒	दि॒र
सरगम	म	ध	नी॒	सा॒
बोल	दा॒	दि॒र	दा॒	रा॒

सरगम	नी	ध प		
बोल	दा	दा रा		

अन्तरा

सरगम			प	म
बोल			दिर	दा
सरगम	प म	प ग	ग म	रे
बोल	दिर दा	रा दा	दा रा	दिर

  

सरगम	ग	म	ध प	ग
बोल	दा	दिर	दा रा	दा

  

सरगम	रे	सा	प	म प ध
बोल	दा	रा	दिर	दा

फिर स्थाई बजायें

## तबला शिक्षा

(तबला—यह राग की जान होती है तबले के बगैर कोई भी राग रागनी अच्छी नहीं लगती और नां ही किसी राग रागनी के स्वर ताल की खबर चलती है, वैसे नो ढोलक, पखावज और संजरी इत्यादि भी बजाई जाती है परन्तु तबला एक अपनी किस्म का अनूठा ही साज है। यह दो चमड़े के मंडे हुए बाद्य है। इनके बीच में श्याही लगी रहती है। इनमें बहुधा बाया तबला मिट्टी की कुंडी पर मंडा होता है आम तबलों में पांच भाग होते हैं। (१) कुम्भ जिसे चट्ठ भी कहते हैं। (२) दीवार जिसे बदरी भी कहते हैं। (३) कड़ा या लंगोट (४) पुड़ा (५) गट्टे। (६) किनार (७) कोर (८) श्याही।

तबला के मुख्य २ भागों का वर्णन—

(१) कुम्भ—यह दो लकड़ी या एक मट्टी या एक ताम्बा के चहूं होते हैं।

(२) दीवार—चमड़े की मोटी ढोरी होती है इसी में गट्टे फसाये जाते हैं।

(३) कड़ा—यह चमड़े का होता है जिसमें दीवार चारों तरफ कसी जाती है और कुंडी इसी पर रखी रहती है।

(४) पुड़ा—यह दो चमड़े के ढक्कन की तरह के होते हैं।

इन्हीं में एक सफेद तथा दूसरा स्याही वाला होता है।

(५) गट्टे—यह लकड़ी के होते हैं जो चमड़े की डोरी में डाले जाते हैं इन्हीं को हथोड़ी से ऊंचा नीचा करने से तबला स्वर में मिलाया जाता है।

(६) किनार—तबले के बाहर वाले भाग पर एक चमड़े की दोहरी किनार सी होती है उसी को किनार कहते हैं।

(७) कोर—स्याही और किनार के बीच के भाग को कोर कहते हैं।

(८) स्याही—तबले के बीच में एक गोल स्याही का काला निशान सा होता है इसे ही स्याही कहते हैं।

### चिन्ह प्रयोग

× ऐसे निशान को ताल का सम मानना चाहिए।

○ ऐसे निशान को जहां बिन्दु हो खाली ताल समझनी चाहिए।

१ जहां एक (१) का निशान हो वहां एक ताल समझनी चाहिए।

२ जहां दो (२) का निशान हो वहां दो ताल समझनी चाहिए।

४ जहां चार (४) का निशान हो वहां चार ताल समझनी चाहिए।

१, २, ३, ४, ५, ६, ये १६ तक मात्रा हैं या जैसी ताल होती है उतनी ही उसी के हिसाब से मात्रा होती हैं जैसे त्रिताले में १६ मात्रा होती है, एक ताला व चौताले में १२ मात्राएं होती हैं इसी तरह अलग अलग तालों में मात्राओं का अलग २ हिसाब होता है।

लय

लय कहते हैं रफतार को संगीत में तीन प्रकार की रफतार होती है जिसे लय के नाम से पुकारते हैं।

(१) विलम्बित लय—यह रफतार धीमी होती है।

(२) मध्य लय—इसमें रफतार पहली रफतार से दूनी होती है साधारण भाषा में इसे दुगण भी कहते हैं।

(३) द्रुत लय—यह रफतार मध्य लय से दुगुनी यानी पहली रफतार (विलम्बित लय) से चौगुनी होती है इस लिए इसे चौगुण भी कहते हैं।

सम

ताल जब बजती है तो उसमें सम होता है क्योंकि बिना सम के कोई भी ताल नहीं होती। सम जब से ताल शुरू होती है उसी मात्रा को सम समझना चाहिए चाहे ताल किसी भी मात्रा से क्यों ना शुरू हो उसी मात्रा को उस ताल का सम समझना चाहिए। इसी तरह अलग २ तालों में अलग अलग मात्राओं के ऊपर सम होते हैं इस लिए हर एक ताल में एक ही मात्रा को सम न समझना चाहिए।

ताल

ताल कई प्रकार की होती हैं इसमें कई भाग होते हैं किसी ताल में ४ भाग होते हैं किसी में दो ही भाग होते हैं। ताल में एक भाग खाली का भी होता है जिससे बजाने वाला अपना सम समझ सके।

मात्रा

मात्रा गिनती या नम्बर को कहते हैं जैसे १, २, ३, ४,

५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५ और १६ अब इसमें भी भेद होता है किसी ताल में जैसे चौताला में १२ बारह ही मात्राएं होती हैं और आङ्ग चौताला जिसमें १४ चौदह ही मात्रा होती हैं भपताल इसमें १० दस ही मात्रा होती हैं इसी लिए मात्रा का हिसाब ताल और ठेके के साथ होता है।

### तबला से निकलने वाले बोल

और उनके निकालने का कायदा । री, का, की, ना, टा, डा, ता ती, तिन, तू, धा, धी (री) यह बोल दाहिने हाथ की पहली अंगुली से निकाला जाना है अंगुली को जरा आड़ी कर के (का, की) यह बोल बांये हाथ की चारों अंगुलियों का कुछ खम देकर बांए तबले की श्याही की तरफ निकाला जाता है।

(ना) यह बोल दाहिनी हाथ की पहली अंगुली से बांए तबला की चौट की जगह से निकलता है।

(टा) यह बोल दाहिने हाथ की पहली अंगुली से बीच की अंगुली को रगड़ते हुए तबला की श्याही पर निकाला जाता है।

(डा) यह बाल दाहिने हाथ की दूसरी, तीसरी व चौथी अंगुली को जोड़ कर और थोड़ा सा खम देकर बांए तबला की श्याही पर आहिस्ता से निकाला जाता है।

(ता) यह बाल दाहिने हाथ की पहली अंगुली से दाहिने तबले की चौट की जगह से निकाला जाता है।

(ती) यह बोल साथ में या अकेले में निकाला जाता है दाहिने हाथ की तीसरी अंगुली दांए तबला की श्याही पर रख कर दूसरी अंगुली से निकाला जाता है।

(तिन तू) यह बोल दांए हाथ की दूसरी, तीसरी, व चौथी अंगुलियों को जोड़ कर बजाया जाता है।

(धा) यह बोल बांए और दाँये दोनों हाथों से एक साथ निकाला जाता है। दाहिने हाथ की पहली अंगुली से चोट की जगह से और बांए हाथ की सम्पूर्ण अंगुलियों की खम देकर श्यादी की परली तरफ से निकाला जाता है।

(धी) यह बोल दाँये और बांये दोनों हाथों से एक साथ निकाला जाता है। दाहिनी हाथ तीसरी अंगुली को स्याही पर भार कर फौरन उठाती जाती है ध्यान रहे दूसरी और चौथी अंगुली उठी ही रहें। फिर उसी समय बांए हाथ की चारों अंगुलियों से बांये तबला की परली तरफ बजाया जाता है।

बोल, ताल, चिन्ह व मात्राओं का वर्णन—

(१) आङ्ग चौताल मात्रा १४

चिन्ह	*	२		०
मात्रा	१ २	३ ४	५ ६	७ ८
बोल	धी धी	ना तृक	तू ना	कत ता
चिन्ह		४		
मात्रा	६ १०	११ १२	१३ १४	
बोल	ना धी	ना धा	धी ना	

(२) भपताल मात्रा १०

चिन्ह	x		२	
मात्रा	१	२	३ ४	५
बोल	धी	ना	धी धी	ना

चिन्ह	०	४		
मात्रा	६	७ ८	६ १०	
बोल	ति	ना धी	धी ना	

(३) ठेका तीन ताल मात्रा १६

चिन्ह	X		२	
मात्रा	१ २	३ ४	५ ६	७ ८
बोल	धा धि	धि धा	धा धि	धि धा
चिन्ह	०		४	
मात्रा	६ १०	११ १२	१३ १४	१५ १६
बोल	ता तिं	तिं ता	ता धि	धि ता

(४) ठेका चार ताल मात्रा १२

चिन्ह	X	२		
मात्रा	१ २	३ ४	५ ६	
बोल	धा धा	धि ता	किट धा	
चिन्ह	०	४		
मात्रा	७ ८	६ १०	११ १२	
बोल	धि ता	किट तक	गिद् गिन	

चिन्ह	x	2	० ४
मात्रा	१	२ ३	४ ५ ६
बोल	धा	धि ना	ता ति ना

(५) आङ्ग चौताला मात्रा १४

चिन्ह	x —	— २	— —	— ०
मात्रा	१ २	३ ४	५ ६	७ ८
बोल	धी धी	ना तृक	तू ना	कत्त त्ता
चिन्ह	— —	४ —	— —	— —
मात्रा	६ १०	११ १२	१३ १४	— —
बोल	ना धी	ना धी	धी ना	— —

(६) इकताला मात्रा १२

चिन्ह	x —	— २	— —
मात्रा	१ २	३ ४	५ ६
बोल	धि धी	धागे तिट	किट तूना
चिन्ह	० —	— ४	— —
मात्रा	७ ८	६ १०	११ १२
बोल	कत्ता धागे	तिट किट	धि ना

(३) ताल कब्बाली मात्रा =

चिन्ह	x —	२ —	० —	४ —
मात्रा	१ २	३ ४	५ ६	७ ८
बोल	तृक धी	धी ना	धी धी	धी ना

(४) ताल भूमरा मात्रा १४

चिन्ह	x —	— २	— —	०
मात्रा	१ २	३ ४	५ ६	७ ८
बोल	धी धी	तृक धिन	धिन धागे	तृक तिन
चिन्ह		४		
मात्रा	८ १०	११ १२	१३ १४	
बोल	ता तृक	धिन धिन	धागे तृक	

(५) धीमा तिताला मात्रा १६

चिन्ह	x		२	
मात्रा	१ २	३ ४	५ ६	७ ८
बोल	धिन धिन	ता ता	धिन धिन	ता ता

चिन्ह	०		४	
मात्रा	६ १०	११ १२	१३ १४	१५ १६
बोल	धिन धिन	ता ता	तिन तिन	ता ता

(१०) कहरवा मात्रा ४

चिन्ह	×	२	०	४
मात्रा	१	२	३	४
बोल	धागे	नाति	ताके	धीं

इसी तरह सब तालों का अभ्यास ठाक ढांग से करना चाहिए ताकि बजाते समय कठिनाई न हो।

---

## बांसुरी—शिक्षा

बांसुरी—बांसुरी एक ऐसा मधुर और सुरीज्ञा साज है कि जिसे कोई भी सुनले वही मुख्य हो जाता है और श्याम के समय की मधुरी धुन तो ऐसी प्यारी लगती है कि लोगों के दिल में एक लहर सी दौड़ा देती है यह वही साज है जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण चन्द्र मुरली धर कहलाते थे इसी बांसुरी का दूसरा नाम मुरली है। मुरली मनोद्वार की मुरली सुनकर तो वृज के नर नारी हर समय बेकल रहते थे इतना ही नहीं जब कभी जमुना किनारे श्याम मुरली बजाते थे तो गोपी अपना घर बार छोड़ कर उसी मुरली की धुन पर पहुंचती थी। इसी को सुन कर हर मनुष्य चाहता है कि हमें भी इसकी मधुर धुन बजाने का सौभाग्य प्राप्त हो। इसीलिए बांसुरी बजाने की सरल विधि यहां लिखी जाती है।

बांसुरी की किस्में—बांसुरी अक्सर दो तरह की होती है, एक तो सीधी या अलगोजार मा दूसरी आड़ी जिसे मुरली कहते हैं। इन दोनों में अधिकतर बांसुरी पीतल या लकड़ी की ही होती है। परन्तु इन के बजाने का तरीका तकरीबन एक सा ही है।

बांसुरी में स्वर स्थान—बांसुरी में अक्सर छः छिद्र होते हैं जहुधा एक छिद्र नीचे की तरफ होता है और कई २ में तो वैसे

ही सात छिद्र भी होते हैं इसके अतिरिक्त एक बड़ा छिद्र भी होता है जहां से हवा दी जाती है अलगोजानुमा बांसुरी में यह छिद्र सामने की तरफ होता है जहां मुंह लगा कर हवा दी जाती है और एक छिद्र ऊपर की तरफ भी होता है जहां से हवा निकलती है तब आवाज पैदा होती है। बांसुरी के सभी छिद्र बन्द करके अगर हवा दी जाये तो वह मध्य सप्तक का 'स' बजेगा और नीचे की तरफ से ऊपर को एक एक अंगुली बारी बारी से उठाने से बारी २ से स्वर बजेंगे जैसे एक अंगुली उठाने से 'रे' दो अंगुली उठाने से 'ग' तीन अंगुली उठाने से 'म' चार अंगुली उठाने से 'प' पांच अंगुली उठाने से 'ध' छः अंगुली उठाने से 'नी' और ६ छिद्र का ही जोर से फूक देने से तार सप्तक का 'स' बजेगा। जिस बांसुरी में ७ छिद्र होते हैं उसमें तार सप्तक का स्वर ७ वें छिद्र से बजेगा। कोमल स्वर बजाने के लिए अंगुलियां सरकाई जाती हैं जो स्वर कोमल बजाना है उसी की आधी आवाज से अंगुली सरका ले और जिन बांसुरियों में एक छिद्र जो नीचे की तरफ होता है और अंगूठे से बजाया जाता है उसमें 'नी' स्वर की आवाज आती है और ऊपर के स्वर से तार सप्तक का 'स' बजेगा।

बांसुरी बजाने का तरीका—बांसुरी बजाते समय खास कर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक समय में एक स्वर खुले, दो स्वर न खुलें। अंगुली बड़ी ध्यान से और आहिता उठानी चाहिये जिससे स्वर का बोल साफ आये।

सरगमें—

प्रथम सब स्वर बन्द करके नीचे के स्वर से बारी २ से अंगुली हटानी चाहिये।

आरोही—१ २ ३ ४ ५ ६ ०

स रे ग म प ध नी सं

अवरोही—० ६ ५ ४ ३ २ १

सं नी ध प म ग रे स

आगे भी इसी तरह से अभ्यास करना चाहिए।

गाना नं० १ स्थाई

मुझ से मत पूछ मेरे इश्क में क्या रखा है

एक शोला है जो सीने में छिपा रखा है

### अन्तरा

दागे दिल दागे जिगर दाग तमन्ना लेकर

मैंने बीरान बहारों को सजा रखा है। मुझ से...

है जमाना बेताव जिसे मिटाने के लिए

मैंने उस याद को सीने से लगा रखा है। मुझ से...

देखने वाले मुझे दर्द मोहब्बत की कसम

मैंने इस दर्द में दुनियां को भुला रखा है। मुझ से...

(फिल्म अनार कली से)

ताल दादरा

स्थाई

पहले सब स्वर बन्द करने चाहिए

बोल —————— स्वर नं०

मुझ	१ १
-----	-----

से म	१ ३ ४
------	-------

त पू	३ ४
------	-----

छ	४
मे रे	४ ४
इश्क	५ ५
में	४
क्या	३
र खा	२ ३
है	३

एक शोला है जो सीने में, यह लाईन भी इसी ढंग से बजायें।

अन्तरा

बोल ————— स्वर नं०

दा गे	३ ५
दि ल	६ ६
दा	६
गे	६
जिग	६
र	६
दा ग	६
त म	६
न्ना	५
ले	६
क	६
मे	३

बीरान	२ ३ ४
को	४
बहा	४ ४
दों में	५ ५
सजा	३ ३
रखा है	२ ३ ४

## गाना नं० २ स्थाई

यह जिन्दगी उसी की है जो किसी का हो गया  
प्यार ही में खो गया ! यह जिन्दगी उसी...

## अन्तरा

यह बहार ये समाँ कह रही है प्यार कर  
किसी की आरजू में अपने दिज्ज को बेकरार कर  
ये जिन्दगी है वेवफा लूट प्यार का मजा

यह जिन्दगी उसी की है ।

( फिल्म अनारकली से )

## ताल दादरा स्थाई

पहले सब स्वर बन्द करने चाहिए

बोल —————— स्वर नं०

यह	बन्द स्वर से
जिन्दगी	२
उसी	बन्द स्वर से
की है	बन्द स्वर से
जो किसी	२ १ १
का हो	बन्द स्वर से

गया	२ ३ २ ४
प्यार ही	२ ४
में खो	बन्द स्वर से
गया	" "

अन्तरा

बोल	स्वर नं०
ये बहार	२, ३, ४, ५
ये समा	६, ६,
कह	४
रहा है	३, २
प्यार	बन्द स्वर से
कर	" "
कि सी	१, २
की	१
आरजू	२, ३, ३
में	२
अपने	२
दिल	४
को वे	३, २
करार	१,
कर	बन्द स्वर से
ये जिन्दगी	२, ३ ४, ५
है वे वफा	५, ६, ६, ५, ३
लूट प्यार	४, ५, ४, ३
का मजा	बन्द स्वर से

## गाना नं० ३ स्थाई

आजा अब तो आजा मेरी किस्मत के खरीदार  
 नीलाम हो रही है तेरी चाहत भरे बजार, अब तो आजा  
 अंतरा

सब ने लगाई बोली ललचाई हर नजर  
 मैं तेरी हो चुकी हूँ दुनियां हैं वे खबर  
 जालिम बड़े भाले हैं मेरे ये तलबगार  
 अब तो आजा मेरी किस्मत के  
 हसरत भरी जवानी ये हुशन ये शबाब  
 रंगीन दिल की महफिल मेरे हसीन खाब  
 गोया कि मेरी दुनियां हैं लुटने को तैयार  
 अब तो आजा-मेरी किस्मत के\*\*\*  
 (फिल्म अनारकली से) .

## ताल—दादरा स्थाई

पहले सब स्वर बन्द करने चाहिए

बोल ————— स्वर नं०

आजा	२, ४, ३
अब तो	३, ४, ३
आजा	१, स
मेरी	४, ४
किस्मत	४, ५, ४, ३

के	३
खरी	१ स
दार	३ ३
आव	२ ३
तो	२
आ	१
जा	स (सब स्वर बन्द)
आ	स "
आ	स "

दूसरी कली भी इसी प्रकार बजायें।

अन्तरा

बोल	स्वर नं०
सब ने	४ ४ ४
ल गा ई	३ ३ २
बो ली	४ ४
ल ल	१ १
चा ई	१ २
ह र	३ ३
न ज र	२ १ १
मैं	१
ते री	३ ३
हो	३
चुकी	१ ३
हूँ	३
दुनियां	स १ २
है	२

वे	३
ख ब र	२ १
जालिम	४ ५
ब ड़े	बन्द स्वर से
भो ले	बन्द स्वर से
है	"
वो	"
गे रे	"
त ल ब	"
गा र	"
अ ब	२ ३
तो	२
आ	१
जा	स्वर बन्द से
आ	"
आ	"

SRI RAMAKRISHNA ASHRAMA, स्थाई बजायें  
 SIVALAYA  
 KARAN NAGAR,  
 SRINAGAR, KASHMIR.

SRI RAMAKRISHNA ASHRAMA  
 LIBRARY. SRINAGAR.

Accession No-२०७२

Date ११-११-८१

राजेन्द्र प्रिंटिंग प्रेस, तेलीवाहा देहली।

# टैक्नीकल पुस्तके

## लोकोमोटिव गाइड

इस पुस्तक में रेलवे इंजन के बारे में पूरी-पूरी जानकारी दी गई है। रेल के इंजन के अलावा सड़क कूटने के इंजन, आइल इंजन, इलैक्ट्रिक इंजन, डीजल इंजन इत्यादि के बारे में पूर्ण रूप से बताया गया है। जो लोग लोकोमोटिव से सम्बन्ध रखते हैं, उनके लिये बड़ी आवश्यक पुस्तक है। मूल्य १२॥) डाक व्यय अलग।

## इलैक्ट्रिक वायरिंग

इस पुस्तक के पढ़ने से विजली की सभी प्रकार की हाउसिंग वायरिंग और सी०टी० एस० वायरिंग, सीखी जा सकती है। फ्लौरिसैन्ट, ट्यूब की वायरिंग, रेफ्रीजरेटर का आम सर्किट व मोटर वायरिंग, अण्डर प्राउण्ड वायरिंग, पावर वायरिंग अर्थात् विजली के मोटरों की वायरिंग इत्यादि के बारे में पूरी-पूरी जानकारी इससे हासिल हो सकती है। मूल्य ५) डाक व्यय अलग।

## खराद शिक्षा

जिसमें खराद के पुर्जों के नाम चित्रों सहित व चूड़ियों का हिसाब, नाप तोल का ढंग, पीतल व दूसरी धातुओं की ढलाई, मिलने वाली चीज और मिलिंग मशीन के तरीके साधारण भाषा में बताये गये हैं। अप्रेन्टिसों, इंजीनियरों, खरादियों व फिटरों के बड़े काम की चीज है। मूल्य ३) डाक व्यय अलग।

## मोटर मैकेनिक गाइड

वर्तमान समय में चलने वाली सब तरह के माडलों की मोटाड़ियों की मरम्मत करने का काम सरल विधि से चित्रों सहित संभाया गया है। और नई मोटरों की विजली का पूरा-पूरा हाल दिया गया है। इसकी सहायता से कोई भी आदमी मोटर ड्राइवरी सी सकता है। मूल्य ६) छः रुपया, डाक व्यय अलग।

मिलने का पता—

अग्रवाल बुकडिपो, थोक पुस्तकालय, खारी बाजार २ बे-२

ગુજરાત સર્વીન્દ્રસંગ્રહિ

१३५४८ विष्णु विश्वास द्वारा लिखी गई एक अन्य विवरणीय विष्णु की जीवन संक्षिप्त है।

**Sri Ramakrishna Ashram  
LIBRARY  
SRINAGAR**

Sri Ramakrishna  
LIBRARY  
SRINAGAR

*Extract from  
the Rules :—*

- Rules :—**

  1. Books are issued for one month only.
  2. An over - due charge of 20 Paise per day will be charged for each book kept over - time.
  3. Books lost, defaced or injured in any way shall have to be replaced by the borrower.

